



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 12—दिसम्बर 18, 2015 (अग्रहायण 21, 1937)

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 12—DECEMBER 18, 2015 (AGRAHAYANA 21, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

| पृष्ठ सं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | विषय-सूची                                                     | पृष्ठ सं. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं, ..... | *         |
| भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं, .....                                                                                                                                                                                                                | 1017                                                          |           |
| भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, .....                                                                                                                                                                                              | 1131                                                          |           |
| भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, .....                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17                                                            |           |
| भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, .....                                                                                                                                                                                                                                                      | 3089                                                          |           |
| भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम, .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *                                                             |           |
| भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ, .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *                                                             |           |
| भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट, .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *                                                             |           |
| भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं), .....                                                                                                                                | *                                                             |           |
| भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं, .....                                                                                                                                                                                       | *                                                             |           |
| भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं), ..... | *                                                             |           |
| भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश, .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *                                                             |           |
| भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, .....                                                                                                                                                                                                                      | 1695                                                          |           |
| भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस, .....                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *                                                             |           |
| भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *                                                             |           |
| भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं, .....                                                                                                                                                                                                                                                                   | 417                                                           |           |
| भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस, .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1137                                                          |           |
| भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण, .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *                                                             |           |

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Page<br>No. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Page<br>No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....                                                                        | 1017        | by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *           |
| PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....                                                                       | 1131        | PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..... | *           |
| PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....                                                                                                                                                                             | 17          | PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *           |
| PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....                                                                                                                                                       | 3089        | PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....                                                                                                                                                                                 | 1695        |
| PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .....                                                                                                                                                                                                                                           | *           | PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *           |
| PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....                                                                                                                                                                                                | *           | PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *           |
| PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....                                                                                                                                                                                                                         | *           | PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 417         |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... | *           | PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1137        |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministriess of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and                                                                                                                                |             | PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *           |

\*Folios not received.

**भाग I — खण्ड 1**  
**[PART I—SECTION 1]**

**[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]**  
**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अगस्त 2015

संख्या 103-प्रेज/2015- राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनके अति असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "कीर्ति चक्र" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी-61357एम लेफ्टिनेंट कर्नल नेक्टर संजनबम, शौर्य चक्र, 21वीं बटालियन दी पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 08 जून, 2015)

मणिपुर में 08 जून को विद्रोही शिविर पर छापे के दौरान, टीम द्वारा तुरंत एक मानवयुक्त संतरी चौकी की पहचान की गई और दूसरी संतरी चौकी का 0445 बजे पता लगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल नेक्टर ने हवलदार टी के लिंबु और पैराड्रूपर एस च्यंगलेनगम को प्रथम चौकी के दोनों संतरियों को निष्क्रिय करने का कार्य सौंपा और वे पैराड्रूपर पी दयूरी के साथ दूसरी चौकी के संतरियों को निष्क्रिय करने के लिए चल दिये। एक साहसपूर्ण ऑपरेशन पर चुपके से आगे बढ़ते हुए अधिकारी संतरी चौकी के नजदीक पहुंच गए, और अपने शांत हथियार से दोनों विद्रोहियों का सफाया करने में सफल रहे। अपने मोर्चे से 30 मीटर की दूरी पर बने बंकर में हलचल देखने पर, अपने साथी के साथ बंकर की ओर रेंगते हुए निडरतापूर्वक बंकर के नजदीक पहुंच गए। कुछ बातचीत की आवाजें सुनकर अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की किंचित मात्र भी चिंता न करते हुए, इन्होंने एक ग्रेनेड दागा, और तभी साहसपूर्ण कार्रवाई करते हुए बंकर में घुस गए, और चार विद्रोहियों को मार गिराया। तब इन्होंने राकेट लांचर से शिविर पर हमला करने का आदेश दिया जो कि लगभग 20 मिनट तक चला था जहां 10 से 12 अन्य बंकरों से विद्रोही बड़ी मात्रा में राकेटों और छोटे हथियारों के साथ गोलीबारी कर रहे थे। तत्पश्चात, लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपनी हमलावर टीम की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की।

लेफ्टिनेंट कर्नल नेक्टर संजनबम, शौर्य चक्र ने अत्याधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के तहत युक्तियुक्त योजना, अनुकरणीय वीरता, निडर और साहसपूर्ण कार्रवाई का प्रदर्शन किया।

2. जेसी-571195एच नायब सूबेदार राजेश कुमार, दी महार रेजिमेंट/30वीं बटालियन दी राष्ट्रीय राईफल्स (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 28 अक्टूबर, 2014)

28 अक्टूबर, 2014 को 0600 बजे जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के वडारबाला के जंगलों में तलाशी और विनाश अभियान के दौरान आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित हुआ था।

जेसीओ ने वडारबाला जंगल की 75 डिग्री ढलान को तेज दौड़कर पार किया और नाले को बंद कर दिया जिसके जरिए आतंकवादी भाग रहे थे। आतंकवादियों ने बिल्कुल नजदीक से अन्धाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की किंचित मात्र भी परवाह न करते हुए, वे अपनी टीम को कवर लेने का निर्देश देते हुए रेंगते हुए आगे बढ़े और एक आतंकवादी को मार गिराया। शेष बचे आतंकवादी एक चट्टान के पीछे छिप गए और लघुशस्त्रों की गोलीबारी द्वारा उन्हें संलग्न नहीं किया जा सका। उनका सफाया करने का दृढ़ निश्चय कर जेसीओ लगातार उनके नजदीक बढ़ते गए। एक हताशा भरे प्रयास में शेष बचे दोनों आतंकवादियों ने उनपर हमला कर दिया। अपनी चोट की परवाह न करते हुए, अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने से पूर्व इन्होंने एक और आतंकवादी का सफाया कर दिया।

नायब सूबेदार राजेश कुमार ने आतंकवादियों के सामने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और आतंकवादियों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया।

सुरेश यादव

राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 104-प्रेज/2015- राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को साहसपूर्ण कार्यों के लिए "शौर्य चक्र" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :-

1. आईसी-55822एक्स कर्नल मुनिंद्र नाथ राय, युद्ध सेवा मेडल, दी गोरखा राईफल्स /42वीं बटालियन दी राष्ट्रीय राईफल्स (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 27 जनवरी, 2015)

कर्नल मुनिंद्र नाथ राय जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में तराल गांव में तैनात अपनी बटालियन की कमान संभाल रहे थे और उन्होंने बड़ी संख्या में आतंकवादियों को निष्क्रिय करने में अनुकरणीय प्रतिबद्धता और नेतृत्व का प्रदर्शन किया।

27 जनवरी, 2015 को संदिग्ध मकान में खतरनाक आतंकवादी की उपस्थिति के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, इन्होंने तेजी दिखाते हुए अपनी तुरंत प्रतिक्रिया टीम के साथ उस संदिग्ध घर को घेर लिया। इसी दौरान आतंकवादी का पिता बाहर आया और निवेदन किया कि आतंकवादी द्वारा आत्मसमर्पण किया जाएगा। जब यह वार्तालाप चल रहा था, दो आतंकवादी अचानक बाहर आए और उन्होंने कमांडिंग अधिकारी की पार्टी पर नजदीक से अंधाधुंध गोलीबारी करना प्रारंभ दिया। अधिकारी ने गोलीबारी की बौछारों में फंसने और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अदम्य साहस और अलौकिक प्रयास दिखाते हुए भीषण गोलीबारी करते हुए एक खतरनाक ए+वर्ग के आतंकवादी को मार गिराया। इसका अहसास होते ही कि दूसरा आतंकवादी अन्धाधुंध गोलीबारी करते हुए बच निकलने का प्रयास कर रहा था, अपनी गहरी चोटों की परवाह न करते हुए डटे रहे और अपनी सैन्य टुकड़ी के पास पहुंच गए और अपनी टीम द्वारा जब तक दूसरे आतंकवादी का सफाया नहीं किया गया तब तक उसके बचने के मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए प्रभावी रूप से लगातार गोलीबारी करते रहे।

कर्नल मुनिंद्र नाथ राय ने कर्तव्य परायणता से ऊपर उठकर अभूतपूर्व नेतृत्व, साहस और वीरता का प्रदर्शन किया और आतंकवादियों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया।

2. आईसी-69288डब्ल्यू मेजर तनूज गोवर, कवचित कोर/22वीं बटालियन दी राष्ट्रीय राईफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 21 फरवरी, 2015)

जम्मू और कश्मीर के सोपोर जिले के थागुन्द गांव में 21 फरवरी, 2015 को आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में कार्गो से सूचना मिलने के आधार पर मेजर तनूज गोवर ने लक्षित परिसर की कारगर घेराबंदी की। 1115 बजे लक्षित घर के अन्दर छिपे दोनों आतंकवादियों ने घेराबंदी के आंतरिक भाग पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जैसे ही मल्टी ग्रेनेड लांचर से ग्रेनेड दागे जा रहे थे, एक आतंकवादी हमारी सैन्य टुकड़ी पर गोलीबारी करते हुए बाहर आ गया। मेजर तनूज गोवर ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की किंचित मात्र भी परवाह न करते हुए और अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए, सहजता से स्वयं आतंकवादी के सामने मोर्चा संभाला और उसके बच निकलने का रास्ता रोक दिया और बिल्कुल नजदीक से उसे मार गिराया। 1145 बजे दूसरा आतंकवादी गोशाला से कूद कर बाहर आया और उसने अधिकारी पर गोलीबारी शुरू कर दी। अधिकारी पर की जा रही भारी मात्रा में गोलीबारी के बावजूद इन्होंने मुकाबला किया और बिल्कुल निकटता से दूसरे आतंकवादी को मार दिया। मेजर तनूज गोवर द्वारा व्यक्तिगत रूप से मारे गए दोनों आतंकवादियों की पहचान लश्कर-ए-तैयबा के इम्प्रोवाइसज एक्सप्लोसर डिवाइस विशेषज्ञ खूंखार आतंकवादी के रूप में की गई।

मेजर तनूज गोवर ने दो आतंकवादियों का खात्मा करते समय अदम्य साहस, वीरता और प्रेरक उत्कृष्ट नेतृत्व का परिचय दिया।

3. आईसी-73653के कैप्टन वरुण कुमार सिंह, दी राजपूत रेजिमेंट/44वीं बटालियन दी राष्ट्रीय राईफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 15 जनवरी, 2015)

14 जनवरी, 2015 को 1700 बजे कैप्टन वरुण कुमार सिंह, कंपनी कमांडर को जम्मू एवं कश्मीर के सोपियां जिले के कोहरोट गांव में चार और आतंकवादियों के साथ जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) तंजीम के जिला कमांडर की मौजूदगी के बारे में सूचना मिली। यह आतंकवादी मास्टरमाइंड था और 06 जून, 2014 को पाखरपुरा में पुलिस चौकी से हथियार छीनने की घटना में शामिल था तथा युवाओं को आतंकवाद में शामिल होने के लिए प्रेरित करने में अग्रणी था। कैप्टन वरुण ने तत्काल कार्रवाई की और उच्च तुंगता वाले वन क्षेत्र में घंटों अंधकार में 07 घंटे की कष्टदायी पैदल यात्रा करने के पश्चात उस स्थान तक पहुंचे और 15 जनवरी को 0430 बजे तक आकस्मिक आक्रमण बनाए रखते हुए कारगर घेराबंदी करने के लिए सैन्य टुकड़ियों की तैनाती कर दी।

लगभग 0730 बजे ढोक्स की तलाशी के दौरान आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी और घेरीबंदी को तोड़ने के लिए विरोधी दिशाओं में भागने लगे। कैप्टन वरुण ने भारी गोलाबारी के साथ तत्काल जवाबी कार्रवाई की जिससे वे आतंकवादी तीन समूहों में बिखर गए। दो आतंकवादियों का एक समूह निकट के नाले में छिप गया और एक ने शिलाखंड के नीचे ओढ़ ले ली। कैप्टन वरुण कुमार सिंह ने अपने साथी सिपाही जगवीर सिंह के साथ घुटनों के बल पर रेंगते हुए शिलाखंड के बिल्कुल निकट पहुंचने में अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए विस्फोटक गोलाबारी का सामना किया। इस अफसर ने युक्तियुक्त युद्ध कौशल का परिचय देते हुए गोलाबारी की दिशा में शिलाखंड के उपर एक ग्रेनेड दागा जिसमें एक आतंकवादी घायल हो गया। जख्मी आतंकवादी ने भारी गोलाबारी के साथ जवाब दिया। निर्भीक कैप्टन वरुण ने सटीक निशाने के साथ गोलाबारी करके

एक आतंकवादी का खात्मा किया जिसकी बाद में श्रेणी 'बी' जैश-ए-मोहम्मद का आतंकवादी होने के रूप में पहचान हुई। इस अफसर को निकट सामीप्य में देखकर शिलाखंड के नीचे मौजूद आतंकवादी ने ग्रेनेड दाग दी और अफसर के उपर अंधाधुंध गोलाबारी प्रारंभ कर दी। फौलादी मजबूती का प्रदर्शन करते हुए कैप्टन वरुण ने शिलाखंड की दिशा में गोलाबारी की और दूसरे आतंकवादी को धराशायी करने के लिए निकट के स्थान से सटीक गोलाबारी के साथ जवाब दिया जिसकी बाद में जैश-ए-मोहम्मद के श्रेणी 'ए' विदेशी आतंकवादी होने के रूप में पहचान की गई।

कैप्टन वरुण कुमार सिंह ने गोलाबारी के बीच अनुकरणीय नेतृत्व, कर्तव्य परायणता साहस तथा शौर्य का प्रदर्शन किया जिसके परिणामस्वरूप दो कट्टर आतंकवादियों का सफाया हुआ।

4. जी/144175 एक्स हवलदार मन बहादुर छेत्री, 44वीं बटालियन दी असम राइफल्स (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 31 मार्च, 2015)

31 मार्च, 2015 को हवलदार मन बहादुर छेत्री ने एक एरिया डोमिनेशन पेट्रोल जिसे भारत-म्यांमार सीमा पर विद्रोह से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में एक मणिपुर जिले के उखरूल में स्थित बटालियन मुख्यालय एवं कंपनी संक्रिया बेस के बीच के क्षेत्र पर प्रभुत्व रखने का कार्य सौंपा गया था का स्काउट नम्बर वन बनकर सेवा करने की स्वेच्छा व्यक्त की।

हवलदार मन बहादुर छेत्री ने बेंच कार्नर तक पहुंचते हुए अपनी उत्कृष्ट निपुण कुशाग्रता के जरिए घाटी स्थित एक विद्रोही समूह पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए), द्वारा बनाए गए घात हमले का पता लगाया। एनसीओ ने तत्काल बदलाव किया और विद्रोहियों का मुकाबला करने लगे। भीषण गोलाबारी की जंग आरंभ हो गई। हवलदार मन बहादुर छेत्री ने अपनी कारगर और सटीक गोलाबारी के जरिए एक पीएलए विद्रोही को मार गिराया और अन्य दो को जख्मी कर दिया। विद्रोहियों ने यह समझते हुए कि उनकी घात टुकड़ी पर खतरा है और उनके लिए वहां से भाग निकलना मुश्किल है, संयोजन से बिछाई गई ग्यारह इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज (आईईडी) से विस्फोट कर दिया। हवलदार मन बहादुर छेत्री द्वारा घात हमले की समय से पहचान करने और विद्रोहियों का सामना करने से विद्रोही के घात हमले से समूचे गश्ती दल को बचा लिया गया। तथापि ऐसा करते हुए एनसीओ इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज (आईईडी) से गंभीर रूप से जख्मी हो गए और उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया।

हवलदार मन बहादुर छेत्री ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान करने से पहले आतंकवादियों के साथ भिड़न्त करते हुए अदम्य साहस, अद्वितीय रणनीतिक कुशाग्रता तथा कर्तव्य के प्रति निःस्वार्थ समर्पण का प्रदर्शन किया।

5. 9421485एच हवलदार टंका कुमार लिंबु, 21वीं बटालियन दि पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 8 जून, 2015)

21 पैरा विशेष बल द्वारा मणिपुर में संचालित सैन्य कार्रवाईयों के दौरान हवलदार टी के लिंबु और उनके साथी का विशेष रूप से चयन किया गया और उन्हें शिविर की पहली संतरी चौकी पर दो विद्रोहियों को निष्प्रभावी करने का कार्य सौंपा गया।

इस साथी जोड़ी ने लेफ्टिनेंट कर्नल नेक्टर की दूसरी संतरी साइलेंसिंग दल के साथ अपनी कार्रवाईयों में तालमेल किया और संतरी चौकी की दिशा में चुपके से रंगते हुए आगे बढ़े। हवलदार लिंबु ने अपने साथी को अपनी कार्रवाई को कवर करने के लिए कहा जबकि वह चुपके से और सावधानीपूर्क संतरी चौकी तक पहुंचे। चौकी के निकट पहुंच कर उसने देखा कि एक संतरी हथियार के साथ बचाव के रास्ते पर है जबकि दो अन्य विद्रोही जमीन पर बैठे हुए हैं। हवलदार लिंबु संतरी चौकी की ओर चुपके से आगे बढ़े और बचाव के रास्ते के जरिए अपने गुप्त हथियार से एक संतरी को मार गिराया। अन्य दो विद्रोही यह महसूस करते कि क्या हुआ है, उससे पहले ही हवलदार लिंबु ने निर्भिकता और साहसी कार्रवाई में तत्काल बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए चौकी में प्रवेश किया और बिल्कुल पास से एक संतरी को सिर में और दूसरे के सीने में गोली दागकर मार गिराया। बाद में उन्होंने सफल संतरी साइलेंसिंग कार्रवाई के बारे में लेफ्टिनेंट कर्नल नेक्टर को सूचित किया और अपने साथी के साथ चौकी पर कब्जा कर लिया। टीम द्वारा शिविर पर बाद में किये गये गोलाबारी आक्रमण के दौरान हवलदार लिंबु और उनके साथ ने अन्य बंकरों पर सटीक गोलाबारी की और इस प्रकार विद्रोही शिविर के सफल विनाश का मार्ग प्रशस्त किया जिसमें विद्रोहियों की भारी मात्रा में तबाही हुई।

हवलदार टंका कुमार लिंबु ने विद्रोहियों से लोहा लेते समय कठिन परिस्थिति में दृढ़संकल्प, साहसी तथा वीरतापूर्ण कार्रवाई का परिचय दिया।

6. कमांडर मिलिंद मोहन मोकाशी (04755-एफ)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 16 अप्रैल, 2015)

कमांडर मिलिंद मोहन मोकाशी (04755-एफ) आईएनएस सुमित्रा (इस पोत का 04 सितम्बर, 2014 को जलावतरण हुआ था) के कमीशनिंग कमान अफसर हैं। समुद्री डकैती रोधी संक्रियाओं को अंजाम देते समय पोत को आपरेशन राहत के लिए लगाया गया जिसमें 31 मार्च-16 अप्रैल, 2015 तक युद्धयुक्त यमन से भारतीय और विदेशी नागरिकों को बचाकर निकालना था।

31 मार्च, 2015 को 1700 बजे इस पोत को अदन बंदरगाह में प्रवेश करने और वहां पर फंसे हुए भारतीयों को निकालने का कार्य सौंपा गया। हाउथी विद्रोहियों और यमन सरकार के सुरक्षा बलों के बीच घमासान युद्ध होने की सूचना मिली, जिसमें सऊदी अगुवाई वाले गठबंधन द्वारा बंदरगाह शहर में और उसके चारों ओर हवाई हमले किए जा रहे थे। कमांडर मिलिंद मोहन मोकाशी ने बचाव आपरेशनों के लिए व्यापक योजना तैयार की जिसमें पोत के वायुरोधी हथियारों, एफपीएम अवयवों तथा प्रहार दल का प्रयोग करके पर्याप्त बल बचाव उपायों को किसी होने वाले खतरे से निपटने के लिए पोत के चारों ओर स्थापित किया गया था। यह बंदरगाह आवागमन के किसी संकेत के तथा तट पर किसी लाइट के बिना अंधकार में डूबा हुआ पूरी तरह परित्यक्त था। भारी गोलाबारी और गोलों का सामना करते हुए इस अफसर ने कार्मिकों को सुरक्षित पोत पर सवार करना सुनिश्चित किया और पोत को नौचालन रूप से असुरक्षित मार्ग के जरिए बंदरगाह से बाहर निकाला। इस प्रकार उन्होंने भारतीय नौसेना द्वारा परीक्षण तथा युद्ध जैसी स्थिति के बीच अस्थिर यमन से प्रथम बचाव आपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा करना सुनिश्चित किया। उन्होंने और उनकी अपेक्षाकृत युवा टीम ने यमन के तीन अलग-अलग बंदरगाहों (अदन और एश शिहर आयल टर्मिनल से एक तथा अल बोदेईदाह से तीन) से बचाव आपरेशनों को अंजाम दिया। पोत द्वारा की गई पांच यात्राओं में कुल 1621 कार्मिकों (317 महिलाओं तथा 137 बच्चों सहित 961 भारतीय एवं 660 अन्य नागरिक) को अस्थिर देश से सुरक्षित निकाला गया। कमांडर मोकाशी के दृढ़ साहस के अनुकरणीय स्तर और उत्कृष्ट नेतृत्व ने रात्रि के दौरान एक मिशन सहित अस्थिर यमन के लिए पांच मिशनों में कामयाबी सुनिश्चित की।

कमांडर मिलिंद मोहन मोकाशी ने नौसेना की सर्वोच्च परंपरा में पराक्रम का प्रदर्शन किया और 1621 कार्मिकों का जीवन बचाया।

#### 7. विंग कमांडर संदीप सिंह (25336) उड़ान (पायलट)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 21 नवम्बर, 2014)

21 नवम्बर, 2014 को 1610 बजे विंग कमांडर संदीप सिंह, उड़ान पायलट को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में वन क्षेत्र से हताहतों को बाहर निकालने के लिए नक्सल रोधी कार्य बल कमांडर से मिशन प्राप्त हुआ। युद्धक संक्रियाओं के दौरान रिजर्व पुलिस बल पर नक्सलियों की ओर से भारी गोलीबारी की गई जिसमें पांच बल कार्मिक गंभीर रूप से हताहत हो गए जिनकी जान बचाने के लिए तत्काल बाहर निकालने तथा संक्रियाओं को अपने बल कार्मिकों के पक्ष में लाने की जरूरत थी। समय अत्यंत महत्वपूर्ण था और मिशन में बड़े खतरे की आशंका शामिल थी। जीवन को संभावित खतरा होने और इसमें शामिल गंभीर जोखिम के बावजूद उन्होंने इस मिशन पर आगे बढ़ने की अनुमति प्राप्त की और विवेकपूर्ण योजना तैयार करके स्वयं इस मिशन का नेतृत्व किया। उन्होंने 1635 बजे अल्पतम संभव समय में चिकित्सा दल के साथ विमान में उड़ान भरी।

आसूचना जानकारियों की ताजा रिपोर्टें और हताहतों की वास्तविक अवस्थिति के को-ऑर्डिनेट्स आर/टी पर लिए गए। उड़ान मार्ग में परिवर्तन करने तथा विस्मयकारी तत्व को बनाए रखने के लिए पारस्परिक दिशा में क्षेत्र में पहुंच बनाने एवं मिशन कार्यान्वयन सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उड़ान में विवेकपूर्ण, तत्काल तथा सुविचारित निर्णय लिए गए। विंग कमांडर संदीप सिंह के संक्रियात्मक अनुभवों का अनुभव बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ और सटीक संचालन से उन्होंने जंगल में स्पष्ट भूखंड में वृक्ष रेखा से विलकुल अलग रोटों के साथ हताहतों के निकट हेलीकॉप्टर को लैंड कराया। अवतरण क्षेत्र में ढालू सतह की बाधा थी और धूल-धूसरित होने की संभावना थी। लगभग सूर्यास्त के समय जंगल से निकाल कर बचाए गए 22 व्यक्तियों के साथ पांच अत्यंत गंभीर रूप से हताहतों को तत्काल हेलीकॉप्टर में सवार किया गया। चारों ओर खतरा भांपकर उन्होंने केवल उपलब्ध दिशा में "वर्टिकल आउट ऑफ ग्राउंड टेक-आफ" किया। इस निर्णायक मौके पर हेलीकॉप्टर पर स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलाबारी होने लगी। निर्भीक तथा निडर अफसर ने अपने धैर्य को बनाए रखा और अरक्षितता को कम करने के लिए अस्पष्ट युक्तियों को साहसपूर्वक कार्यान्वित किया। स्थिति से निपटने में उनकी दक्षता के कारण हताहतों की संख्या में कमी आई और विमान में सवार केवल एक कर्मिंदल और एक अन्य व्यक्ति को गोली से चोटें लगी और विमान उड़ाने की स्थिति में बना रहा। बस्तर क्षेत्र के जंगलों में अंधेरा हो रहा था फिर भी उन्होंने मिशन को आगे बढ़ाना जारी रखा। विषम परिस्थिति में उनके असाधारण साहस, उत्कृष्ट वृत्तिदक्षता तथा शांत धैर्य ने न केवल पांच जिंदगियां बचाईं बल्कि जमीनी सैन्य टुकड़ियों के लिए मुठभेड़ की दिशा ही बदल दी।

विंग कमांडर संदीप सिंह ने पांच जानों की रक्षा करते हुए असाधारण साहस तथा शौर्य के निःस्वार्थ कृत्य का परिचय दिया।

#### 8. स्व.मो. शफी शेख, हेड कांस्टेबल, जम्मू और कश्मीर पुलिस, जिला हंदवारा (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 07 अप्रैल, 2014)

दिनांक 07.04.2014 को गुंड जुनारेसी चौकीबल में मो. सादिक मीर के घर में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में विशेष सूचना पर कार्रवाई करने के लिए डीआईजी पुलिस-एन के आर बारामुल्ला, एसपी कुपवाड़ा, एसपी पीडी हंदवारा, अपर एसपी कुपवाड़ा और उपाधीक्षक (पीसी) कुपवाड़ा/हंदवारा के पर्यवेक्षण में 19 मराठा एलआई. एवं 4 पैरा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से एक ऑपरेशन प्रारंभ किया गया था। इस क्षेत्र को प्रभावी रूप से घेर लिया गया था और सभी प्रवेश/निकास रास्तों को रणनीतिक रूप से बन्द कर दिया गया था ताकि आतंकवादी बचकर निकल न सकें। लक्षित घर की दो बार तलाशी ली गई परन्तु कोई संदिग्ध बात नहीं पाई गई। चूंकि सूचना विशेष थी, इसलिए श्री मकसूद-उल-जमान, एसपी हंदवारा के नेतृत्व में एक पुलिस दल और हेड कांस्टेबल मो. शफी शेख और सिपाही रियाज अहमद लोन द्वारा सहायता प्राप्त अन्य अधिकारियों/पदाधिकारियों की समर्पित

टीम ने अपनी-अपनी जान को बड़े जोखिम में डालते हुए घर में छिपे हुए आतंकवादियों की तलाशी शुरू कर दी। अकस्मात एक कमरे, जहां पर आतंकवादी शरण लिए हुए थे, की एक दीवार की ओर से अंधाधुंध फायरिंग की भयंकर आवाज सुनाई दी। इस पक्ष द्वारा भी प्रभावी रूप से जवाबी फायरिंग की गई जिससे दोनों पक्षों के बीच भयंकर मुठभेड़ शुरू हो गई। आतंकवादियों ने समानान्तर नुकसान करने के इरादे से ग्रेनेड भी दागे। भयंकर जवाबी फायरिंग के दौरान, हेड कांस्टेबल मो. शफी शेख, कांस्टेबल रियाज अहमद लोन और 19वीं मराठा की सेना के एक जवान को कई गोलियाँ लगीं। श्री मकसूद-उल-जमान, एसपी हंदवारा जो पुलिस दल का नेतृत्व कर रहे थे, जवानों के हौसले को ऊंचा रखने में सफल हुए और अच्छी सूझ-बूझ के साथ जवाबी गोलियाँ दागीं। निरन्तर खून निकलते रहने के बावजूद मो. शफी शेख ने अपना साहस नहीं खोया और पूरी हाजिर-जवाबी और सूझ-बूझ के साथ जवाबी गोलियाँ दागीं और मुठभेड़ स्थल से भागने के आतंकवादियों के प्रयासों को विफल कर दिया। यह ऑपरेशन 8.04.2014 तक चलता रहा जिसके दौरान कुछ और पुलिस कर्मिकों को गोलियाँ लगीं और उन्हें सेना अस्पताल में भेज दिया गया। खूंखार आतंकवादियों ने घर से भाग निकलने का कई बार प्रयास किया परन्तु कड़ी घेरा बन्दी/ऑपरेशन टीम की सतर्क योजना के कारण आतंकवादियों के प्रयास विफल हो गए और अन्ततोगत्वा दोनों आतंकवादियों को निष्क्रिय कर दिया गया, जिनकी पहचान लश्कर-ए-तैयबा ईकाई से सम्बद्ध पाक अधिकृत कश्मीर के मुजामिल एवं हैदर के रूप में की गई। उनके पास से हथियारों/गोलाबारूद का एक बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया। ये आतंकवादी द्रुगमुल्ला कुपवाड़ा और चोटीपोरा हंदवाड़ा रास्तों पर एसएफ टुकड़ियों पर किए गए विभिन्न हमलों में शामिल थे।

सम्पूर्ण ऑपरेशन के दौरान हेड कांस्टेबल मो. शफी शेख ने घर में छिपे हुए खूंखार आतंकवादियों से मुकाबला करके उनका खात्मा करने में शूरवीरता, अद्वितीय साहस और सर्वोत्तम कर्तव्य पालन का प्रदर्शन किया और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।

9. स्वर्गीय श्री रियाज अहमद लोन, कांस्टेबल (307/एच (ईएक्स के 055949), जम्मू और कश्मीर पुलिस, जिला हंदवाड़ा (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 07 अप्रैल, 2014)

दिनांक 07.04.2014 को गुंड जुनारेसी चौकीबल में मो. सादिक मीर के घर में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में विशेष सूचना पर कार्रवाई करने के लिए डीआईजी पुलिस-एन के आर बारामुल्ला, एसपीपीडी हंदवारा, अपर एसपी कुपवाड़ा और उपाधीक्षक (पीसी) कुपवाड़ा/हंदवारा के पर्यवेक्षण में 19 मराठा एलआई. एवं 4 पैरा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से एक ऑपरेशन प्रारंभ किया गया था। इस क्षेत्र को प्रभावी रूप से घेर लिया गया था और सभी प्रवेश/निकास रास्तों को रणनीतिक रूप से बन्द कर दिया गया था ताकि आतंकवादी बचकर निकल न सकें। लक्षित घर की दो बार तलाशी ली गई परन्तु कोई संदिग्ध बात नहीं पाई गई। चूंकि सूचना विशेष थी, इसलिए श्री मकसूद-उल-जमान, एसपी हंदवारा के नेतृत्व में एक पुलिस दल और हेड कांस्टेबल मो. शफी शेख और सिपाही रियाज अहमद लोनी द्वारा सहायता प्राप्त अन्य अधिकारियों/ पदाधिकारियों की समर्पित टीम ने अपनी-अपनी जान को बड़े जोखिम में डालते हुए घर में छिपे हुए आतंकवादियों की तलाशी शुरू कर दी। अकस्मात एक कमरे, जहां पर आतंकवादी शरण लिए हुए थे, की एक दीवार की ओर से अंधाधुंध फायरिंग की भयंकर आवाज सुनाई दी। इस पक्ष द्वारा भी प्रभावी रूप से जवाबी फायरिंग की गई जिसमें दोनों पक्षों के बीच भयंकर मुठभेड़ शुरू हो गई। आतंकवादियों ने समानान्तर नुकसान करने के इरादे से ग्रेनेड भी दागे। भयंकर जवाबी फायरिंग के दौरान, हेड कांस्टेबल मो. शफी शेख, कांस्टेबल रियाज अहमद लोनी और 19वीं मराठा की सेना के एक जवान को कई गोलियाँ लगीं। श्री मकसूद-उल-जमान, एसपी हंदवारा जो पुलिस दल का नेतृत्व कर रहे थे, जवानों के हौसले को ऊंचा करने में सफल हुए और अच्छी सूझ-बूझ के साथ जवाबी गोलियाँ दागीं। निरन्तर खून निकलते रहने के बावजूद रियाज अहमद लोन ने अपना साहस नहीं खोया और पूरी हाजिर-जवाबी और सूझ-बूझ के साथ जवाबी गोलियाँ दागीं और मुठभेड़ वाले स्थान से भागने के लिए आतंकवादियों के प्रयासों को विफल कर दिया। यह ऑपरेशन 8.04.2014 तक चलता रहा जिसके दौरान कुछ और पुलिस कर्मिकों को गोलियाँ लगीं और उन्हें सेना अस्पताल में भेज दिया गया। खूंखार आतंकवादियों ने घर से भाग निकलने का कई बार प्रयास किया परन्तु कड़े घेरा बन्दी/ऑपरेशन टीम की सतर्क योजना के कारण आतंकवादियों के प्रयास विफल हो गए और अन्ततोगत्वा दोनों आतंकवादियों को निष्क्रिय कर दिया गया, जिनकी पहचान लश्कर-ए-तैयबा ईकाई से सम्बद्ध पाक अधिकृत कश्मीर के मुजामिल एवं हैदर के रूप में की गई। उनके पास से हथियारों/गोलाबारूद का एक बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया। ये आतंकवादी द्रुगमुल्ला कुपवाड़ा और चोटीपोरा हंदवाड़ा रास्तों पर एसएफ सिपाहियों पर किए गए विभिन्न हमलों में शामिल थे।

सम्पूर्ण ऑपरेशन के दौरान कांस्टेबल रियाज अहमद लोन ने घर में छिपे हुए खूंखार आतंकवादियों से मुकाबला करके उनका खात्मा करने में शूरवीरता, अद्वितीय साहस और सर्वोत्तम कर्तव्य पालन का प्रदर्शन किया और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।

10. स्व. श्री हीरा कुमार झा, सेकन्ड-इन-कमान 7वीं बटालियन सीआरपीएफ (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 4 जुलाई, 2014)

दिनांक 03/07/2014 को, बिहार झारखण्ड सीमान्त क्षेत्रीय समिति (बीजेएसजेडसी) का सदस्य वरिष्ठ खूंखार माओवादी कमांडर सिद्धू कोड़ा जो सुरक्षा बलों के साथ उनके प्लाटून के विरुद्ध अत्यधिक घिनौने अपराधों के लिए जिम्मेदार था, जिला-जमुई (बिहार) के पुलिस थाना खैरा के अन्तर्गत लाखरी गांव में अपने प्लाटून के साथ की उपस्थिति के बारे में एक सूचना प्राप्त हुई। 7वीं बटालियन के सेकन्ड-इन-कमान श्री हीरा कुमार झा तुरन्त

सक्रिय हो गए और उन्होंने सूचना की आवश्यक पुष्टि करने के बाद उस माओवादी को गिरफ्तार करने के लिए एक अधिकारी और 42 जवानों तथा 7वीं बटालियन की दूसरी कम्पनी के साथ घेरा डालकर तलाशी ऑपरेशन प्रारंभ कर दिया तथा 0045 बजे तक लक्षित गांव के पास पहुंच गए।

श्री झा ने श्री अजीत कुमार, सहायक कमांडेंट को निर्देश दिया कि वह गांव के चारों ओर घेरा डाल दें। यह सुनिश्चित करने के बाद कि बचाव के सभी रास्ते विधिवत बन्द कर दिए गए थे, उन्होंने तलाशी दल के साथ गांव के घरों की तलाशी प्रारंभ कर दी। जैसे ही तलाशी दल दूसरे घर तक पहुंचा, उन्होंने घर के भीतर से गोलियों की भारी बौछार का सामना किया। श्री झा और उनके दल ने युक्ति संगत तरीके से मोर्चा संभालते हुए जवाबी गोलियां चलाने के लिए स्वयं को तैयार किया। ज्योंही दल ने गोलियां चलाई, उसी समय गांव की अन्य झोपड़ियों से उनपर गोलियां चलाई गईं। देखते ही देखते वह गांव युद्ध क्षेत्र में बदल गया। कीमती समय को बर्बाद किए बिना श्री झा ने स्थिति संभाली और सैनिकों को छोटे-छोटे हमलावर दलों में विभाजित किया और उन्हें "गोली चलाओ और आगे बढ़ो" की युक्ति अपनाते हुए निर्धारित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का आदेश दिया। इसी बीच, वह अपने दल के साथ उस झोपड़ी की ओर बढ़े जहां से उन पर स्वचालित हथियार से गोलियां चलाई जा रही थीं। इस बीच, हमलावर दल ने अपने निर्धारित लक्ष्यों पर अपना ध्यान संकेंद्रित कर लिया। यह महसूस करते हुए कि सैनिक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कृत संकल्प थे, माओवादियों ने अपने बचाव के लिए ढाल के रूप में सिविलियनों का प्रयोग करने की समय परीक्षित विधि का सहारा लिया। सैनिकों ने निर्दोष सिविलियनों की जान के किसी भी नुकसान से बचने के लिए गोलियां चलाना बंद कर दीं क्योंकि माओवादी महिलाओं, बच्चों, युवाओं और वृद्धों को मिलाकर निर्दोष सिविलियनों का कवर लिए हुए एक-एक करके अपने-अपने आश्रय-स्थल से बाहर निकल आए। उत्पन्न परिदृश्य का प्रत्युत्तर देते हुए श्री झा ने उस क्षेत्र की ओर भागते हुए माओवादियों की सावधानी पूर्वक छानबीन की और मानव ढाल के रूप में प्रयोग करके बाहर भागते हुए ए.के.47 धारक माओवादी पर अपना ध्यान संकेन्द्रित किया। ठीक से जानते हुए कि ए.के. राइफलें केवल वरिष्ठ माओवादियों द्वारा प्रयोग की जाती थी, वह सुनिश्चित थे कि उनका लक्ष्य खूंखार माओवादी कमांडर सिद्ध कोड़ा था। इसमें शामिल भयंकर जोखिम को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए श्री झा ने समीपस्थ स्थान से माओवादी को अवरोध करने का मन बनाया। वह श्री अजीत कुमार, सहायक कमांडेंट और कांस्टेबल श्रीकान्त पाण्डेय के साथ उस क्षेत्र से हट गए और गांव के दूरस्थ छोर के वृत्ताकार रास्ते पर आ गए और एक झाड़ी के पीछे छिप गए। उन्होंने माओवादी कमांडर का मुकाबला करने के लिए अवसरवादी क्षण का इंतजार किया। उसी क्षण, माओवादी कमांडर सिविलियन को ढाल बनाकर उनकी गोली चलाने की रेंज के भीतर आ गया। श्री झा ने अपनी जान दांव पर लगाई और उसका ध्यान बांटने और उसके ध्यान को समझने के लिए अपने आपको माओवादी के सामने प्रदर्शित कर दिया। माओवादी ने अपने आश्रय के पास कुछ दूरी पर एक सैनिक की आवाजाही को महसूस करते हुए मानव ढाल को एक किनारे कर दिया और सैनिक पर अंधाधूंध गोलियां चलाई। श्री झा और उनकी टीम ने जवाबी गोलियां चलाई। जवाबी गोलीबारी में एक गोली बहादुर अफसर श्री झा के सिर में लगी, जिससे उनकी जान चली गई। माओवादी कमांडर को भी गोलियां लगीं परन्तु वह घने जंगलों में बच निकला। तथापि, तीन खूंखार आतंकवादी जिसमें सिद्ध कोड़ा की पत्नी शामिल थी, को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार माओवादियों के पास से .303 बोल्ट एक्शन राइफल, एक 12 बोर पिस्टल, एक बिनोकुलर, 30 किलो विस्फोटक, 3आईईडी, 150 राउन्ड गोलाबारूद, माओवादी साहित्य और अन्य अभिशंसी वस्तुएं बरामद की गई थी। एसआईबी, पटना की खबरों से तत्पश्चात पुष्टि हुई कि इस मुठभेड़ में छः माओवादी गंभीर रूप से घायल हुए थे।

स्व. श्री हीरा कुमार झा, सेकन्ड-इन-कमान, 7वीं बटालियन ने राष्ट्रीय कर्तव्य के लिए अद्वितीय पराक्रम, अदम्य साहस, अत्यन्त कर्तव्यपरायणता और निस्वार्थ समर्पण का प्रदर्शन किया और कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया।

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 105-प्रेज/ 2015 राष्ट्रपति, आईसी-73414पी मेजर राकेश राधाकृष्णन, सेना मेडल, दि मद्रास रेजिमेंट, 26वीं बटालियन दि असम राईफल्स को उनके असाधारण वीरतापूर्ण कार्यों के लिए "सेना मेडल/आर्मी मेडल का बार" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं।

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 106-प्रेज/ 2015 राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण वीरतापूर्ण कार्यों के लिए "सेना मेडल/आर्मी मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :-

1. एआर-276डब्ल्यू श्री जसमेर सिंह मलिक, डिप्टी कमांडेंट, 27वीं बटालियन दि असम राईफल्स
2. आईसी-63648एल मेजर भरत अरुण, दि महार रेजिमेंट, 1वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राईफल्स
3. आईसी-63910एच मेजर मनीष दहिया, 2 बटालियन दि राजपूत रेजिमेंट



4. आईसी-66140एम मेजर मनीष मिश्रा, दि गोरखा राईफल्स, 1वीं बटालियन दि असम राईफल्स
5. आईसी-67031एम मेजर रविन्द्र शान्ताराम कोकाने, सेना सेवा कोर, 44वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राईफल्स
6. आईसी-67210एम मेजर प्रतुल डेविड सिंह, तोपखाना रेजिमेंट, 31 फील्ड रेजिमेंट
7. आईसी-67893एल मेजर सिद्धार्थ राव, 3 बटालियन दि पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
8. आईसी-67972ए मेजर रणविजय सिंह पठानिया, कवचित कोर, 22वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राईफल्स
9. आईसी-68093वाई मेजर विनीत शर्मा, दि पंजाब रेजिमेंट, 22वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राईफल्स
10. आईसी-69973एफ मेजर गजदीप पाल, तोपखाना रेजिमेंट, 43वीं बटालियन दि असम राईफल्स
11. आईसी-71524एल मेजर राकेश कुमार, दि मराठा लाईट इन्फैन्ट्री रेजिमेंट, 38वीं बटालियन दि असम राईफल्स
12. आईसी-72438एम मेजर विकास गुरूंग, 2 बटालियन दि डोगरा रेजिमेंट
13. आईसी-73203एम मेजर प्रशांत यादव, 21वीं बटालियन दि पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
14. आईसी-73425एफ मेजर अरविन्द कुमार शिवरेन, दि मैकेनाईज्ड इन्फैन्ट्री, 13वीं बटालियन दि असम राईफल्स
15. आईसी-75232ए मेजर जशनदीप सिंह सोहल, 14वीं बटालियन दि गढ़वाल राईफल्स
16. आईसी-75301एल कैप्टन सुवीर राठौर, 1वीं बटालियन दि पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
17. आईसी-77668के कैप्टन दीपक कुमार भगवानी, आसूचना कोर, 14वीं बटालियन दि गढ़वाल राईफल्स
18. एसएस-45717एन कैप्टन नवीन कुमार, सेना सेवा कोर, 159वीं फील्ड रेजिमेंट
19. एसएस-47112एल लेफ्टिनेंट कृष्ण कांत, 21वीं बटालियन दि पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
20. जेसी-550121ए सूबेदार लिला कान्त काकाती, 8वीं बटालियन दि असम राईफल्स
21. जेसी- 278851एच नायब सूबेदार गुरप्रीत सिंह, तोपखाना रेजिमेंट, 31वीं फील्ड रेजिमेंट
22. जेसी-441024एम नायब सूबेदार रमेश बाबु पी, 12वीं बटालियन दि मद्रास रेजिमेंट
23. जेसी-531522ए नायब सूबेदार लाल सिंह, 14वीं बटालियन दि गढ़वाल राईफल्स
24. 2599491डब्ल्यू हवलदार मल्लपा चन्नाली, 11वीं बटालियन दि मद्रास रेजिमेंट (मरणोपरान्त)
25. 4186324ए हवलदार चनार सिंह, 21वीं बटालियन दि पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
26. 4365075एच हवलदार लालदीनपुया, दि आसाम रेजिमेंट, 42वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राईफल्स
27. 9421309एल हवलदार राज बहदूर तमंग, 21वीं बटालियन दि पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
28. जी/95698के हवलदार दुर्गा कान्ता डोले, 44वीं बटालियन दि असम राईफल्स (मरणोपरान्त)
29. 2894815एल नायक नरेन्द्र सिंह गौड, 7वीं बटालियन दि राजपूताना राईफल्स
30. 13623652एच नायक मनोज कुमार, 21वीं बटालियन दि पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
31. 13625402ए नायक कल्याण सिंह, 4वीं बटालियन दि पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
32. 13759898एफ नायक जसविन्दर सिंह, दि जम्मू और कश्मीर राईफल्स, 52वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राईफल्स
33. 15561614एन नायक भुपिंदर सिंह, 21वीं बटालियन दि पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
34. 3000927के लांस नायक जय राज, दि राजपूत रेजिमेंट, 44वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राईफल्स

35. 4001680डब्ल्यू लांस नायक संसार चंद, 9वीं बटालियन दि डोगरा रेजिमेंट
36. 4373439वाई लांस नायक टी जोनूनत्लूअंग, दि आसाम रेजिमेंट, सियाचिन बैटल स्कूल
37. 12924296एच लांस नायक तरसेम लाल, 157वीं इन्फैन्ट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एण्ड एच) सिख
38. 15573117डब्ल्यू लांस नायक जग्गा सिंह, 107वीं इन्जीनियर रेजिमेंट (मरणोपरान्त)
39. 15700156डब्ल्यू लांस नायक जे हरि कृष्णा, सिगनल्स कोर, 42वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राईफल्स
40. 15486543एन एक्टिगं लांस दफादार तोयज मिश्रा, 81वीं कवचित रेजिमेंट
41. 13014379ए सिपाही एम डी अबूबक्कर बार्भूया, इन्फैन्ट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एण्ड एच) आसाम, 7वीं बटालियन दि जाट रेजिमेंट
42. 5352141एक्स राईफलमैन कमल पुर्जा पुन, दि गोरखा राईफल्स, सियाचिन बैटल स्कूल
43. 5457331एच राईफलमैन रोमन सिंह आले, 5/5वीं बटालियन दि गोरखा राईफल्स (विशेष बल)
44. 9927618एम राईफलमैन मकबूल अंसार, 5वीं बटालियन दि लद्दाख स्काउट्स
45. 16017793एम राईफलमैन दिनेश कुमार, दि राजपूताना राईफल्स, 18वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राईफल्स
46. जी/5012490ए राईफलमैन मदाने अमोल बबन राव, 43वीं बटालियन दि असम राईफल्स
47. 15218627वाई गनर गुरसाहिब सिंह, तोपखाना रेजिमेंट, 30वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राईफल्स (मरणोपरान्त)
48. 15215846पी पाराडूपर केशोर बासुमत्री, 3वीं बटालियन दि पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
49. 15693135पी सिगनलमैन साहब सिंह, सिगनल्स कोर, सी कम्पोजिट सिगनल रेजिमेंट (मरणोपरान्त)

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 107-प्रेज़/2015 – राष्ट्रपति निम्नलिखित कर्मियों को उनके असाधारण वीरतापूर्ण कार्यों के लिए " नौ सेना मेडल/नेवी मेडल " प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :-

1. कैप्टन राजेश धनकड़ (03587-ए)
2. कैप्टन प्रदीप सिंह (03702-एन)

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 108-प्रेज़/2015 – राष्ट्रपति निम्नलिखित कर्मियों को उनके असाधारण वीरतापूर्ण कार्यों के लिए " वायु सेना मेडल/एयरफोर्स मेडल " प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :-

1. स्क्वाड्रन लीडर एस सेल्वाकुमार (28716) उड़ान (पायलट)
2. फ्लाइट लेफ्टिनेंट गन्डीकोटा जगन मोहन (30835) उड़ान (पायलट)
3. 776027 सार्जेंट मुकेश कुमार तिवारी फ्लाइट गनर

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 109-प्रेज/2015 – राष्ट्रपति, "सेनाध्यक्ष" से रक्षा मंत्री द्वारा प्राप्त "मेशन इन डिस्पेचिस" के लिए निम्नलिखित अधिकारियों/कार्मिकों के नामों को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश जारी करते हैं:-

**ऑपरेशन मेघदूत**

1. आईसी-67011वाई मेजर प्रियांक प्रियदर्शी, 2 लद्दाख स्काउट्स
2. 15137595एफ लांस हवलदार गंगा सिंह, तोपखाना रेजिमेंट, 1 मिडियम रेजिमेंट
3. 16018080एफ राईफलमैन सतीश नारायण सिंह, 7 राजपूताना राईफल्स

**ऑपरेशन रक्षक**

1. आईसी-64995डब्ल्यू लेफ्टिनेंट कर्नल शैलेन्द्र कुमार सिंह, महार रेजिमेंट, 30 राष्ट्रीय राईफल्स
2. आईसी-64187वाई मेजर बी वी आनन्द रेड्डी, 11 मद्रास रेजिमेंट
3. आईसी-66559एक्स मेजर आनन्द सिंह, गेनेडियर्स, 55 राष्ट्रीय राईफल्स
4. आईसी-68510ए मेजर के एस श्याम प्रसाद, 20 मद्रास रेजिमेंट
5. आईसी-71516एम कैप्टन संदिप यादव, कवचित कोर, 55 राष्ट्रीय राईफल्स
6. आईसी-76235ए कैप्टन दक्ष्य कुमार कौशिक, 15 महार रेजिमेंट
7. जेसी-480874एम नायब सूबेदार आन्नद सिंह राठौड़, राजपूत रेजिमेंट, 44 राष्ट्रीय राईफल्स
8. 4363908एच हवलदार रोथुअमा, 16 आसाम रेजिमेंट
9. 5350033पी नायक ईश्वर बहादुर पुलामी, 2/4 गोरखा राईफल्स
10. 4376753एक्स सिपाही अयोमी अंगर, आसाम रेजिमेंट, 42 राष्ट्रीय राईफल्स
11. 4579268एक्स सिपाही टचांग संग्यु, महार रेजिमेंट, 30 राष्ट्रीय राईफल्स
12. 5852840एल राईफलमैन मुक्तिराम कुन्वर, 4/9 गोरखा राईफल्स

**ऑपरेशन आर्चिड**

1. जी/5004809ए राईफलमैन विजय प्रताप सिंह, 31 असम राईफल्स

**ऑपरेशन हिफाजत**

1. जी/5000365के राईफलमैन तपस जमातिया, 13 असम राईफल्स

**ऑपरेशन राईनो**

1. आईसी-67015पी मेजर अमरजीत सिंह, 2 डोगरा रेजिमेंट
2. आईसी-69181एफ मेजर वरूण राठी, तोपखाना रेजिमेंट, 43 असम राईफल्स
3. टीए-42837एफ लेफ्टिनेंट रूपक गुहा नियोगी, 166 ईन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एंड एच) आसाम

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 110-प्रेज/2015-राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2015 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. श्री जी. सूर्याप्रकाश राव, पुलिस महानिरीक्षक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
2. श्री पी. हरी कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक, इलुरु, आंध्र प्रदेश
3. श्री गोपाल प्रसाद, उप महानिरीक्षक, चम्पारन रेंज, बेतिया, बिहार
4. श्री रविन्द्र कुमार भेंडिया, पुलिस महानिरीक्षक (सीएएफ), पुलिस मुख्यालय रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

5. श्री एस वासुदेव राव, विशेष पुलिस कमिश्नर, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली
6. श्री विवेक गोगिया, संयुक्त पुलिस कमिश्नर, पुलिस मुख्यालय, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली
7. श्री सुनील गर्ग, पुलिस महानिरीक्षक, गोवा
8. श्री लधधीरसिंह वेरूभा राणा, सहायक उप निरीक्षक, राजकोट ग्रामीण जिला, गुजरात
9. श्री मोहन झा, पुलिस कमिश्नर, राजकोट सिटी, गुजरात
10. श्री शील मधुर, महानिदेशक पुलिस सुधार, गुडगांव, हरियाणा
11. श्री प्रशांता कुमार अग्रवाल, अपर महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, पंचकुला, हरियाणा
12. श्री एस. आर. ओझा, अपर पुलिस महानिदेशक/ए पी एंड टी, शिमला, हिमाचल प्रदेश
13. श्री जगजीत कुमार, पुलिस महानिरीक्षक, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर
14. श्री अली मुहम्मद भट, पुलिस उप महानिरीक्षक, सीआईडी जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर
15. श्री बिभूति भूषण प्रधान, अपर महानिदेशक सतर्कता और सुरक्षा, झारखंड ऊर्जा विकास लिमिटेड रांची, झारखंड
16. श्री भाष्कर राव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पीसीडब्ल्यू, बंगलुरु, कर्नाटक
17. श्री बी एन एस रेड्डी, अपर पुलिस कमिश्नर, बंगलुरु सिटी, कर्नाटक
18. श्री के. ईश्वर प्रसाद, पुलिस उपायुक्त, वीवीआईपी सुरक्षा, बंगलुरु सिटी, कर्नाटक
19. श्री एम पी दिनेश, जिला पुलिस प्रमुख, कोट्टायम, केरल
20. डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भोपाल, मध्य प्रदेश
21. श्री अजय कुमार शर्मा, अपर महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना, भोपाल, मध्य प्रदेश
22. श्री योगराज सिंह, पुलिस अधीक्षक, भोपाल, मध्य प्रदेश
23. श्री विजय कुमार मिश्रा, आईओ, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश
24. श्री विवेक कुमार फणसलकर, अपर पुलिस महानिदेशक, मुम्बई, महाराष्ट्र
25. श्री अशोक शीशराव जोंधले, पुलिस उप निरीक्षक, बालापुर पुलिस स्टेशन, हिंगोली, महाराष्ट्र
26. श्री शेरसिंह थापा, उप कमांडेंट, 2 बटालियन एमएपी, लुगमुल लोंगले, मिजोरम
27. श्री मनोज कुमार छाब्रा, चेयरमेन और एमडी, ओएसपीएच एवं डब्ल्यू सी, भुवनेश्वर, ओडिशा
28. श्री गौरव यादव, पुलिस महानिरीक्षक, चंडीगढ़, पंजाब
29. श्री ईश्वर सिंह, पुलिस महानिरीक्षक और निदेशक एसएनसीबी, लुधियाना, पंजाब
30. श्री भगवान लाल सोनी, अतिरिक्त महानिदेशक और निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर, राजस्थान
31. श्री अमरेश पुजारी, पुलिस महानिरीक्षक, तमिलनाडु पुलिस अकादमी, चेन्नई, तमिलनाडु
32. श्री सी. सुदर्शन, उप पुलिस अधीक्षक, सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु
33. श्री गोविंद सिंह, पुलिस महानिरीक्षक पीसीएस एवं एस, हैदराबाद, तेलंगाना
34. श्री येदला गंगाधर, उप महानिरीक्षक, हैदराबाद, तेलंगाना
35. श्री बरूण बैदया, सूबेदार (जीडी), 05 बटालियन टीएसआर (आईआर-1), अमरपुर, त्रिपुरा
36. श्री विश्वजीत महापात्र, अपर महानिदेशक, मानवाधिकार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
37. डॉ. संजय मोरेश्वर टर्डे, अपर महानिदेशक, सीबी, सीआईडी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

38. श्री सर्वजीत शाही, उप पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश
39. श्री राजनारायण, हेड कांस्टेबल, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश
40. श्री जगदीश चन्द्र आर्य, उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड
41. श्री राजीव कुमार, अपर महानिदेशक एव पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी पश्चिम बंगाल
42. श्री मो. नुरुल अनवर, सहायक पुलिस आयुक्त, उत्तरी डिवीजन कोलकाता, पश्चिम बंगाल
43. श्री के. मोहम्मद बशीर, लेखाकार, पुलिस मुख्यालय, पोर्टब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
44. श्री ज्ञान सिंह मीना, उप पुलिस अधीक्षक (सीटी), सिलवासा, दादरा एवं नगर हवेली
45. श्री जयभगवान सांगवान, उप महानिरीक्षक, सीमान्त मुख्यालय, त्रिपुरा, सीमा सुरक्षा बल
46. श्री अश्विनी कुमार सिंह, उप महानिरीक्षक, एयर विंग, नई दिल्ली, सीमा सुरक्षा बल
47. श्री सुशील कुमार सिंह, उप महानिरीक्षक, सीमान्त मुख्यालय, मेघालय, सीमा सुरक्षा बल
48. श्री सुब्रतो कुमार बरुआ, उप महानिरीक्षक, मुख्यालय, पूर्वी कमांड, कोलकाता, सीमा सुरक्षा बल
49. श्री चेरियन साबू, सूबेदार मेजर, किट्टामपालायम, सीमा सुरक्षा बल
50. श्री एम.एम. ओबराय, निदेशक, सायबर अपराध निदेशालय, सिंगापुर, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
51. श्री अशोक बाबू, पुलिस अधीक्षक, नई दिल्ली, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
52. श्री देश दीपक, पुलिस अधीक्षक, एसीबी जम्मू, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
53. श्री सैयद बजलुल्ला, अपर पुलिस अधीक्षक, एसीबी चेन्नई, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
54. श्री ए. जे. रामलिंगम, उप पुलिस अधीक्षक, एसीबी चेन्नई, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
55. श्री लक्ष्मण त्रिपाठी, उप निरीक्षक, एसीबी पोर्ट ब्लेयर, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
56. श्री घनश्याम राय, अपर पुलिस अधीक्षक, ईओ-1, नई दिल्ली, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
57. श्री वेद प्रकाश, महानिरीक्षक, मुख्यालय नई दिल्ली, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
58. श्री विनोद कुमार शर्मा, वरिष्ठ कमांडेंट, रेड फोर्ट, दिल्ली, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
59. श्री नलिन प्रभात, महानिरीक्षक, कश्मीर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
60. श्री हरप्रीत सिंह सिद्धू, महानिरीक्षक, दिल्ली, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
61. श्री शैलेन्द्र कुमार, महानिरीक्षक, नई दिल्ली, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
62. श्री इन्द्र सिंह, कमांडेंट, 55 बटालियन, बवाना, दिल्ली, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
63. श्रीमती कल्पना शाह, उप निरीक्षक, 213 बटालियन, नागपुर, महाराष्ट्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
64. श्री रावाडा आजाद चन्द्रशेखर, जेडी, विजयवाडा, गृह मंत्रालय
65. श्री हरमीत सिंह, जेडी, श्रीनगर, गृह मंत्रालय
66. श्रीमती सपना तिवारी, जेडी, भुवनेश्वर, गृह मंत्रालय
67. श्रीमती इदाशिश नांगरंग, जेडी, आईबी मुख्यालय, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय
68. श्री अनिल कुमार नेगी, एडी, एसआईबी दिल्ली, गृह मंत्रालय
69. श्री आशीष श्रीवास्तव, सहायक निदेशक, एसआईबी रायपुर, गृह मंत्रालय
70. श्री संजय सिंघल, महानिरीक्षक, पूर्वी फ्रंटियर, लखनऊ, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

71. श्री प्रेम सिंह, उप महानिरीक्षक, चंडीगढ़, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
  72. श्री आदित्य मिश्र, महानिरीक्षक, नई दिल्ली, सशस्त्र सीमा बल बल
  73. श्री नरेन्द्र नाथ धर दुबे, पुलिस अधीक्षक, नई दिल्ली, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
  74. श्री संदीप राय राठौड़, महानिरीक्षक, महानिदेशक मुख्यालय, नई दिल्ली-66, एनडीआरएफ
  75. श्री एस मुरुगराज, निरीक्षक, एसवीपी, हैदराबाद, एसवीपी एनपीए
  76. श्री शेक इमत्याज़ अहमद, सहायक कमांडेंट, 7 बटालियन, आरपीएसएफ, रेल मंत्रालय, रेल मंत्रालय
2. ये पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान करने को शासित करने वाले नियम के नियम 4(ii) के अंतर्गत दिए जा रहे हैं।

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 111-प्रेज/2015-राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2015 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. श्री पी. वेंकटरामि रेड्डी, पुलिस अधीक्षक, अनंतपुरमू, आंध्र प्रदेश।
2. श्री वाई. वी. सुब्बा राव, पुलिस अपर निदेशक संचार, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
3. श्री एन. श्रीनिवास राव, स्कवार्डन कमांडर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
4. श्री करनम मलयाद्री, अपर पुलिस अधीक्षक, अनंतपुरम, आंध्र प्रदेश
5. श्री आर. श्री निवास, उप पुलिस अधीक्षक, विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश
6. श्री पी. सति बाबू, उप पुलिस अधीक्षक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
7. श्री एम. श्रीनिवास राव, उप निरीक्षक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
8. श्रीमती नाथा राजा सुलोचना, उप निरीक्षक, पेनमलुरु, आंध्र प्रदेश
9. श्री बी. पी. वेंकट विजया कुमार, सहायक उप निरीक्षक, पेनुमंत्रा, आंध्र प्रदेश
10. श्री पी. माधवा राव, हेड कांस्टेबल, विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश
11. श्री अबाईगारी मुरली मोहन, हेड कांस्टेबल, कुपम, आंध्र प्रदेश
12. श्री बी. वेनु गोपाल राव, हेड कांस्टेबल, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
13. श्री वेटागिरी गोपालय्या, पुलिस कांस्टेबल, बलाजिंगर, आंध्र प्रदेश
14. श्री एम चन्द्र शेखर राजू, पुलिस कांस्टेबल (सीआईडी), हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
15. श्री चंद्र भूषण राय, उप निरीक्षक, पीएस देओमलाई, अरुणाचल प्रदेश
16. श्री तपंग मेलोंग, सहायक उप निरीक्षक, 5 आई आर बटालियन, पासी घाट, अरुणाचल प्रदेश
17. श्रीमती रत्ना सिंह, पुलिस अधीक्षक, खालीपाड़ा, गुवाहाटी, असम
18. श्री किरन दिहिगिया, पुलिस उप निरीक्षक (एबी), 1 असम पुलिस बटालियन, लिगरीपुखरी, शिवसागर, असम
19. श्री विनोद कुमार सिंह, सहायक उप निरीक्षक, कोकराझार, असम
20. श्री कुन्दन सिंह बिष्ट, हवलदार, 1 असम पुलिस टास्क फोर्स बटालियन, काकुरविता, गोलपाडा, असम

21. श्री भदरेश्वर दत्त, हवलदार/क्लर्क, 1असम पुलिस बटालियन, मुख्यालय लिगरीपुखरी, शिवसागर, असम
22. श्री रमनी कांत बर्मन, कांस्टेबल (यूबी), बासूगांव पुलिस स्टेशन, गोलपाड़ा, असम
23. श्री अनिल कुमार, सर्जेंट मेजर, पटना ट्राफिक पुलिस, बिहार
24. श्री विनय कृष्ण, निरीक्षक, ईओयू पटना, बिहार
25. श्रीमती भावना वर्मा, निरीक्षक, सीआईडी बिहार पटना, बिहार
26. श्रीमती सुदेश यादव, निरीक्षक, सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो, पटना, बिहार
27. श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव, उप निरीक्षक आशुलिपिक, सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो, पटना, बिहार
28. श्री विजय कुमार सिंह, सहायक उप निरीक्षक, सीआईडी, पटना, बिहार
29. श्री मदन तिवारी, हवलदार, बीएमपी पटना, बिहार
30. श्री बड़ा बाबू सिंह, हवलदार, स्पेशल ब्रांच पटना, बिहार
31. श्री नरेन्द्र कुमार दुबे, हवलदार, पटना, बिहार
32. श्री रमेश नाथ चौधरी, हवलदार (चालक), सीआईडी, पटना, बिहार
33. श्री मदन सिंह, कांस्टेबल, पुलिस महानिदेशक कार्यालय, पटना, बिहार
34. श्री सुरेन्द्र कुमार मंडल, कांस्टेबल, पुलिस महानिदेशक कार्यालय पटना, बिहार
35. श्री संजय कुमार चौधरी, कांस्टेबल, मुख्यालय, पटना, बिहार
36. श्री शैलेन्द्र कुमार पांडेय, कांस्टेबल, पटना, बिहार
37. श्री मुकुल कुमार, कांस्टेबल, सीआईडी, पटना, बिहार
38. मो. नसीम, कांस्टेबल, सीआईडी, पटना, बिहार
39. श्री प्रसन्ना कुमार भट्टाचार्या, सीआईडी, पटना, बिहार
40. श्री मनीष कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक, धमतरी, छत्तीसगढ़
41. श्री उदयभान सिंह चौहान, अपर पुलिस अधीक्षक, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़
42. श्री बहादुर सिंह, कम्पनी कमांडर, 9 बटालियन सीएफ दांतेवाड़ा, छत्तीसगढ़
43. श्री देवदत्त सिंह यादव, प्लाटून कमांडर, 10 बटालियन सीएफ सूरजपुर, छत्तीसगढ़
44. श्री सतीश कुमार मसीह, सहायक उप निरीक्षक, एसआईबी पुलिस हेडक्वार्टर, छत्तीसगढ़
45. श्री विजय कुमार मिश्रा, कांस्टेबल, महासमुंद्र, छत्तीसगढ़
46. श्री सलीम मोहम्मद, कांस्टेबल, दुर्ग, छत्तीसगढ़
47. श्री राजेश सोनी, सूबेदार (एम), पुलिस हेडक्वार्टर, छत्तीसगढ़
48. श्री कृष्णा कुमार सोनी, उप निरीक्षक (एम), एसपी रेल रायपुर कार्यालय, छत्तीसगढ़
49. श्री विजय कुमार, सहायक पुलिस आयुक्त, आरपी भवन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
50. श्रीमती लक्ष्मी बाई कावंत, सहायक पुलिस आयुक्त, नानकपुरा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
51. श्री स्वतंत्र सिंह गिल, सहायक पुलिस आयुक्त, प्रथम बटालियन/डीएपी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
52. श्री सुरेन्द्र कुमार, निरीक्षक (एम), वित्त सलाहकार का कार्यालय कर्नाट प्लेस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
53. श्री धर्म पाल, निरीक्षक (संचार), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

54. श्री नरेश चोपड़ा, उप निरीक्षक, भूमि एवं भवन सेल (पुलिस मुख्यालय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
55. श्री ब्रह्म पाल, उप निरीक्षक (कार्यकारी), यातायात, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
56. श्री रमेश चन्द्र, सहायक उप निरीक्षक (चालक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
57. श्री हजारा सिंह, सहायक उप निरीक्षक (चालक), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
58. श्री जितेन्द्र कुमार, हेड कांस्टेबल (कार्यकारी), क्राइम ब्रांच, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
59. श्री विनय कुमार, हेड कांस्टेबल (कार्यकारी), सुरक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
60. श्री वी कुमार दास, कांस्टेबल (कार्यकारी), एफआरआरओ, आर के पुरम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
61. श्री कल्याण चन्द्र, हेड कांस्टेबल (कार्यकारी), 7 बटालियन डीएपी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
62. श्री कृष्णन एन. हेड कांस्टेबल, उप पुलिस आयुक्त का कार्यालय दक्षिण-पश्चिम जिला, सरिता विहार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
63. श्री बोस्को बी.एफ. जॉर्ज, पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार रोधी शाखा सतर्कता विभाग, गोवा
64. श्री एच. आर. कडीवाला, उप पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी रेलवे, बडोदरा, गुजरात
65. श्री प्रविनसिंह टपूभा वधेला, निशस्त्र पुलिस इंस्पेक्टर, सीआईडी क्राइम गांधीनगर, गुजरात
66. श्री यू.सी. मारकंडे, पुलिस उप निरीक्षक, सूरत एलसीबी वेस्टर्न रेलवे, गुजरात
67. श्री पोलूभा गोलुभा गोहिल, निशस्त्र पुलिस उप निरीक्षक, छोटिला पुलिस स्टेशन, गुजरात
68. श्री अशोककुमार केशवलाल परमार, निशस्त्र पुलिस सहायक उप निरीक्षक, सीआईडी क्राइम एंड रेलवे गांधीनगर, गुजरात
69. श्री रावल हर्षदकुमार चंदूलाल, पुलिस सहायक उप निरीक्षक, सीपीआई वेस्टर्न रेलवे वलसाद, गुजरात
70. श्री मनुभाई, निशस्त्र पुलिस सहायक उप निरीक्षक, डिटेक्शन क्राइम ब्रांच, सूरत सिटी, गुजरात
71. श्री मनुबा रामसिंह परमार, सहायक उप निरीक्षक, सुरेन्द्र नगर, गुजरात
72. श्री प्रवीन भाई परमार, सहायक उप निरीक्षक, एसआरपी जीआर-VI, मुदेती, गुजरात
73. श्री पी. एन. सोलंकी, यूएन हेड कांस्टेबल, आईजीपी रेलवे जीएस गांधीनगर, गुजरात
74. श्री प्रवीनचंद्र विठ्ठलभाई वधेला, आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल, एसआरपीएफ ग्रेड XIII गंतेश्वर राजकोट, गुजरात
75. श्री परमार बाबूभाई, आईओ, गांधीनगर, गुजरात
76. श्री सुरेश कुमार वाला, आसूचना अधिकारी, अपर पुलिस महानिदेशक का कार्यालय आसूचना गांधीनगर, गुजरात
77. श्री जगदीशभाई टी. कसुन्द्र, सहायक आसूचना अधिकारी, अपर पुलिस महानिदेशक का कार्यालय आसूचना गांधीनगर, गुजरात
78. श्री अमित कुमार विश्वकर्मा, पुलिस उप महानिरीक्षक, राज्य आसूचना ब्यूरो गांधीनगर, गुजरात
79. श्री ब्रजेश कुमार झा, पुलिस उप महानिरीक्षक, जूनागढ़ रेंज, गुजरात
80. श्री दीपक भट, पुलिस उप महानिरीक्षक, गांधीनगर, गुजरात
81. डॉ. विनय कुमार सिन्हा, अपर पुलिस महानिदेशक, गुडगांव, हरियाणा
82. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, पुलिस उपायुक्त, अम्बाला, हरियाणा
83. श्रीमती सुरिन्द्र मोहनी, उप पुलिस अधीक्षक, प्रथम बटालियन एचएपी अम्बाला सिटी, हरियाणा
84. श्री दलीप कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, पंचकुला, हरियाणा
85. श्री अजय कुमार, इंस्पेक्टर सीआईडी, सिरसा, हरियाणा
86. श्री ज्योति शील, इंस्पेक्टर सीआईडी, रोहतक, हरियाणा



87. श्री राजीव मोहन, उप निरीक्षक एससीआरबी (एच), मधुबन, हरियाणा
88. श्री सुल्तान सिंह, उप निरीक्षक, मधुबन, हरियाणा
89. श्री हरबिलास सिंह, उप निरीक्षक, पंचकुला, हरियाणा
90. श्री सिकंदर लाल, उप निरीक्षक, सीआईडी, अम्बाला, हरियाणा
91. श्री जितेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक, एचपीए मधुबन, हरियाणा
92. श्री देवी लाल, सहायक उप निरीक्षक, अपर पुलिस महानिदेशक/एल एंड ओ का कार्यालय, हरियाणा
93. श्रीमती सीमा गुप्ता, सहायक उप निरीक्षक, हरियाणा
94. श्री सुरेश चन्द, सहायक उप निरीक्षक, पंचकुला, हरियाणा
95. श्री निहाल चंद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कुल्लु, हिमाचल प्रदेश
96. डॉ. रविन्द्र कुमार, निरीक्षक, सोलन, हिमाचल प्रदेश
97. श्री प्रकाश चन्द, हेड कांस्टेबल, शिमला, हिमाचल प्रदेश
98. श्री राकेश कुमार, हेड कांस्टेबल, शिमला, हिमाचल प्रदेश
99. श्री मोहम्मद याकूब भट्ट, सहायक उप निरीक्षक, जिला श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर
100. श्री जावेद इकबाल, उप पुलिस अधीक्षक, पीटीडब्ल्यूएस जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर
101. श्री सैयद सज्जाद हुसैन, निरीक्षक (एस), पुलिस मुख्यालय जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर
102. श्री वीर जी पंडिता, हेड कांस्टेबल सीआईडी, तकनीकी सेल सीआई जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर
103. श्री मोहम्मद रफी पर्रे, निरीक्षक सतर्कता, जम्मू एवं कश्मीर
104. श्री फारूख अहमद मगरे, हेड कांस्टेबल, आईआरपी 18, शोपियां कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर
105. श्री रशीद खान, उप पुलिस अधीक्षक, जम्मू एवं कश्मीर
106. श्री वीरेन्द्र शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जम्मू एवं कश्मीर
107. श्री बशीर अहमद मागरे, उप निरीक्षक, जम्मू एवं कश्मीर
108. श्री ऐजाज अहमद भट, उप पुलिस अधीक्षक, जम्मू एवं कश्मीर
109. श्री गुलाम मोहिद्दीन वाणी, हेड कांस्टेबल (एसओजी), श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर
110. श्री रक्षपाल सिंह, हेड कांस्टेबल, जम्मू एवं कश्मीर
111. श्री अब्दुल अजीज कादरी, उप पुलिस अधीक्षक, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर
112. श्री जाहिद अहमद लोन, उप पुलिस अधीक्षक, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर
113. श्री गुलाम मोहिद्दीन तांतरे, हेड कांस्टेबल, बड़गांम, जम्मू एवं कश्मीर
114. श्री रविन्द्र पाल सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, जम्मू एवं कश्मीर
115. श्रीमती मधु बंदराल, उप पुलिस अधीक्षक, जम्मू एवं कश्मीर
116. श्री प्रभात कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक, हजारीबाग, झारखंड
117. श्री बैंकटेश कुमार, पुलिस निरीक्षक, रांची, झारखंड
118. श्री बलदाऊ चौबे, सहायक उप निरीक्षक, आईआरबी-5, गुमला, झारखंड
119. श्री सूरज कुमार थापा, सिपाही, जेएपी-1, रांची, झारखंड

120. श्री रमेश गुरंग, सिपाही, जेएपी-1, रांची, झारखंड
121. श्री दिलीप कुमार तिवारी, हवलदार, पुलिस लाइन हजारीबाग, झारखंड
122. श्री दारा सिंह, कांस्टेबल, छोपरन पुलिस थाना, झारखंड
123. श्री मनोज कंमार सिंह, कांस्टेबल, पुलिस कार्यालय, हजारीबाग, झारखंड
124. श्री निमबलकार हेमंत एम, पुलिस उप महानिरीक्षक, ईओ, सीआईडी बंगलुरु, कर्नाटक
125. श्री एम.एस. इंदुशेखर, पुलिस अधीक्षक, केएसपीटीएस, छन्नापतना, कर्नाटक
126. श्री उमेश एस.के., सहायक पुलिस आयुक्त, विजयनगर, बंगलुरु सिटी कर्नाटक
127. श्री शिवकुमारिया, सहायक पुलिस आयुक्त, मैसूर सिटी, कर्नाटक
128. श्री सी. डब्ल्यू. पूवहिया, उप पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त बंगलुरु, कर्नाटक
129. श्री बालेगौड़ा, पुलिस इन्सपेक्टर, कामक्षीपल्या पीएस, बंगलुरु सिटी, कर्नाटक
130. श्री के अजयकुमार, पुलिस इन्सपेक्टर (वायरलेस), पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण स्कूल बंगलुरु, कर्नाटक
131. श्री एस. वी. चिकारामस्वामी, पुलिस उप निरीक्षक (वायरलेस), सीटीएस, बंगलुरु
132. श्री एम एल गोपालकृष्ण, पुलिस उप निरीक्षक, केन्द्रीय कार्यशाला, बंगलुरु, कर्नाटक
133. श्री आर वेंकटेश मूर्ति, सहायक उप निरीक्षक, सीआईडी, बंगलुरु, कर्नाटक
134. श्री विरूपकशा एन, सहायक उप निरीक्षक, चिकामंगलुरु जिला, कर्नाटक
135. श्री एच.आर. विश्वनाथ, सहायक उप निरीक्षक, कादुर पीएस, चिकामंगलुरु, कर्नाटक
136. श्री पचापुर डी. एम., उप निरीक्षक, मुनीराबाद, कर्नाटक
137. श्री एच. वी. वासुदेवा राव, हेड कांस्टेबल, राज्य आसूचना, बंगलुरु, कर्नाटक
138. श्री आजम, हेड कांस्टेबल, कर्नाटक लोकायुक्त, रायचूर, कर्नाटक
139. श्री पी. ए. पलंगप्पा, हेड कांस्टेबल, 5वीं बटालियन, मैसूर, कर्नाटक
140. श्री के आर पुरुषोत्तम, हेड कांस्टेबल, 7वीं बटालियन, केएसआरपी, मुगलुरु, कर्नाटक
141. श्री पी विजयन, उप महानिरीक्षक, एसबीसीआईडी मुख्यालय आरएस, पट्टोम, त्रिवेन्द्रम, केरल
142. श्री ए. वी. जॉर्ज, कमांडेंट, पंडिकड, केरल
143. श्री एस. शशिधरन, उप पुलिस अधीक्षक, जिला क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पलक्कड, केरल
144. श्री रेजि जेकब, सहायक पुलिस आयुक्त, जिला स्पेशल ब्रांच त्रिवनंतपुरम, केरल
145. श्री राकेश गुप्ता, उप महानिरीक्षक, इंदौर, मध्य प्रदेश
146. श्री महेन्द्र सिंह सीकरवार, पुलिस अधीक्षक, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश
147. श्री प्रेम बाबू शर्मा, पुलिस अधीक्षक, जिला हरदा, मध्य प्रदेश
148. श्री नेत राम गोहिया, सहायक कमांडेंट, 29वीं बटालियन, दतिया, मध्य प्रदेश
149. श्री जयराज सिंह साजवान, कंपनी कमांडर, 8वीं बटालियन, एस ए एफ, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश
150. श्री भुवनेश्वर पंत, उप निरीक्षक (परिवहन) जेएनपीए, सागर, मध्य प्रदेश
151. श्री विजय शंकर द्दिवेदी, उप निरीक्षक, इटारसी पुलिस स्टेशन, हौसंगाबाद, मध्य प्रदेश
152. श्री उमानाथ दुबे, हेड कांस्टेबल, 25 वीं बटालियन एसएफए, भोपाल, मध्य प्रदेश

153. श्री बृजपती यादव, हेड कांस्टेबल, लवकुश नगर पुलिस थाना, छतरपुर, मध्य प्रदेश
154. श्री रामनरेश खटीक, हेड कांस्टेबल, लोकायुक्त, भोपाल, मध्य प्रदेश
155. श्री मनोहर लाल बड़ेले, कांस्टेबल (बैंड), आरएपीटीसी, इंदौर, मध्य प्रदेश
156. श्री सुरेश पंत, कांस्टेबल (परिवहन), 10वीं बटालियन, एसएएफ, सागर, मध्य प्रदेश
157. श्री शेखर वसंतराव दीक्षित, निरीक्षक (एम)/पीएस, अपर महानिदेशक स्वापक, इंदौर, मध्य प्रदेश
158. श्रीमती मधोत्री खूबानी, निरीक्षक (एम)/आशुलिपिक, एसएएफ, पुलिस मुख्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश
159. श्री निरंजन कुमार श्रीवास्तव, निरीक्षक (एम), पुलिस मुख्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश
160. श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, निरीक्षक (एम), पुलिस मुख्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश
161. डॉ. जय वसंतराव जाधव, पुलिस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, महाराष्ट्र
162. श्री चंद्रकांत रामबाबू गुंडगे, पुलिस निरीक्षक, यातायात शाखा थाने ग्रामीण, महाराष्ट्र
163. श्री मनोहर दगड धनावडे, पुलिस निरीक्षक, डिटेक्शन क्राइम ब्रांच मुम्बई, महाराष्ट्र
164. श्री वसंत यशवंत गवली, पुलिस उप निरीक्षक, दुंद, महाराष्ट्र
165. श्री शिवाजी किशन घुगे, पुलिस उप निरीक्षक, मंत्रालय सुरक्षा मुम्बई, महाराष्ट्र
166. श्री विष्णु पांडुरंग मलगांवकर, वरिष्ठ आसूचना अधिकारी, राज्य आसूचना विभाग मुम्बई, महाराष्ट्र
167. श्री रामचंद्र बापू सामंत, पुलिस उप निरीक्षक, यातायात प्रभाग मुम्बई, महाराष्ट्र
168. श्री दीपक परशुराम सावंत, पुलिस उप निरीक्षक, राज्य आसूचना विभाग, महाराष्ट्र
169. श्री अनवरबेग इब्राहिमबेग मिरजा, पुलिस उप निरीक्षक, नादेड़, महाराष्ट्र
170. श्री पोपट बाजीराव कड, शस्त्र पुलिस सहायक उप निरीक्षक, पुणे, महाराष्ट्र
171. श्री ग्यानोबा तेजराव हाके, सहायक उप निरीक्षक, जालना, महाराष्ट्र
172. श्री बाबासाहेब ईश्वर गवली, सहायक पुलिस उप निरीक्षक, अंधेरी पुलिस स्टेशन मुम्बई सिटी, महाराष्ट्र
173. श्री विश्वास धनराज सोनावने, सहायक उप निरीक्षक, धुले, महाराष्ट्र
174. श्री रामआसरे रामकृपाल मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक, खपरखेडा नागपुर ग्रामीण पुलिस थाना, महाराष्ट्र
175. श्री तानाजी मारुति लावंड, सहायक उप निरीक्षक, नयागाँव, मुम्बई, महाराष्ट्र
176. श्री ईश्वर देवरावजी किंकर, सहायक उप निरीक्षक, स्पेशल ब्रांच नागपुर सिटी, महाराष्ट्र
177. श्री बालासाहेब शंकरराव टोके, सहायक उप निरीक्षक, दिघी पुलिस स्टेशन पुणे सिटी, महाराष्ट्र
178. श्री माधव रामजी गायकवाड़, सहायक उप निरीक्षक, औरंगाबाद सिटी, महाराष्ट्र
179. श्री सैयद रहमान चाँदपाशा, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र लातूर, महाराष्ट्र
180. श्री विनोद लालताप्रसाद तिवारी, सहायक उप निरीक्षक, नक्सल सेल चन्द्रपुर, महाराष्ट्र
181. श्री रविन्द्र बालकृष्ण दलवि, हेड कांस्टेबल, परिवहन सैक्शन, मुम्बई, महाराष्ट्र
182. श्री अशोक मल्हारराव झोल, हेड कांस्टेबल, कंट्रोल रूम पुणे सिटी, महाराष्ट्र
183. श्री अनिल नाथू सलीयान, हेड कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच सीआईडी मुम्बई, महाराष्ट्र
184. श्री हनमंत बापुराव आवले, हेड कांस्टेबल, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुणे, महाराष्ट्र
185. श्री अर्जुन दादा वाकसे, हेड कांस्टेबल, अंधेरी पुलिस थाना मुम्बई, महाराष्ट्र

186. श्री संपत महादेव जाधव, हेड कांस्टेबल, विमंतल पुलिस थाना पुणे सिटी, महाराष्ट्र
187. श्री सदाशिव गंगाधर नाठे, हेड कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच थाणे सिटी, महाराष्ट्र
188. श्री पिराजी बाबू मोहिते, हेड कांस्टेबल, पुणे, महाराष्ट्र
189. श्री विकास माधव यावलकर, हेड कांस्टेबल, जलगांव, महाराष्ट्र
190. श्री संताराम गेनभाऊ डुंबरे, हेड कांस्टेबल, शसत्र पुलिस निगांव मुम्बई, महाराष्ट्र
191. श्री अशोक तुकाराम पाटिल, हेड कांस्टेबल, लोखंड पुलिस थाना पुणे ग्रामीण, महाराष्ट्र
192. श्री तानाजी बाबासाहेब जाधव, हेड कांस्टेबल, यातायात मुम्बई सिटी, महाराष्ट्र
193. श्री अप्पासाहेब सतगौडा पाटिल, हेड कांस्टेबल, पीसीआर संगली, महाराष्ट्र
194. श्री मधुकर निवृत्ती रणपिसे, हेड कांस्टेबल, सीआईडी पुणे, महाराष्ट्र
195. श्री विजय राजाराम महाडीक, हेड कांस्टेबल, सीआईडी मुम्बई, महाराष्ट्र
196. श्री राजेन्द्र बापुराव जगताप, हेड कांस्टेबल, मुडवा पुलिस थाना पुणे सिटी, महाराष्ट्र
197. श्री नोवलसन लिंगदोह, बटालियन क्वार्टर हवलदार मास्टर, 1 एमएलपी बटालियन, मेघालय
198. श्री आर वनललदुआता, पुलिस निरीक्षक, विधि एवं आदेश सेल, आइजौल, मिजोरम
199. श्री एच सी संगजुतलए, निरीक्षक, प्रथम बटालियन एमएपी, मिजोरम
200. श्री इम्तियाकूम पोंगे, सहायक प्रधानाध्यापक, पीटीएस, नागालैंड
201. श्री चोत्ससे सँगताम, सहायक कमांडेंट, 10 एनएपी बटालियन (आईआर) झादिमा, नागालैंड
202. श्री कान्हू रंजन पटनायक, उप कमांडेंट, दियोगढ़, ओडिशा
203. श्री कृष्ण कुमार दास, उप पुलिस अधीक्षक (सिस्टम एनलिस्ट), कटक, ओडिशा
204. श्री प्रशांत कुमार मल्ला, पुलिस निरीक्षक, बालूगांव पुलिस थाना खुरधा, ओडिशा
205. श्री मनोज कुमार नायक, पुलिस उप निरीक्षक विशेष आसूचना विंग, भुवनेश्वर, ओडिशा
206. श्री जन्मेजय मलिक, उप निरीक्षक (फिटर) पीएमटी, कटक, ओडिशा
207. श्री बिलास चंद्र मोहंती, पुलिस सहायक उप निरीक्षक, सीआईडी, कटक, ओडिशा
208. श्री किशोर चन्द्र माझी, हवलदार (सुरक्षा विंग), भुवनेश्वर, ओडिशा
209. श्री पद्म लोचन साहु, हवलदार ओएसएपी, 7 बटालियन, भुवनेश्वर, ओडिशा
210. श्री पितबास बेहरा, हवलदार (चालक), सतर्कता निदेशालय, कटक, ओडिशा
211. श्री बिपिन बिहारी राउत, कांस्टेबल, सतर्कता निदेशालय, कटक, ओडिशा
212. श्री प्रदीप कुमार मोहंती, कांस्टेबल, कटक, ओडिशा
213. श्री चरणजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फरीदकोट, पंजाब
214. श्री जसदीप सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अमृतसर ग्रामीण, पंजाब
215. श्री जसविन्दर सिंह, निरीक्षक, बालोंगी, पंजाब
216. श्री राजीव कुमार, उप निरीक्षक, सोहना, पंजाब
217. श्री बलजीत सिंह, उप निरीक्षक इंचार्ज सीआईए स्टाँफ, बरनाला पंजाब
218. श्री प्राण नाथ, उप निरीक्षक, सीआईडी मुख्यालय, चंडीगढ़, पंजाब

219. श्री बचित्तर सिंह, सहायक उप निरीक्षक, कमांडो प्रशिक्षण केन्द्र फोर्ट, बहादुरगढ़, पटियाला, पंजाब
220. श्री पवन कुमार, सहायक उप निरीक्षक, इंचार्ज स्पेशल गार्ड, जालंधर, पंजाब
221. श्री हंस राज, सहायक उप निरीक्षक, सीआईडी यूनिट, चंडीगढ़ पंजाब
222. श्री सुरजीत सिंह, सहायक उप निरीक्षक, एस.ए.एस. नगर, पंजाब
223. श्री रमनदीप सिंह, सहायक उप निरीक्षक, सीआईडी यूनिट, अमृतसर, पंजाब
224. श्री सुखविन्दर सिंह, सहायक उप निरीक्षक, पीपीए, फिलौर, पंजाब
225. श्री कर्मजीत सिंह, सहायक उप निरीक्षक, पीएस सदर, संगरूर, पंजाब
226. श्री आलोक कुमार वशिष्ठ, पुलिस उप महानिरीक्षक, एसीबी जयपुर, राजस्थान
227. श्री रवि दत्त गौड़, उप पुलिस आयुक्त, दक्षिणी आयुक्त कार्यालय, जयपुर, राजस्थान
228. डॉ. रामदेव सिंह, कमांडेंट, 10वीं बटालियन आरएसी (आईआर) बीकानेर, राजस्थान
229. श्री सत्येन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक, बरन जिला राजस्थान
230. श्री अशोक कुमार गुप्ता, विशेष कार्यधिकारी (गृह मंत्री), राजस्थान
231. श्री अमर राज, निरीक्षक, पीएचक्यू जयपुर, राजस्थान
232. श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौर, निरीक्षक, एटीएस, जयपुर, राजस्थान
233. श्री इकबाल सिंह सिख, उप निरीक्षक, पुलिस स्टेशन सदर, बीकानेर, राजस्थान
234. श्री महाबीर सिंह, प्लाटून कमांडर, आठवीं बटालियन, आरएसी, राजस्थान
235. श्री पूर्ण मल शर्मा, सहायक उप निरीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, चुरु, राजस्थान
236. श्री रईस खान, सहायक पुलिस निरीक्षक, अपराध शाखा, जोधपुर, राजस्थान
237. श्री भवंर सिंह, हेड कांस्टेबल, सीआईडी सीबी जयपुर, राजस्थान
238. श्री अनु खान भांड, हेड कांस्टेबल, प्रथम बटालियन आरएसी जोधपुर, राजस्थान
239. श्री भगवान सिंह, हेड कांस्टेबल पुलिस लाइन जोधपुर, राजस्थान
240. श्री अमृत लाल पटेल, कांस्टेबल, एमबीसी 'सी' कंपनी, चित्तौड़गढ़, राजस्थान
241. श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत, कांस्टेबल, चतुर्थ बटालियन, आर ए सी जयपुर, राजस्थान
242. श्रीराम नाथ मीणा, कांस्टेबल, एसीबी जयपुर, राजस्थान
243. श्री छिरिगड भोटिया, सहायक उप निरीक्षक, नमची पुलिस स्टेशन सिक्किम, सिक्किम
244. श्रीआनंद कुमार सोमानी, उप महानिरीक्षक पुलिस, मदुरै रेंज, तमिलनाडु
245. श्री एन.टी. रमेश, पुलिस अधीक्षक, तमिलनाडु कमांडो विद्यालय चेन्नई, तमिलनाडु
246. श्री डी. जयावेल, कमांडेंट, तमिलनाडु स्पेशल पुलिस 9वीं बटालियन मनीमुथुर, तमिलनाडु
247. श्री टी. मरीप्पन, अपर पुलिस अधीक्षक, पीईडब्ल्यू मुदुरै, तमिलनाडु
248. श्री वी.आर. गजेन्द्रकुमार, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु
249. श्री के. श्रीधर बाबू, अपर पुलिस अधीक्षक, एसआईयू विशेष प्रभाग मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु
250. श्री टी.के. नटराजन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक त्रिची, तमिलनाडु
251. श्री एम. सुरूलिराजा, उप पुलिस अधीक्षक, कंगयाम उप प्रभाग, त्रिपुर जिला, तमिलनाडु

252. श्री के. मनोहरन, उप पुलिस अधीक्षक, नमाक्ल उप प्रभाग, तमिलनाडु
253. श्री पी. जिस् जेयापॉल, सहायक पुलिस आयुक्त, सीसीबी, मुदैरे शहर, तमिलनाडु
254. श्री एस. गनाशेखरन, उप पुलिस अधीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक कृष्णागिरी, तमिलनाडु
255. श्री के. अंगुचैमी, उप पुलिस अधीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक सिटी- चेन्नई, तमिलनाडु
256. श्री ए. उलागनाथन, उप पुलिस अधीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक, त्रिची, तमिलनाडु
257. श्री एम. तमिलसेलवन, उप पुलिस अधीक्षक, तंजावर, तमिलनाडु
258. श्री जी. अरुचैमी, सहायक कमांडेंट, तमिलनाडु विशेष पुलिस, सातवीं बटालियन पुच्चापल्ली, तमिलनाडु
259. श्री टी. रंगासामी, पुलिस निरीक्षक, एसआईडी अपराध शाखा, सीआईडी, अगमौर चेन्नई, तमिलनाडु
260. श्री सी. शिवानारुल, पुलिस निरीक्षक, विशेष शाखा, सीआईडी, तंजावर जिला, तमिलनाडु
261. श्री ए. शेकर, पुलिस निरीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक चेन्नई, तमिलनाडु
262. श्री एस. नटराजन, पुलिस निरीक्षक (तकनीकी), विशेष शाखा, सीआईडी चेन्नई, तमिलनाडु
263. श्री बी. शकर लाल, पुलिस निरीक्षक, कौरसेल, सीआईडी, चेन्नई, तमिलनाडु
264. श्री पी. अप्पन, उप पुलिस निरीक्षक, थुडियालूर, पीएस, कोयम्बटूर जिला, तमिलनाडु
265. श्री जी. एज़िलराज, विशेष पुलिस उप निरीक्षक, एसआईसी, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक, चेन्नई, तमिलनाडु
266. श्री के.आर. नागाराजू, अपर उपायुक्त, हैदराबाद, तेलंगाना
267. श्री ए.के. मिश्रा, उप पुलिस अधीक्षक, आक्टोपस, हैदराबाद, तेलंगाना
268. श्री आर. वेंकट्टया, असाल्ट कमांडर ग्रेहाउंड, हैदराबाद, तेलंगाना
269. श्री बी. जर्नादन, उप पुलिस अधीक्षक, वारंगल, तेलंगाना
270. श्री पल्लाकुरी नारायणा, एसीपी, साइबराबाद रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना
271. श्री दब्बीकर राम गोपाल, निरीक्षक (संचार), हैदराबाद, तेलंगाना
272. श्री मो. घौस, आरएसआई पीटीसी, हैदराबाद, तेलंगाना
273. श्री जी. तिरुपति रेड्डी, सहायक उप निरीक्षक (सुरक्षा खण्ड), खैराबाद हैदराबाद, तेलंगाना
274. श्री दांडियाला लक्ष्मा रेड्डी, हेड कांस्टेबल, आसूचना विभाग, हैदराबाद, तेलंगाना
275. श्री नलीशेठी वेंकटश्वर राव, हेड कांस्टेबल सीसीएस, हैदराबाद, तेलंगाना
276. श्री लुनावत गोपी, पुलिसकांस्टेबल मोते पीएस, नालागौंडाजिला, तेलंगाना
277. श्री तरुण चन्द्रा डे, उप पुलिस अधीक्षक, दक्षिण गोमती, त्रिपुरा
278. श्री केशव लाल चक्रवर्ती, उप निरीक्षक, नरसिंहगढ़, त्रिपुरा
279. श्री बिधान चन्द्रा सरकार, उप निरीक्षक, अगरतला, त्रिपुरा
280. श्री सुर्जय किशोर जमातिया, नायव सूबेदार (जीडी), सिपाहीजाला, त्रिपुरा
281. श्री शाहजहां मियाँ, हवलदार जीडी, खुवाई, त्रिपुरा
282. श्री हरीसदन त्रिपुरा, हवलदार, कंचनपुर, त्रिपुरा
283. श्री रमित शर्मा, उप महानिरीक्षक, मेरठ रेंज, उत्तर प्रदेश
284. श्री कुशहर, अपर पुलिस अधीक्षक, चंदौली, उत्तर प्रदेश

285. श्री अवधेश कुमार पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पीएसी मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश
286. श्री ददन पाल, अपर पुलिस अधीक्षक राजस्व और विशेष आसूचना लखनऊ, उत्तर प्रदेश
287. डा. अरविन्द भूषण पांडे, अपर पुलिस अधीक्षक इलाहाबाद मुख्यालय, उत्तर प्रदेश
288. श्री मनोज कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक, महानिदेशक मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश
289. डा. अखिलेश कुमार निगम, अपर पुलिस अधीक्षक, सतर्कता स्थापना लखनऊ, उत्तर प्रदेश
290. श्री ऋषि पाल सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश
291. श्री लल्लन राय, अपर पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद मुख्यालय, उत्तर प्रदेश
292. श्री अजय शंकर राय, अपर पुलिस अधीक्षक, हाथरस, उत्तर प्रदेश
293. श्रीमती कमलेश्वरी चन्द्र, अपर पुलिस अधीक्षक सीबीसीआईडी कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश
294. श्री शेष नाथ सिंह यादव, उप पुलिस अधीक्षक, जीआरपी वाराणसी, उत्तर प्रदेश
295. श्री राम नारायण, उप पुलिस अधीक्षक, सीएम सुरक्षा लखनऊ, उत्तर प्रदेश
296. श्री अरविन्द शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक आईएनटी अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
297. श्री विनोद कुमार त्यागी, उप पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
298. श्री चरन सिंह यादव, उप पुलिस अधीक्षक, बिजनौर, उत्तर प्रदेश
299. श्री अजय कुमार सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, आईएनटी लखनऊ, उत्तर प्रदेश
300. श्री अजय कुमार उप पुलिस अधीक्षक, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
301. श्री ज्ञान सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
302. श्री सुबेग सिंह सिद्ध, उप पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश
303. श्री बृजवीर सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश
304. श्री राजेन्द्र सिंह धामा, उप पुलिस अधीक्षक, बदायूं, उत्तर प्रदेश
305. श्री शौराज सिंह, निरीक्षक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
306. श्री दीवान सिंह, निरीक्षक, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
307. श्री राणामहेन्द्र प्रताप सिंह, आरआई, चंदौली, उत्तर प्रदेश
308. श्री जगमोहन सिंह, उप निरीक्षक (एमटी), मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
309. श्री हनुमान प्रसाद शुक्ला, रेडयो उप निरीक्षक, रेडियो मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश
310. श्री शाहिद अली, रेडियो उप निरीक्षक, रेडियो मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश
311. श्री माधव प्रसाद द्विवेद्वी, उप निरीक्षक, देवरिया, उत्तर प्रदेश
312. श्री शिव सागर पांडे, उप निरीक्षक, बांदा, उत्तर प्रदेश
313. श्री अगवेश दुबे, प्लाटून कमांडर, पीएसी आजमगढ़, उत्तर प्रदेश
314. श्री धर्म पाल सिंह, उप निरीक्षक, गोंडा, उत्तर प्रदेश
315. श्री मोहम्मद हाकिम बक्शी, हेड कांस्टेबल, सेंट्रल स्टोर कानपुर, उत्तर प्रदेश
316. श्री पुष्पक चन्द्र त्रिपाठी, हेड कांस्टेबल, आसूचना मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश
317. श्री कृष्णा कुमार, हेड कांस्टेबल, सीबीसीआईडी लखनऊ, उत्तर प्रदेश

318. श्री प्रदीप कुमार, हेड कांस्टेबल, 37वीं बटालियन, पीएसी कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश
319. श्री चन्द्र पाल सिंह, हेड कांस्टेबल, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
320. श्री अभिलाख सिंह कुशवाहा, हेड कांस्टेबल, महौबा, उत्तर प्रदेश
321. श्री दया शंकर, हेड ऑपरेटर, रेडियो मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश
322. श्री देव राज सिंह, हेड कांस्टेबल, मुराबादाबाद, उत्तर प्रदेश
323. श्री साबिर अली, हेड कांस्टेबल (एमटी), श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश
324. श्री शिव नारायण सिंह, हेड कांस्टेबल आईटीआई, 38 बटालियन, पीएसी लखनऊ, उत्तर प्रदेश
325. श्री बालक राम पाल, कांस्टेबल, बरेली, उत्तर प्रदेश
326. श्री सुख देव यादव, हेड कांस्टेबल, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
327. श्री कमलेश बाबू, हेड कांस्टेबल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
328. श्री हवलदार यादव, हेड कांस्टेबल, जौनपुर, उत्तर प्रदेश
329. श्री यंगपाल सिंह, हेड कांस्टेबल, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश
330. श्री हरद्वारी लाल, हेड कांस्टेबल, पीएसी लखनऊ, उत्तर प्रदेश
331. श्री कृष्ण धर मिश्रा, हेड ऑपरेटर, रेडियो मुख्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
332. श्री जगनारायण सिंह, हेड कांस्टेबल, पीएसी वीएनएस, उत्तर प्रदेश
333. श्री राम शंकर, हेडकांस्टेबल, पीएसी केएनआर, उत्तर प्रदेश
334. श्री बलवान सिंह, हेड कांस्टेबल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
335. श्री राकेश कुमार शर्मा, हेड कांस्टेबल, मेरठ, उत्तर प्रदेश
336. श्री सुरेश चन्द्र वर्मा, हेड कांस्टेबल, कन्नौज, उत्तर प्रदेश
337. श्री रविन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल, बुदायूं, उत्तर प्रदेश
338. श्री कमला कांत मिश्र, हेड कांस्टेबल, भदोई, उत्तर प्रदेश
339. श्री आनंद स्वरुप शर्मा, हेड कांस्टेबल, मेरठ, उत्तर प्रदेश
340. श्री मुकेश पाल सिंह, हेड कांस्टेबल, बागपत, उत्तर प्रदेश
341. श्री श्याम नारायण मिश्र, हेड कांस्टेबल, भदोई, उत्तर प्रदेश
342. श्री यमुना प्रसाद पांडेय, हेड कांस्टेबल, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश
343. श्री ब्रजपाल सिंह, कांस्टेबल ड्राईवर, जीआरपी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
344. श्री देवतादीन, कांस्टेबल ड्राईवर, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश
345. श्री जीत बहादुर सिंह, कांस्टेबल, अमेठी, उत्तर प्रदेश
346. श्री राम करन अवस्थी, कांस्टेबल, जीआरपी झांसी, उत्तर प्रदेश
347. श्री शिवा राम, कांस्टेबल ड्राईवर, पीएसी जीकेआर, उत्तर प्रदेश
348. श्री विनय कुमार, कांस्टेबल, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
349. श्री उमा शंकर वैश्य, उप निरीक्षक (एम), ईओडब्ल्यू लखनऊ, उत्तर प्रदेश
350. श्रीमती ऊषा रानी सिंह, उप निरीक्षक (एम), इलाहाबाद मुख्यालय, उत्तर प्रदेश



351. श्री सतीश चन्द्र गुप्ता, उप निरीक्षक (एम), इलाहाबाद मुख्यालय, उत्तर प्रदेश
352. श्री उमा शंकर मिश्रा, उप निरीक्षक (एम), आसूचना मुख्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
353. श्री बचन सिंह राणा, उप पुलिस अधीक्षक, नैनीताल जिला, उत्तराखंड
354. श्री गणेश प्रसाद बौठियाल, निरीक्षक सिविल पुलिस, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखंड
355. श्री केशी प्रसाद, प्लाटून कमांडर, 31 बटालियन पीएसी रुद्रपुर, उत्तराखंड
356. श्री सुप्रतिम सरकार, विशेष अपर आयुक्त और संयुक्त आयुक्त पुलिस ट्रैफिक, लालबाजार कोलकाता, पश्चिम बंगाल
357. श्री लक्ष्मी नारायण मीणा, संयुक्त पुलिस आयुक्त स्थापना, लाल बाजार कोलकाता, पश्चिम बंगाल
358. श्री विशाल गर्ग, उप महानिरीक्षक, मिदनापुर रेंज, खगड़पुर, पश्चिम बंगाल
359. श्री शंकर प्रसाद भट्टाचार्यजी, उप पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, अलीपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
360. श्री सुब्रत चटर्जी, उप पुलिस अधीक्षक 24 परगना, पश्चिम बंगाल
361. श्री अशोक कुमार घोष, सहायक पुलिस आयुक्त विशेषज्ञ फोर्स, प्रथम बटालियन कोलकाता पुलिस, पश्चिम बंगाल
362. श्री समर बोस, सहायक पुलिस आयुक्त, पुलिस रिजर्व फोर्स, लालबाजार कोलकाता, पश्चिम बंगाल
363. श्री तपन चक्रवर्ती, सहायक पुलिस आयुक्त, विशेष शाखा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
364. श्री बिदित कुमार मंडल, निरीक्षक, विधान नगर, पश्चिम बंगाल
365. श्री महादेब चक्रवर्ती, निरीक्षक, दक्षिण प्रभाग, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
366. श्री प्रसनजीत शोम, निरीक्षक, यातायात विभाग, लालबाजार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
367. श्री समीर कुमार पांजा, निरीक्षक, यातायात विभाग, लालबाजार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
368. श्री रवि पाटील, उप निरीक्षक, आसूचना, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
369. श्री अरुणजीत घोष, उप निरीक्षक, सीआईडी, अलीपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
370. श्री जीत बहादुर सुब्बा, उप निरीक्षक (एबी), बैरकपुर, पश्चिम बंगाल
371. श्री सुजीत चक्रवर्ती, उप निरीक्षक, स्पेशल टास्क फोर्स कोलकाता, पश्चिम बंगाल
372. सैद होसेन सहादात सहायक उप निरीक्षक, हावड़ा, पश्चिम बंगाल
373. श्री बीर बहादुर थापा, सहायक उप निरीक्षक (एआर), पुलिस मुख्यालय, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल
374. श्री सुशेन कुमार सरकार, सहायक उप निरीक्षक, एसटीएफ, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
375. श्री देवासिस हालदर, कांस्टेबल, सुरक्षा निदेशालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
376. श्री जयदेब साहा, कांस्टेबल, आसूचना, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
377. श्री साजीद अली, कांस्टेबल, हावड़ा, पश्चिम बंगाल
378. श्री अर्जुन पाराल, कांस्टेबल, दक्षिण छबीस परगना, पश्चिम बंगाल
379. श्री फेबियन विलियम, निरीक्षक (ऑपरेशनल), पुलिस रेडियो, मरीन हिल, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप
380. श्री कृपा नारायण मिश्रा, उप निरीक्षक, यातायात शाखा, अंडमान और निकोबार द्वीप
381. सुश्री जसविंदर कौर, निरीक्षक, भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र सेक्टर-26, चंडीगढ़
382. श्री मनोज सुरेश चन्द्र पटेल, पुलिस निरीक्षक, पीएचक्यू सिलवासा, दादरा और नगर हवेली
383. श्री इंटी रामचन्द्रा मोहन, पुलिस अधीक्षक, पुदुचेरी

384. श्री मोहन लाल डोगरा, सूबेदार मेजर, शिलांग, मेघालय, असम राइफल्स
385. श्री सुधाकरन ए, नाइब सूबेदार, शिलांग, मेघालय, असम राइफल्स
386. श्री डब्ल्यू श्याम किशोर सिंह, सूबेदार मेजर, मनत्रिपुकारी, मणिपुर, असम राइफल्स
387. श्री कार्तिक उपाध्याय, सूबेदार, मनत्रिपुकारी, मणिपुर, असम राइफल्स
388. श्री चन्द्र बहादुर गुरुंग, सूबेदार, कोहिमा, असम राइफल्स
389. श्री मोजिबर रहमान, सूबेदार, दीमापुर, नागालैंड, असम राइफल्स
390. श्री शेर राम, सूबेदार, चेसवेमा नागालैंड, असम राइफल्स
391. श्री सुक बहादुर गुरुंग, सूबेदार, नागालैंड, असम राइफल्स
392. श्री गारु राम, सूबेदार, मोकुचंग, नागालैंड, असम राइफल्स
393. श्री महाबल प्रसाद भारती, सूबेदार मेजर, गासपानी, नागालैंड, असम राइफल्स
394. श्री शंकर दत्त, सूबेदार मेजर, जयरामपुर, असम राइफल्स
395. श्री मुकेश त्यागी, कमांडेंट, सीएसएमटी टेकनपुर, सीमा सुरक्षा बल
396. श्री विजय कुमार थपलियाल, कमांडेंट, 76 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल
397. श्री राजीव कुमार, कमांडेंट, नई दिल्ली, सीमा सुरक्षा बल
398. श्री राकेश रंजन लाल, कमांडेंट, 23 बटालियन, तुरा, सीमा सुरक्षा बल
399. श्री ललित कुमार इक्का, कमांडेंट, छत्तीसगढ़, सीमा सुरक्षा बल
400. श्री राम सलत राम, कमांडेंट, 79 बटालियन (राजस्थान) सीमा सुरक्षा बल
401. डा. बिरम सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी(एसजी), 25 बटालियन, छावला, नई दिल्ली, सीमा सुरक्षा बल
402. डा. अमियरंजन सरकार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एसजी), एफटीआर एचक्यू उत्तरी बंगाल, सीमा सुरक्षा बल
403. डा. इन्दर सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी, टेकनपुर मध्य प्रदेश, सीमा सुरक्षा बल
404. श्री राजेन्द्र सिंह, उप कमांडेंट, 200 बटालियन, जम्मू, सीमा सुरक्षा बल
405. श्री दिनेश कुमार डोभाल, उप कमांडेंट, 87वीं बटालियन, अमरकोट पंजाब, सीमा सुरक्षा बल
406. श्री द्वरिका सिंह तोमर, उप कमांडेंट, 09-बटालियन, सीमा सुरक्षा बल
407. श्री असीम विश्वास, उप कमांडेंट, 93वीं बटालियन, बैकुण्ठपुर, सीमा सुरक्षा बल
408. श्री चन्द्र भान दहिया, उप कमांडेंट, 32वीं बटालियन, हिसार (हरियाणा), सीमा सुरक्षा बल
409. श्री अशोक कुमार, उप कमांडेंट, 60वीं बटालियन, त्रिपुरा, सीमा सुरक्षा बल
410. श्री मोहिन्दर सिंह खैड़, उप कमांडेंट, 127वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल
411. श्री पीजूष मुखर्जी, उप कमांडेंट, राजारठ, सीमा सुरक्षा बल
412. श्री ओम राज, सहायक कमांडेंट, 4 बटालियन, बैशनाबनगर, पश्चिम बंगाल, सीमा सुरक्षा बल
413. श्री श्याम सिंह राठौड़, सहायक कमांडेंट, 183वीं बटालियन, धनकगिरी, तुरा (मेघालय), सीमा सुरक्षा बल
414. श्री रामबीर सिंह, सहायक कमांडेंट, 46वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल
415. श्री हर्ष सिंह रावत, सहायक कमांडेंट, इंदौर, सीमा सुरक्षा बल
416. श्री बविन्द्र सिंह राणा, सहायक कमांडेंट (मंत्रालीय), नई दिल्ली, सीमा सुरक्षा बल

417. श्रीमती सुमन दत्ता, अनुभाग अधिकारी, नई दिल्ली, सीमा सुरक्षा बल
418. श्री शिव बिलास, निरीक्षक (जीडी), 29 बटालियन, सालबगान, सीमा सुरक्षा बल
419. श्री रघुवीर सिंह, निरीक्षक (जीडी), 61वीं बटालियन, रानीनगर, सीमा सुरक्षा बल
420. श्री धर्मबीर सिंह, निरीक्षक (जीडी), नई दिल्ली, सीमा सुरक्षा बल
421. श्री वीरेन्द्र सिंह, निरीक्षक (जीडी), 94वीं बटालियन, इन्द्रेश्वर नगर, सीमा सुरक्षा बल
422. श्री गंगा प्रसाद तिवारी, निरीक्षक (जीडी), 55वीं बटालियन, अम्बासा (त्रिपुरा), सीमा सुरक्षा बल
423. श्री दीवान चंद करलुपिया, निरीक्षक (जीडी), नई दिल्ली, सीमा सुरक्षा बल
424. श्री राजबीर सिंह यादव, निरीक्षक, बांदीपुर, सीमा सुरक्षा बल
425. श्री विजय सिंह नेगी, निरीक्षक, बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल
426. श्री वीरेन्द्र, निरीक्षक, नई दिल्ली, सीमा सुरक्षा बल
427. श्री सुमन कुमार शर्मा, निरीक्षक (संचार), पंजाब, सीमा सुरक्षा बल
428. श्री हरी सिंह, उप निरीक्षक (जीडी), 90वीं बटालियन, अबोहर(पंजाब), सीमा सुरक्षा बल
429. श्री गुलाम अहमद, उप निरीक्षक (जीडी), 138वीं बटालियन, मार्फत 56 एपीओ, सीमा सुरक्षा बल
430. श्री भरत सिंह, उप निरीक्षक (जीडी), 145वीं बटालियन, मार्फत 56 एपीओ, सीमा सुरक्षा बल
431. श्री बबन ठाकुर, उप निरीक्षक, 100वीं बटालियन मार्फत 56 एपीओ, सीमा सुरक्षा बल
432. श्री भगवान, उप निरीक्षक (जीडी), 55वीं बटालियन, अम्बासा, सीमा सुरक्षा बल
433. श्री रणबीर सिंह, उप निरीक्षक (जीडी), 04 बटालियन, बैशनाबानगर, सीमा सुरक्षा बल
434. श्री रामेश्वर पांडे, सहायक उप निरीक्षक, 48वीं बटालियन, महारानीचैरी, सीमा सुरक्षा बल
435. श्री प्रताप सिंह नेगी, कांस्टेबल(कुक), 51वीं बटालियन, बागाफा, सीमा सुरक्षा बल
436. श्री रामेश्वर ठाकुर, कांस्टेबल (बारबर), 149वीं बटालियन, किडूपल्लयम (तमिलनाडु), सीमा सुरक्षा बल
437. श्री यू.के. गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक, बीएसएंडएफसी, नई दिल्ली, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
438. श्री अनिल सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसीबी, पोर्ट ब्लेयर, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
439. श्री विश्वजीत दास, अपर पुलिस अधीक्षक, बीएसएंडएफसी, बंगलौर, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
440. श्री श्री कृष्ण, उप पुलिस अधीक्षक, आईपीसीसी, नई दिल्ली, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
441. श्री शाम दत्त, उप पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध खंड मुम्बई, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
442. श्री सत्य नारायण जाट, उप पुलिस अधीक्षक, एसयू, नई दिल्ली, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
443. श्री राजेश कुमार सिन्हा, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, धनबाद, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
444. श्री त्यागाराजन श्रीधरन, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा नागपुर, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
445. श्री आर.पी. शर्मा, पुलिसनिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा देहरादून, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
446. श्री प्रकाश शिवराम सर्वे, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा मुम्बई, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
447. श्री देविन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, एससीबी, चंडीगढ़, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
448. श्री स्वपन कुमार मुर्मू, पुलिसनिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा कोलकाता, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
449. श्री सुरेश चंद, उप पुलिस निरीक्षक, एसीयू VI नई दिल्ली, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

450. श्री राजेन्द्र गणपत चव्हाण, पुलिस उप निरीक्षक, बीएसएफसी मुम्बई, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
451. श्री दिनेश चंद्र नेगी, हेड कांस्टेबल, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा दिल्ली, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
452. श्री तडिपती सुब्बारेड्डी, हेड कांस्टेबल, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, हैदराबाद, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
453. श्री रवि लाल, कांस्टेबल, नई दिल्ली, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
454. श्री उत्तम कुमार सरकार, उप महानिरीक्षक, बीसीसीएल धनबाद, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
455. श्री शिव कुमार, वरिष्ठ कमांडेंट, भेल, हरिद्वार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
456. श्री राज कुमार सिंह, सहायक कमांडेंट, ओएनजीसी, मुंबई, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
457. श्री सुशील कुमार, सहायक कमांडेंट, अमृतसर एयरपोर्ट, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
458. श्री प्रशांता कुमार शेठी, सहायक कमांडेंट, नालको, अंगुल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
459. श्री याद राम यादव, सहायक कमांडेंट, मुंबई, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
460. श्री अनिल मालघडे, सहायक कमांडेंट, नागपुर एयरपोर्ट, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
461. श्री संग्राम केसरी भांजा, सहायक कमांडेंट, नई दिल्ली, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
462. श्री भाग सिंह, सहायक कमांडेंट, एनएफएल नांगल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
463. श्री भूपिन्दर सिंह, सहायक कमांडेंट, ओएनजीसी, नाज़ीरा, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
464. श्री सतीश चन्द्रा शर्मा, नई दिल्ली, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
465. श्री ए. वेलिआईयन, उप निरीक्षक, चेन्नई एयरपोर्ट, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
466. श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, सहायक उप निरीक्षक, बीएसएल बोकारो, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
467. श्री एन. बालागणेशन, सहायक उप निरीक्षक, आरटीसी, अराकोन्नम, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
468. श्री वनीपेंटा वेंकटा कृष्णैया वणीपेंटा, सहायक उप निरीक्षक, बीएचईएल, हैदराबाद, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
469. श्री एस. गोपा कुमार, सहायक उप निरीक्षक, वीपीटी विज़ांग, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
470. श्री चन्द्रकांत काम्बले, सहायक उप निरीक्षक, सीआईएसएफ आईएसएसी बंगलौर, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
471. श्री राजवीर सिंह, हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ जयपुर, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
472. श्री दाता राम, कांस्टेबल, आईजीआई एयसरपोर्ट, दिल्ली, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
473. श्री संदीप गोकेल, उप महानिरीक्षक, बन्तलाब, जम्मू, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
474. श्री केवल सिंह, उप महानिरीक्षक, गोवाहाटी असम, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
475. श्री अजय कुमार वशिष्ठ, उप महानिरीक्षक, जोरहाट, असम, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
476. श्री एम.जे. विजय, उप महानिरीक्षक, कोबरा सेक्टर, दिल्ली, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
477. श्री संजय ए. लाठकर, उप महानिरीक्षक, नागपुर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
478. डा. अशोक कुमार सुकुमरन, सीएमओ (एसजी), 81वीं बटालियन जसपुर छत्तीसगढ़, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
479. श्री पुखराज जयपाल, कमांडेंट, 49वीं बटालियन, श्रीनगर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
480. श्री रमचोफंग डुईडंग, कमांडेंट, 143वीं बटालियन, इम्फाल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
481. श्री सानन्द कमल, कमांडेंट, 179वीं बटालियन बारामुल्ला, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
482. श्री एम. धिनाकरण, कमांडेंट, गुप सेंटर, चेन्नई, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

483. श्री सुरेश कुमार यादव, द्वितीय कमान अधिकारी, अवंतिपुरा, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
484. श्री समरेन्द्र नाथ मंडल, द्वितीय कमान अधिकारी, 167वीं बटालियन, कोलकाता पश्चिम बंगाल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
485. श्री भरत कुमार वैष्णव, द्वितीयकमान अधिकारी, 162वीं बटालियन, कुपवाड़ा, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
486. श्री राम निवास सेखू, द्वितीयकमान अधिकारी, 70वीं बटालियन, बवाना दिल्ली, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
487. श्री दिनेश, द्वितीय कमान अधिकारी, 166 बटालियन, जम्मू, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
488. श्री हेमंत कुमार साहू, द्वितीय कमान अधिकारी, 147वीं बटालियन, सिलचर असम, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
489. श्री कल्याण सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
490. श्री पी.सी. चौहान, द्वितीय कमान अधिकारी, 27वीं बटालियन बवाना दिल्ली, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
491. श्रीमती एन. कुंजारानी देवी, द्वितीय कमान अधिकारी, 186वीं बटालियन, अरुणाचल प्रदेश, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
492. श्री शक्ति सिंह, उप कमांडेंट, 164वीं बटालियन, श्रीनगर, जेपंडके, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
493. श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, उप कमांडेंट, 189वीं बटालियन मयूरभंज ओडिशा, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
494. श्री तोरन सिंह, निरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, रायपुर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
495. श्री नेत्रपाल सिंह, निरीक्षक, केन्द्रीय प्रशिक्षण कॉलेज, कोयम्बटूर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
496. श्री चन्द्र कांत बाबु सावंत, निरीक्षक, 191 बटालियन, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
497. श्री उपेन्द्र कुमार मोदी, निरीक्षक, 4 बटालियन, रायगढ़ा ओडिशा, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
498. श्री हरीश राम, निरीक्षक, 21वीं बटालियन, आर के पुरम, नई दिल्ली, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
499. श्री रोहतास सिंह, निरीक्षक, 25वीं बटालियन, श्रीनगर (जेके), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
500. श्री सुभाष चन्द, निरीक्षक, 218वीं बटालियन, गुमला, झारखंड, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
501. श्री बदरुल हसन खान, निरीक्षक, ग्रुप सेंटर, गांधी नगर गुजरात, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
502. श्री मदन सिंह, निरीक्षक, 11वीं बटालियन, लातेहर, झारखंड, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
503. श्री उदय सिंह, निरीक्षक, सूरतगढ़, राजस्थान, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
504. श्री राम कुंवर, उप निरीक्षक, 68वीं बटालियन, इम्फाल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
505. श्री रमेश राम, उप निरीक्षक, 40वीं बटालियन, अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
506. श्री राजेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक, राँची, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
507. श्री उत्पल मंडल, उप निरीक्षक, 184वीं बटालियन, मेदनीपुर, पश्चिम बंगाल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
508. श्री देशवीर सिंह, उप निरीक्षक, रायपुर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
509. श्री प्रेम सिंह राजपुरोहित, उप निरीक्षक, 104 बटालियन, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
510. श्री ओम प्रकाश नौटियाल, सहायक उप निरीक्षक, 54वीं बटालियन, जम्मू और कश्मीर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
511. श्री मोहम्मद अयूब, हेड कांस्टेबल, 163वीं बटालियन, अनंतनाग (जेके), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
512. श्रीमती गीता देवी, उप निरीक्षक जीडी (महिला), केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, नीमच मध्य प्रदेश, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
513. श्रीमती सरला सरानिया, सीटी, जीडी (महिला), 232 बटालियन, अजमेर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
514. श्री गजेन्द्र सिंह, निरीक्षक (तकनीकी), 5 एसआईजी बटालियन, चंडीगढ़, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
515. श्री मुनेश कुमार, निरीक्षक, केन्द्रीय आयुध स्टोर, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

516. श्री महादेव माँग, सहायक निरीक्षक, ग्रुप सेंटर, बंगलौर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
517. श्री सतबीर सिंह, हेड कांस्टेबल, सीपीटीआर, 89बटालियन, बवाना दिल्ली, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
518. श्री गोपी चंद, हेड कांस्टेबल (ड्राईवर), महानिरीक्षक का कार्यालय, रायपुर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
519. श्री हरीश चन्द्रा मिश्रा, कांस्टेबल कुक, 34वीं बटालियन, नागांव असम, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
520. श्री टेगराम सिकामणि, कांस्टेबल एसके, 30 बटालियन, सोनितपुर असम, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
521. श्री दिनेश जोशी, कांस्टेबल डब्ल्यूसी, सूरतगढ़ राजस्थान, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
522. श्री एम. रामदास, सहायक कमांडेंट, 105 बटालियन, आरएएफ, कोयम्बटूर तमिलनाडु, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
523. श्री सिरोष कुमार ए आर, सहायक कमांडेंट (अनुसचिवीय), ग्रुप सेंटर, बंगलौर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
524. श्री वैकटा सुब्रमण्यम मेडिचेरला, सहायक कमांडेंट (मंत्रालयी), ग्रुप सेंटर, रंगारेड्डी तलंगाना, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
525. श्री जनार्दन सिंह, उप निदेशक, आसूचना मुख्यालय, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय
526. डा. मनदीप सिंह तुली, उप निदेशक, आसूचना मुख्यालय, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय
527. श्री चुखू आपा, अतिरिक्त उप निदेशक, आईजोल, गृह मंत्रालय
528. श्री संजय कुमार त्रिवेदी, सहायक उप निदेशक, आसूचना मुख्यालय, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय
529. श्री मनीष प्रियदर्शी, संयुक्त उप निदेशक, पटना, गृह मंत्रालय
530. श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, संयुक्त उप निदेशक, आसूचना मुख्यालय, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय
531. श्री चन्द्र सेन सिंह, सहायक निदेशक, आई.बी., नई दिल्ली, गृह मंत्रालय
532. श्री अत्तावर गोपाला कृष्ण शरण कुमार, सहायक निदेशक, हैदराबाद, गृह मंत्रालय
533. श्री सुदिप्त दास, डीसीआईओ, कोलकाता, गृह मंत्रालय
534. श्री सिद्धार्थ दाम, डीसीआईओ, आसूचना मुख्यालय, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय
535. श्री संदीप ममगई, डीसीआईओ, आसूचना मुख्यालय, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय
536. श्री ज्योति रंजन सिन्हा, सहायक निदेशक, कोलकाता, गृह मंत्रालय
537. श्री मनीष कुमार दास, डीसीआईओ, भोपाल, गृह मंत्रालय
538. श्री बी.डी. चरन, डीसीआईओ, जयपुर, गृह मंत्रालय
539. श्री रविन्दर सिंह, डीसीआईओ, पठानकोट (अमृतसर), गृह मंत्रालय
540. श्री राजेश अनिलकुमार मेश्राम, सहायक निदेशक, नागपुर, गृह मंत्रालय
541. श्री अरुण कुमार, सहायक निदेशक, बंगलौर, गृह मंत्रालय
542. श्री राजीव कुमार थपलियाल, सहायक निदेशक, लखनऊ, गृह मंत्रालय
543. श्रीमती मोनिका ए. भोंसले, डीसीआईओ, गोवाहाटी, गृह मंत्रालय
544. श्री संजय कुमार पंडिता, डीसीआईओ/तकनीकी, जम्मू, गृह मंत्रालय
545. श्री प्रदीप कुमार कन्डारी, अनुभाग अधिकारी, आसूचना मुख्यालय, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय
546. श्री बंगम नागेश्वर राव, एसीआईओ-जी/1, विजयवाड़ा, गृह मंत्रालय
547. श्री अलताफ हुसैन मसूदी, एसीआईओ-11/जी, श्रीनगर, गृह मंत्रालय
548. श्री जानसन मैथ्यू, यूडीसी, मुंबई, गृह मंत्रालय

549. श्री अशोक कुमार चारी, उप महानिरीक्षक, पटना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
550. श्री कपिल देव द्विवेदी, उप महानिरीक्षक, महानिदेशालय, नई दिल्ली, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
551. श्री ठाकुर दास देष्टा, उप कमांडेंट (कार्यालय), भोपाल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
552. श्रीमती शशी करौलिया, अनुभाग अधिकारी, महानिदेशालय, आईटीबीपी, नई दिल्ली, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
553. श्री नरेन्द्र सिंह, निरीक्षक (जीडी), एसएचक्यू देहरादून, उत्तराखंड, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
554. श्री धनश्याम प्रसाद शुक्ला, निरीक्षक (जीडी), 18वीं बटालियन, इलाहाबाद, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
555. श्री गोविन्द बल्लभ जोशी, निरीक्षक (टेली), एसएचक्यू, श्रीनगर, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
556. श्री महेन्द्र पाल, उप निरीक्षक (जीडी), एसएचक्यू, इटानगर, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
557. श्री राम धारी, कांस्टेबल (डब्ल्यूएम), एसएचक्यू, लखनऊ, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
558. श्री प्रभाकर जोशी, गुप कमांडर, प्रशिक्षण केन्द्र, मानेसर, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद
559. श्री दीपक तुषार बनर्जी, गुप कमांडर, 12 एसआरजी, मानेसर, हरियाणा, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद
560. श्री पुत्तमपुरकल के सत्यजित के. सत्यजी, सहायक कमांडेंट एन, मुख्यालय एनएसजी पालम दिल्ली, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद
561. श्री शेर सिंह ठाकुर, डीआईजी, पुरनिया, सशस्त्र सीमा बल
562. श्री भूपल सिंह रावत, एरिया आर्गनाइजर, सीटीसी सालोनीबारी, सशस्त्र सीमा बल
563. श्री अत्तर सिंह पंवार, एरिया आर्गनाइजर, पिथौरागढ़, सशस्त्र सीमा बल
564. श्री पीताम्बर सिंह डंगवाल, कार्यकारी अभियंता, रानीखेत, सशस्त्र सीमा बल
565. श्री बिनय कृष्णा सरकार, सहायक कमांडेंट, रानीडांगा, सशस्त्र सीमा बल
566. श्रीमती ऊषा सजवान, एसएओ, नई दिल्ली, सशस्त्र सीमा बल
567. श्री हरीश चन्द्रा सिंह बृजवाल, एफओ (टेली) एफटीआर मुख्यालय रानीखेत, सशस्त्र सीमा बल
568. सुश्री कल्याणी बहमा, डीएफओ (डब्ल्यूआई), एसएसबी एसएचक्यू कोकराझार, सशस्त्र सीमा बल
569. श्री लहरी दोरजी लहतो, उप महानिरीक्षक, मुख्यालय, नई दिल्ली, विशेष सुरक्षा दल
570. श्री अजय मिश्र, एआईजी, एसपीजी मुख्यालय, नई दिल्ली, विशेष सुरक्षा दल
571. श्री सुरेन्द्र सिंह, एस.एस.ए., एसपीजी, मुख्यालय, नई दिल्ली, विशेष सुरक्षा दल
572. श्री जुलाई सिर्नाह, हेड कांस्टेबल(जीडी), मेघालय, पूर्वोत्तर पुलिस एकाडेमी
573. श्री लारेंस जी. मोमिन, हेड कांस्टेबल(जीडी), मेघालय, पूर्वोत्तर पुलिस एकाडेमी
574. श्री गुरचरण सिंह, पीए, चंडीगढ़, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
575. श्री सुहास वारके, उप महानिरीक्षक, मुंबई, राष्ट्रीय जांच एजेंसी
576. श्री गोपालन रमन कोथांडा, निरीक्षक, एनआईए, हैदराबाद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी
577. श्री कनु माली, उप निरीक्षक(जीडी), गोवाहाटी (असम), राष्ट्रीय आपदा बल
578. श्री राकेश सिंह जून, कमांडेंट, गांधीनगर (गुजरात) राष्ट्रीय आपदा बल
579. श्री ओ.वी.के. शास्त्री, सहायक कमांडेंट, हैदराबाद, सरदार वल्लभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी
580. श्री पवन सिंह रावत, हेड कांस्टेबल, हैदराबाद, सरदार वल्लभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी
581. श्री अमरेन्द्र सिंह, अवर सचिव, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय
582. डा अतुल वर्मा, निदेशक (प्रवर्तन), फारवर्ड मार्केट आयोग, मुंबई, वित्त मंत्रालय

583. श्री वर्गोस वी.के., निरीक्षक, पीएमए, एमएचए, गृह मंत्रालय,  
 584. श्री अनिल कुमार नायर, एएससी, मुंबई, रेल मंत्रालय  
 585. श्री एस. शिवशंकरन, एएससी, चेन्नई, रेल मंत्रालय  
 586. श्री पी.सी. सिन्हा, उप महानिरीक्षक, मुंबई, रेल मंत्रालय  
 587. श्री तारिक अहमद, उप महानिरीक्षक, कोलकाता, रेल मंत्रालय  
 588. सुश्री अरोमा सिंह ठाकुर, उप महानिरीक्षक, दक्षिण रेलवे, चेन्नई, रेल मंत्रालय  
 589. के. चन्द्रशेखरा रेड्डी, उप निरीक्षक, टुनी, रेल मंत्रालय  
 590. श्री नरेन सेकिया, हेड कांस्टेबल, लुमडिंग, रेल मंत्रालय  
 591. श्री आर.के. सरावनन, सहायक उप निरीक्षक, त्रिची, रेल मंत्रालय  
 592. श्री अनिल राय, निरीक्षक, कोलकाता, रेल मंत्रालय  
 593. श्री अशोक कुमार मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक, जबलपुर, रेल मंत्रालय  
 594. श्री एन. रवि कुमार, निरीक्षक, मौला अली, रेल मंत्रालय  
 595. श्री विनय महाराज, निरीक्षक, बक्सर, रेल मंत्रालय

2. ये पुरस्कार सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान करने को शासित करने वाले नियम के नियम 4(ii) के अंतर्गत दिए जा रहे हैं।

सुरेश यादव  
 राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय  
 (युवा कार्यक्रम विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 नवम्बर 2015

संकल्प

विषय : राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी), श्रीपेरम्बुदूर, तमिलनाडु की कार्यकारी परिषद के गठन के संबंध में।

सं. 15-18/2013-आरजीएनआईवाईडी—अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय के दिनांक 16 नवम्बर, 2015 के समसंख्यक संकल्प को वापस लिया हुआ तथा निरस्त समझा जाए। इसके अतिरिक्त इस मंत्रालय के दिनांक 4 मार्च, 2014 के समसंख्यक संकल्प तथा दिनांक 12 मई, 2014 के अनुवर्ती समसंख्यक संकल्प के संदर्भ में राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अधिनियम, 2012 के नियम 12(1)(जी) के प्रावधानों के अनुसार एक सुप्रसिद्ध खेल हस्ती की श्रेणी में गठन के क्रम सं. 9 पर उल्लिखित सुश्री मैरी कॉम, सदस्य, कार्यकारी परिषद, आरजीएनआईवाईडी के स्थान पर सुश्री मोनालिसा बरुआ मेहता को 09.11.2015 से सदस्य, कार्यकारी परिषद, आरजीएनआईवाईडी के रूप में मनोनीत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन संसूचित किया जाता है।

2. इस मंत्रालय के दिनांक 04 मार्च, 2014 के समसंख्यक संकल्प में यथा अधिसूचित कार्यकारी परिषद के गठन के कॉलम 3 में क्रम सं. 6, 7, 8 और 10 पर उल्लिखित शब्द "पदेन" को हटाने के लिए भी सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन संसूचित किया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी ने अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद, आरजीएनआईवाईडी के पद से श्री दीप जोशी द्वारा त्यागपत्र देने के फलस्वरूप इस मंत्रालय के दिनांक 05 अगस्त, 2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 15-24/2015-आरजीएनआईवाईडी द्वारा यथा संसूचित श्री राजीव गुप्ता, सचिव, युवा कार्यक्रम विभाग की आरजीएनआईवाईडी की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का अनुमोदन किया है। श्री सी. आर. केसवन के दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 के पत्र द्वारा दिए गए उनके त्यागपत्र के फलस्वरूप उपाध्यक्ष, कार्यकारी परिषद, आरजीएनआईवाईडी का पद भी रिक्त है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए और सभी संबंधितों को भेजी जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों को भेजी जाए।

देबांजना रे  
 अवर सचिव



## PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 15th August 2015

No. 103-Pres/2015-The President is pleased to approve the award of the "Kirti Chakra" to the under mentioned person for the acts of most conspicuous gallantry:-

1. IC-61357M LIEUTENANT COLONEL NECTAR SANJENBAM, SHAURYA CHAKRA, 21<sup>ST</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)

(Effective date of the award: 08 June, 2015)

During a raid on 08 June in insurgent camp in Manipur, one manned sentry post was identified immediately by the team and the second sentry post was located at 0445 hours.

Lt Col Nectar tasked Havildar TK Limbu and Paratrooper S Chungleingam to neutralize both sentries at the first post whilst he along with Paratrooper P Deuri proceeded to neutralize the sentries at the second post. Moving stealthily, the officer approached the sentry post and in a daring operation, succeeded in eliminating both insurgents with his silenced Uzi. Observing movement in a bunker 30 meters from his position, he along with his buddy crawled towards the bunker and closed in undeterred. Hearing some talking sounds, unmindful of his personal safety, he lobbed a grenade and in yet another daring action entered the bunker, killing the four insurgents. He then ordered the fire assault with Rocket Launchers into the camp which lasted approximately 20 minutes with heavy volume of rockets and small arms fire by the insurgents from 10 to 12 other bunkers. Lt Col Nectar, thereafter, ensured the safe return of the raiding team.

Lt Col Nectar Sanjenbam, SC, displayed meticulous planning, exemplary gallantry, bold and daring action under most challenging conditions.

2. JC-571195H NAIB SUBEDAR RAJESH KUMAR, THE MAHAR REGIMENT / 30<sup>TH</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)

(Effective date of the award: 28 October, 2014)

During a Search and Destroy operation in Wadarbala Forest of Kupwara district of Jammu & Kashmir, contact with terrorists was established at 0600 hrs on 28<sup>th</sup> October 2014.

The JCO made a dash across the 75 degree slopes of Wadarbala Forest and blocked the Nala through which terrorists were escaping. The terrorists opened indiscriminate fire at close range. In a display of raw courage and utter disregard to his personal safety, he crawled forward directing his team to take cover and killed one terrorist. Balance of the terrorists holed up under a rock and could not be engaged by small arms fire. Determined to eliminate them, the JCO continued to close in. In a desperate attempt, balance of the two terrorists charged upon him. In spite of his injury, he eliminated one more terrorist before making the supreme sacrifice.

Naib Subedar Rajesh Kumar displayed gallantry of the highest order in the presence of terrorists and made the supreme sacrifice while fighting with the terrorists.

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 104-Pres/2015 – The President is pleased to approve the award of the "Shaurya Chakra" to the under mentioned persons for the acts of gallantry:-

1. IC-55822X COLONEL MUNINDRA NATH RAI, YUDH SEVA MEDAL, THE GORKHA RIFLES / 42<sup>ND</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)

(Effective date of the award: 27 January, 2015)

Colonel Munindra Nath Rai had been commanding his battalion deployed in Tral village in Pulwama district of Jammu and Kashmir displaying commitment and exemplary leadership leading to neutralisation of a number of terrorists

On 27 January 2015, on receiving information about presence of dreaded terrorist in Hunder, he rushed and cordoned the suspect house with his Quick Reaction Team. At this, father of terrorist came out and pleaded that the terrorist would surrender. While negotiations were going on, the two terrorist suddenly rushed out firing indiscriminately at close quarters on commanding officer's party. Caught in a hail of bullets and grievously wounded, the officer in an act of incomparable gallantry and superhuman effort closed in and killed one dreaded category A+ terrorist in a fierce gunfight. Realising that the second terrorist was trying to escape by firing indiscriminately, he undeterred and unmindful of his

grievous injuries, resited his troops and continued to fire effectively to block the terrorist's escape route till the time second terrorist was also eliminated by his team.

Colonel Munindra Nath Rai displayed unprecedented leadership courage and valour, well beyond the call of duty and made supreme sacrifice while fighting with the terrorists.

2. IC-69288W MAJOR TANUJ GROVER, THE ARMOURED CORPS / 22<sup>ND</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

(Effective date of the award: 21 February, 2015)

On 21 February 2015, based on input received from CARGO regarding presence of terrorists in village Thagund in Sopore district of Jammu and Kashmir, Major Tanuj Grover established effective cordon of the target complex. At 1115 hours, both the terrorists who were hiding inside the target house started firing indiscriminately at the inner cordon. As grenades were fired from multiple grenade launcher, one terrorist came out firing on own troops. Major Tanuj Grover showing utter disregard to his personal safety and displaying raw courage, swiftly positioned himself in front of terrorist blocking his escape and killed him at very close range. At 1145 hours the second terrorist jumped out of the cowshed and started firing at the officer. In spite of heavy volume of fire directed onto him, officer closed in and eliminated the second terrorist at extremely close range. Two terrorists killed personally by Major Tanuj Grover were identified as an Improvised Explosive Device expert dreaded terrorist of Laskar-e-Toiba.

Major Tanuj Grover displayed indomitable courage, gallantry and exhibiting outstanding leadership while killing the two terrorists.

3. IC-73653K CAPTAIN VARUN KUMAR SINGH, THE RAJPUT REGIMENT / 44<sup>TH</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

(Effective date of the award: 15 January, 2015)

On 14 January 2015 at 1700 hrs, Capt Varun Kumar Singh, company commander received information regarding the presence of district Commander of Jaish-e- Mohammad (JeM) Tanzeem with four more terrorists in Kohrot village of Shopian district of Jammu and Kashmir. The terrorist was the mastermind and involved in the weapon snatching incident from police picket at Pakharpura on 06 Jun 2014 and instrumental in motivating youth to join terrorism. Capt Varun acted swiftly and after a torrid 07 Hrs move on foot in high altitude forested area in hrs of darkness reached the location and deployed troops to lay an effective cordon while maintaining surprise on 15 Jan by 0430 Hrs.

At around 0730 hours while searching the dhoks, the terrorists resorted to indiscriminate fire and ran in opposite directions to break the cordon. Capt Varun immediately retaliated with heavy volume of fire resulting in the group splitting into three. One group of two terrorists slipped into the nearby nala and took cover under a boulder. Capt Varun Kumar Singh along with his buddy, Sepoy Jagveer Singh displaying raw courage while crawling to close proximity of the boulder, received a burst of fire. The officer using battle craft manoeuvred towards the direction of the fire, lobbed a grenade under the boulder injuring one terrorist. The injured terrorist retaliated with heavy volume of fire. Undeterred, Captain Varun with pin point accuracy fired to neutralize one terrorist, later identified as Category 'B' JeM. On seeing the officer in close proximity, the second terrorist under the boulder, lobbed a grenade and opened indiscriminate fire on the officer. Displaying nerves of steel, Captain Varun charged towards the boulder, brought down accurate fire at close quarters to eliminate second terrorist later identified as a Category 'A' foreign terrorist of JeM.

Captain Varun Kumar Singh displayed exemplary leadership, courage beyond call of duty, gallantry under fire resulting in the elimination of two hardcore terrorists.

4. G/144175X HAVILDAR MAN BAHADUR CHHETRI, 44<sup>TH</sup> BATTALION THE ASSAM RIFLES (POSTHUMOUS)

(Effective date of the award: 31 March, 2015)

On 31 March 2015, Havildar Man Bahadur Chhetri volunteered to be the scout number one of an Area Domination Patrol tasked to dominate the area between Battalion Headquarters and a Company Operation Base located in Ukhrul district of Manipur, one of the most intense counter insurgency areas along the Indo-Myanmar border.

Havildar Man Bahadur Chhetri while approaching Bench Corner through his superb tactical acumen detected an ambush laid by People's Liberation Army (PLA), a valley based Insurgent Group. The NCO immediately altered the patrol and engaged the insurgents. A fierce fire fight broke out. Hav Man Bahadur Chhetri through his effective and accurate fire eliminated one PLA insurgent and injured two others. The insurgents realising that their ambush was compromised and it was difficult for them to flee, detonated a series of eleven Improvised Explosive Devices (IED) laid in conjunction. Timely detection of ambush and engaging of insurgents by Havildar Man Bahadur Chhetri saved the entire patrol from the

insurgent's ambush. However, in doing so the NCO received splinter injuries from the Improvised Explosive Device and made the supreme sacrifice.

Havildar Man Bahadur Chhetri displayed raw courage, unequalled tactical acumen and selfless devotion to duty while fighting with terrorists before he made the supreme sacrifice of his life.

5. 9421485H HAVILDAR TANKA KUMAR LIMBU, 21<sup>ST</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)

(Effective date of the award: 08 June, 2015)

During the operations conducted by 21 PARA SF at Manipur, Havildar TK Limbu and his buddy were especially selected and tasked to neutralise two insurgents at the first sentry post of the camp.

The buddy pair tactically coordinated their actions with the other sentry-silencing party of Lt Col Nectar, and stealthily crawled towards the sentry post. Hav Limbu asked his buddy to cover his move, whilst he silently and cautiously approached the sentry post. On nearing the post, he observed one sentry with a weapon at the loophole whilst two other insurgents were seated on the ground. Hav Limbu stealthily approached the sentry post and eliminated one sentry with his silenced Uzi through the loophole. Before the other two insurgents could realize what had happened, Hav Limbu displaying presence of mind in a daring and courageous move entered the post and shot one sentry in the head and the other in the chest from point blank range. He then informed Lt Col Nectar about the successful sentry silencing action and occupied the sentry post with his buddy. During the subsequent fire assault on the camp by the team, Hav Limbu and his buddy brought accurate fire at the other bunkers, and thus facilitated successful destruction of the insurgent camp, inflicting heavy casualties to the insurgents.

Havildar Tanka Kumar Limbu displayed the determined, courageous and gallant action under difficult condition while fighting with insurgents.

6. COMMANDER MILIND MOHAN MOKASHI (04755-F)

(Effective date of the award: 16 April, 2015)

Commander Milind Mohan Mokashi (04755-F), is the Commissioning Commanding Officer of INS Sumitra (ship commissioned on 04 Sep 14). Whilst undertaking anti-piracy operations, the ship was diverted for Op Rahat involving evacuation of Indian and foreign nationals from worn-torn Yemen from 31 Mar – 16 Apr 15.

On the 31 Mar 15 at about 1700 hrs, the ship was tasked to enter the port of Aden and evacuate stranded Indians. Fierce fighting was reported between the Houthis rebels and the security forces of Yemen Government, with air strikes by Saudi led coalition in and around the port city. Commander Milind Mohan Mokashi prepared an elaborate plan for the evacuation operations, wherein, adequate force protection measures using the ship's anti-air weapons, FPM elements and Prahar team were set up all-round the ship to meet any incoming threat. The harbour was completely deserted with no signs of any movement and engulfed in darkness without any lights ashore. Braving the heavy firing and shelling the officer ensured the safe embarkation of personnel and sailed the ship out of harbour in a navigationally unsafe channel. He thus ensured successful completion of the first evacuation operation by the Indian Navy from the worn-torn Yemen under testing and war-like situation. He and his relatively young team carried out evacuation operations from three different ports of Yemen (one from Aden and Ash Shihr Oil Terminal and three from Al Hodeidah). In the five trips made, a total of 1621 personnel (961 Indians and 660 other nationals including 317 women and 137 children) were evacuated to safety from the worn-torn country. The exemplary level of resolute courage and outstanding leadership of Commander Mokashi ensured the success of five missions to worn-torn Yemen, including one at night.

Commander Milind Mohan Mokashi displayed the valour in the highest tradition of Navy & saved lives of 1621 personnel.

7. WING COMMANDER SANDEEP SINGH (25336) FLYING (PILOT)

(Effective date of the award: 21 November, 2014)

On 21 Nov 14 at 1610 hrs, Wing Commander Sandeep Singh Flying Pilot received a mission from Anti Naxal Task Force Commander to evacuate casualties from a forest area in Sukma district of Chattisgarh. The CRPF troops during combat ops had come under heavy fire from Naxals resulting in five serious troop casualties who needed immediate evacuation for life saving and to tilt operations in favour of own troops. Time was extremely critical and mission involved a high threat quotient. Despite the potent threat to life and tremendous risk involved, he obtained the go ahead for the mission and led the mission himself after meticulous planning. He got airborne with medical team onboard in the shortest possible time at 1635hrs.

Updates on intelligence inputs and co-ordinates of exact location of casualties were taken on R/T. Prudent, quick and considered decisions were taken in flight, to alter course and approaching the area in reciprocal direction to retain element of surprise and to ensure mission execution safely. The operational experience of Wg Cdr Sandeep Singh came in

handy and with precision handling he landed the helicopter next to the casualties with rotors just clear of the tree line in a clear patch in the jungle. The landing area had the limitation of a sloping surface and was prone to dust. Five extremely critical casualties were quickly taken in and helicopter with 22 souls onboard lifted off from the jungle at close to Sun set. Sensing the threat all around, he carried out a “Vertical out of Ground Take Off” in the only available direction. At this critical juncture the helicopter came under a burst of fire from automatic weapons. Undeterred and unfazed, he maintained his composure and courageously carried out evasive manoeuvres to minimize the exposure. Due to his deft handling of the situation the casualties were minimized and only one crew and one other person onboard sustained bullet hits with the aircraft remaining fly worthy. He continued leading the mission as it grew dark over the jungles of Bastar range. His exceptional courage, excellent professionalism and calm composure against odds not only saved five lives but also altered the course of encounter for the ground troops.

Wing Commander Sandeep Singh displayed the selfless act of exceptional courage and gallantry while saving five lives.

8. LATE MOHD SHAFI SHEIKH, HEAD CONSTABLE J&K POLICE, DISTT HANDWARA (POSTHUMOUS)

(Effective date of the award: 07 April, 2014)

On 07/04/2014, acting on a specific input regarding presence of terrorists in the house of one Mohammad Sadiq Mir at Gund Zunareshi Chowkibal, an operation was jointly launched by Police, 19 Maratha LI & 4 PARA under the supervision of DIG Police – NKR Baramulla, SP Kupwara, SP PD Handwara, Addl. SP Kupwara and DySsP(PC) Kupwara/Handwara. The area was cordoned effectively and all entry/exist routes were strategically plugged off so that terrorists could not manage to escape. The target house was searched twice but nothing suspicious was found. Since the input was specific, a dedicated team of a police component headed by Shri Maqsood-ul-Zaman, SP Handwara and other officers/officials assisted by HC Mohd Shafi Sheikh and Constable Reyaz Ahmad Lone, putting their lives in great risk, started looking for hideout in the house. All of a sudden, there was a deafening sound of indiscriminate firing from one of the walls of a room where the terrorists had taken shelter. The fire was retaliated effectively by the party which triggered a fierce encounter between the two sides. Terrorists also lobbed grenades with the intention to cause collateral damage. During heavy exchange of firing, HC Mohd Shafi Sheikh, Constable Reyaz Ahmad Lone and one Army Jawan of 19 Maratha received several bullet injuries. Shri Maqsood-ul-Zaman, SP Handwara, who was heading Police Party, succeeded in keeping the morale of the Jawans high and retaliated the fire with good presence of mind. Despite constant seeping of blood, Md Shafi Sheikh did not let the courage down and retaliated the fire with full wits/presence of mind and foiled the attempts of the terrorists to flee from encounter site. The operation continued till 8.4.2014 during which some more police personnel sustained bullet injuries and were shifted to Army Hospital. The dreaded terrorists made several attempts to flee from the house but due to tight cordon/meticulous planning of operation team, the attempts of terrorists were foiled and ultimately both the terrorists were neutralized who were identified as Muzamil & Haider of PoK affiliated with LeT outfit. A huge cache of arms/ammunition was also recovered from their possession. These terrorists were involved in various attacks on SF convoys on Drugmulla – Kupwara and Chotipora Handwara routes.

During the whole operation, HC Mohd. Shafi Shekh displayed gallantry, unparalleled courage and devotion to duty of highest order by taking on head with the dreaded terrorists hiding in the house leading to their elimination and paid his supreme sacrifice.

9. LATE SHRI REYAZ AHMAD LONE, CONSTABLE (307/H (EXK055949), J&K POLICE, DISTT HANDWARA (POSTHUMOUS)

(Effective date of the award: 07 April, 2014)

On 07/04/2014, acting on a specific input regarding presence of terrorists in the house of one Mohammad Sadiq Mir at Gund Zunareshi Chowkibal, an operation was jointly launched by Police, 19 Maratha LI & 4 PARA under the supervision of DIG Police – NKR Baramulla, SP Kupwara, SP PD Handwara, Addl. SP Kupwara and DySsP(PC) Kupwara/Handwara. The area was cordoned effectively and all entry/exist routes were strategically plugged off so that terrorists could not manage to escape. The target house was searched twice but nothing suspicious was found. Since the input was specific, a dedicated team of a police component headed by Shri Maqsood-ul-Zaman, SP Handwara and other officers/officials assisted by HC Mohd Shafi Sheikh and Constable Reyaz Ahmad Lone, putting their lives in great risk, started looking for hideout in the house. All of a sudden, there was a deafening sound of indiscriminate firing from one of the walls of a room where the terrorists had taken shelter. The fire was retaliated effectively by the party which triggered a fierce encounter between the two sides. Terrorists also lobbed grenades with the intention to cause collateral damage. During heavy exchange of firing, HC Mohd Shafi Sheikh, Constable Reyaz Ahmad Lone and one Army Jawan of 19 Maratha received several bullet injuries. Shri Maqsood-ul-Zaman, SP Handwara, who was heading Police Party, succeeded in keeping the morale of the Jawans high and retaliated the fire with good presence of mind. Despite constant seeping of blood, Shri Reyaz Ahmad Lone did not let the courage down and retaliated the fire with full wits/presence of mind and foiled the attempts of the terrorists to flee from

encounter site. The operation continued till 8.4.2014 during which some more police personnel sustained bullet injuries and were shifted to Army Hospital. The dreaded terrorists made several attempts to flee from the house but due to tight cordon/meticulous planning of operation team the attempts of terrorists were foiled and ultimately both the terrorists were neutralized who were identified as Muzamil & Haider of PoK affiliated with LeT outfit. A huge cache of arms/ammunition was also recovered from their possession. These terrorists were involved in various attacks on SF convoys on Drugmulla – Kupwara and Chotipora Handwara routes.

During the whole operation, Constable Reyaz Ahmad Lone displayed gallantry, unparalleled courage and devotion to duty of highest order by taking on head with the dreaded terrorists hiding in the house leading to their elimination and paid his supreme sacrifice.

10. LATE SHRI HIRA KUMAR JHA, SECOND-IN-COMMAND 7 Bn, CRPF (POSTHUMOUS)

(Effective date of the award: 04 July, 2014)

On 03/07/2014, an input was received about the presence of a senior dreaded Maoist Commander Sidhu Koda, Member Bihar Jharkhand Simant Zonal Committee (BJSZC), responsible for some of the most heinous crimes against the security forces, along with his platoon in village Lakhari, under PS Khaira, Distt. Jamui (Bihar). Shri Hira Kumar Jha, Second-in-Command of 7<sup>th</sup> Bn reacted promptly and after necessary corroboration of the input, embarked on a cordon and search operation along with an officer and 42 Jawans and also with another Company of 7<sup>th</sup> Bn to nab the said maoist and reached the vicinity of the target village by 0045hrs. Shri Jha directed Shri Ajit Kumar, Asst Comdt. to lay a cordon around the village. After ensuring that all the escape routes were duly plugged, he along with the Search Party commenced search of the houses in the village. As the search party approached the second house, they faced a heavy volley of fire from within the house. Shri Jha and his party immediately positioning themselves tactically retaliated the fire. Barely had the party retaliated the fire, they were fired upon simultaneously from other huts of the village as well and within no time the village turned into a battle zone. Without wasting precious time, Shri Jha gauged the situation and divided the troop into small assault parties and ordered them to move to the assigned targets adopting the tactics of “fire and move”. Meanwhile, he along with his group proceeded towards the hut from where they were being fired at with an automatic weapon. The Assault Parties also had meanwhile zeroed in on their assigned targets. The Maoists, sensing that the troops were determined to achieve their target, resorted to the time tested method of using civilians as shields, in order to escape. The troopers in order to avoid any loss of life of innocent civilians suspended fire, as the Maoists moved out of their shelters one by one taking cover of innocent civilians comprising of ladies, children, the young and the aged men. Responding to the evolving scenario, Shri Jha carefully scanned the area and the fleeing Maoists and zeroed in on an AK-47 wielding Maoist trying to move out, using a lady as his human shield. Knowing well that AK-rifles were used only by the senior Maoists, he was certain that his target was the dreaded Maoist Commander Sidhu Koda. Completely ignoring the monumental risk involved, Shri Jha made up his mind to intercept the Maoist from close proximity. He along with Shri Ajit Kumar, Assistant Comdt. and Constable Srikant Pandey withdrew from the area, took a circular route to the farthest end of the village and hid behind a bush. They waited for an opportune moment to take on the Maoist Commander. The moment the Maoist Commander came within his range of fire with a civilian shield, Shri Jha put his own life at stake and exposed himself to the Maoist in order to distract him and capture his attention. Sensing the movement of a trooper at a distance too close for comfort, the Maoist pushed aside the human shield and opened indiscriminate fire at the trooper. Shri Jha and his team retaliated the fire. In the exchange of fire that followed, one bullet pierced the skull of the brave officer Shri Jha, which snuffed the life out of him. The Maoist Commander too was hit by the bullets, but he managed to escape to the dense jungles. However, three hardcore Maoists including the wife of Sidhu Koda were apprehended and one .303 Bolt Action Rifle, one 12 Bore pistol, one Binocular, 30 kgs of explosives, three IEDs, 150 rounds of ammunition, maoist literature and other incriminating items were recovered from the arrested maoists. Intercepts of SIB, Patna subsequently confirmed that six Maoists were seriously injured in the encounter.

Late Shri Hira Kumar Jha, Second-in-Command, 7 Bn displayed unparalleled valour, raw courage, extreme devotion and selfless dedication to the national cause while making the supreme sacrifice at the altar of duty.

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 105-Pres/2015 – The President is pleased to approve the award of the “Bar to Sena Medal/Army Medal” to IC-73414P Major Rakesh Radhakrishnan, Sena Medal, the Madras Regiment, 26<sup>th</sup> Battalion, the Assam Rifles for the acts of exceptional courage.

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 106-Pres/2015 – The President is pleased to approve the award of the “Sena Medal/Army Medal” to the under mentioned personnel for the acts of exceptional courage:-

1. AR-276W SHRI JASMER SINGH MALIK, DY COMDT, 27<sup>TH</sup> BATTALION THE ASSAM RIFLES
2. IC-63648L MAJOR BHARAT ARUN, THE MAHAR REGIMENT, 1<sup>ST</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
3. IC-63910H MAJOR MANISH DAHIYA, 2<sup>ND</sup> BATTALION THE RAJPUT REGIMENT
4. IC-66140M MAJOR MANEESH MISHRA, THE GORKHA RIFLES, 1<sup>ST</sup> BATTALION THE ASSAM RIFLES
5. IC-67031M MAJOR RAVINDRA SHANTARAM KOKANE, ARMY SERVICE CORPS, 44<sup>TH</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
6. IC-67210M MAJOR PRATUL DAVID SINGH, REGIMENT OF ARTILLERY, 31 FIELD REGIMENT
7. IC-67893L MAJOR SIDDHARTH RAO, 3<sup>RD</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
8. IC-67972A MAJOR RANVIJAY SINGH PATHANIA, ARMoured CORPS, 22<sup>ND</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
9. IC-68093Y MAJOR VINEET SHARMA, THE PUNJAB REGIMENT, 22<sup>ND</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
10. IC-69973F MAJOR GAJDEEP PAL, REGIMENT OF ARTILLERY, 43<sup>RD</sup> BATTALION THE ASSAM RIFLES
11. IC-71524L MAJOR RAKESH KUMAR, THE MARATHA LIGHT INFANTRY REGIMENT, 38<sup>TH</sup> BATTALION THE ASSAM RIFLES
12. IC-72438M MAJOR VIKAS GURUNG, 2<sup>ND</sup> BATTALION THE DOGRA REGIMENT
13. IC-73203M MAJOR PRASHANT YADAV, 21<sup>ST</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
14. IC-73425F MAJOR ARVIND KUMAR SHIVRAIN, THE MECHANISED INFANTRY, 13<sup>TH</sup> BATTALION THE ASSAM RIFLES
15. IC-75232A MAJOR JASHANDEEP SINGH SOHAL, 14<sup>TH</sup> BATTALION THE GARHWAL RIFLES
16. IC-75301L CAPTAIN SUVEER RATHORE, 1<sup>ST</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
17. IC-77668K CAPTAIN DEEPAK KUMAR BHAGWANI, INTELLIGENCE CORPS, 14<sup>TH</sup> BATTALION THE GARHWAL RIFLES
18. SS-45717N CAPTAIN NAVEEN KUMAR, ARMY SERVICE CORPS, 159 FIELD REGIMENT
19. SS-47112L LIEUTENANT KRISHAN KANT, 21<sup>ST</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
20. JC-550121A SUBEDAR LILA KANTA KAKATI, 8<sup>TH</sup> BATTALION THE ASSAM RIFLES
21. JC-278851H NAIB SUBEDAR GURPREET SINGH, REGIMENT OF ARTILLERY, 31 FIELD REGIMENT
22. JC-441024M NAIB SUBEDAR REMESH BABU P, 12<sup>TH</sup> BATTALION THE MADRAS REGIMENT
23. JC-531522A NAIB SUBEDAR LAL SINGH, 14<sup>TH</sup> BATTALION THE GARHWAL RIFLES
24. 2599491W HAVILDAR MALLAPPA CHANNALLI, 11<sup>TH</sup> BATTALION THE MADRAS REGIMENT (POSTHUMOUS)
25. 4186324A HAVILDAR CHANAR SINGH, 21<sup>ST</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)

26. 4365075H HAVILDAR LALDINPUIA, THE ASSAM REGIMENT, 42<sup>ND</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
27. 9421309L HAVILDAR RAJ BAHADUR TAMANG, 21<sup>ST</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
28. G/95698K HAVILDAR DURNA KANTA DOLEY, 44<sup>TH</sup> BATTALION THE ASSAM RIFLES (POSTHUMOUS)
29. 2894815L NAIK NARENDRA SINGH GOUR, 7<sup>TH</sup> BATTALION THE RAJPUTANA RIFLES
30. 13623652H NAIK MANOJ KUMAR, 21<sup>ST</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
31. 13625402A NAIK KALYAN SINGH, 4<sup>TH</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
32. 13759898F NAIK JASWINDER SINGH, THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES, 52<sup>ND</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
33. 15561614N NAIK BHUPINDER SINGH, 21<sup>ST</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
34. 3000927K LANCE NAIK JAI RAJ, THE RAJPUT REGIMENT, 44<sup>TH</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
35. 4001680W LANCE NAIK SANSAR CHAND, 9<sup>TH</sup> BATTALION THE DOGRA REGIMENT
36. 4373439Y LANCE NAIK T ZONUNTLUANGA, THE ASSAM REGIMENT, SIACHEN BATTLE SCHOOL
37. 12924296H LANCE NAIK TERSEM LAL, 157<sup>TH</sup> BATTALION (TERRITORIAL ARMY) (H&H), SIKH
38. 15573117W LANCE NAIK JAGGA SINGH, 107<sup>TH</sup> ENGINEER REGIMENT (POSTHUMOUS)
39. 15700156W LANCE NAIK J HARI KRISHNA, CORPS OF SIGNALS, 42<sup>ND</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
40. 15486543N ALD TOYAJ MISHRA, 81<sup>ST</sup> ARMoured REGIMENT
41. 13014379A SEPOY MD ABUBAKKAR BARBHUIYA, INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) (H&H) ASSAM, 7<sup>TH</sup> BATTALION THE JAT REGIMENT
42. 5352141X RIFLEMAN KAMAL PURJA PUN, THE GORKHA RIFLES, SIACHEN BATTLE SCHOOL
43. 5457331H RIFLEMAN ROMAN SINGH ALE, 5/5<sup>TH</sup> BATTALION THE GORKHA RIFLES (FRONTIER FORCES)
44. 9927618M RIFLEMAN MAQBUL ANSAR, 5<sup>TH</sup> BATTALION THE LADAKH SCOUT
45. 16017793M RIFLEMAN DINESH KUMAR, THE RAJPUTANA RIFLES, 18<sup>TH</sup> BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
46. G/5012490A RIFLEMAN MADANE AMOL BABAN RAO, 43<sup>RD</sup> BATTALION THE ASSAM RIFLES
47. 15218627Y GUNNER GURSAHIB SINGH, REGIMENT OF ARTILLERY, 30 BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
48. 15215846P PARATROOPER KESHOR BASUMATARY, 3<sup>RD</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
49. 15693135P SIGNALMAN SAHAB SINGH, CORPS OF SIGNALS, C COMPOSITE SIGNAL REGIMENT (POSTHUMOUS)

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 107-Pres/2015 – The President is pleased to approve the award of the “Nao Sena Medal/Navy Medal” to the under mentioned personnel for the acts of exceptional courage:-

1. CAPTAIN RAJESH DHANKHAR (03587-A)
2. CAPTAIN PRADEEP SINGH (03702-N)

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 108-Pres/2015 – The President is pleased to approve the award of the “Vayu Sena Medal/Air Force Medal” to the under mentioned personnel for the acts of exceptional courage:-

1. SQUADRON LEADER S SELVAKUMAR (28716) FLYING (PILOT)
2. FLIGHT LIEUTENANT GANDIKOTA JAGAN MOHAN (30835) FLYING (PILOT)
3. 776027 SERGEANT MUKESH KUMAR TIWARI FLIGHT GUNNER

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 109–Pres/2015 -The President is pleased to give orders for publication in the Gazette of India of the names of the undermentioned officers/personnel for “Mention in Despatches” received by the Raksha Mantri from the “Chief of the Army Staff”:-

OPERATION MEGHDOOT

1. IC-67011Y MAJ PRIYANK PRIYADARSHI, 2 LADAKH SCOUT
2. 15137595F L/HAV GANGA SINGH, ARTY, 1 MED REGT
3. 16018080N RFN SATISH NARAYAN SINGH, 7 RAJ RIF

OPERATION RAKSHAK

1. IC-64995W LT COL SHAILENDRA KUMAR SINGH, MAHAR, 30 RR
2. IC-64187Y MAJ BV ANAND REDDY, 11 MADRAS
3. IC-66559X MAJ ANAND SINGH, GRENADIERS, 55 RR
4. IC-68510A MAJ KS SHYAM PRASAD, 20 MADRAS
5. IC-71516M CAPT SANDIP YADAV, ARMD, 55 RR
6. IC-76235A CAPT DAKSHYA KUMAR KAUSHIK, 15 MAHAR
7. JC-480874M NB SUB ANAND SINGH RATHORE, RAJPUT, 44 RR
8. 4363908H HAV ROTHUAMA, 16 ASSAM
9. 5350033P NK ISHORE BAHADUR PULAMI, 2/4 GORKHA RIF
10. 4376753X SEP AYIMY ANGER, ASSAM REGT, 42 RR
11. 4579268X SEP TACHANG SANGYU, MAHAR, 30 RR
12. 5852840L RFN MUKTIRAM KUNWOR, 4/9 GORKHA RIF

OPERATION ORCHID

1. G/5004809A RFN VIJAY PRATAP SINGH, 31 ASSAM RIF

OPERATION HIFAZAT

1. G/5000365K RFN TAPAS JAMATIA, 13 ASSAM RIF



## OPERATION RHINO

1. IC-67015P MAJ AMARJEET SINGH, 2 DOGRA
2. IC-69181F MAJ VARUN RATHI, ARTY, 43 ASSAM RIF
3. TA-42837F LT RUPAK GUHA NEOGI, 166 INF BN (TA) (H&H) ASSAM

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 110-Pres/2015 - The President is pleased to award the President's Police Medal for Distinguished Service on the occasion of the Independence Day, 2015 to the under mentioned officers:-

1. SHRI G. SURYAPRAKASA RAO, INSPECTOR GENERAL OF POLICE, HYDERABAD, ANDHRA PRADESH
2. SHRI P. HARI KUMAR, DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE, ELURU, ANDHRA PRADESH
3. SHRI GOPAL PRASAD, DIG, CHAMPARAN RANGE BETTIAH, BIHAR
4. SHRI RAVINDRA KUMAR BHENDIA, IGP (CAF), PHQ RAIPUR, CHHATTISGARH.
5. SHRI S VASUDEVA RAO, SPECIAL COMMISSIONER OF POLICE, NCT OF DELHI
6. SHRI VIVEK GOGIA, JOINT COMMISSIONER OF POLICE, PHQ, NCT OF DELHI
7. SHRI SUNIL GARG, IGP, GOA
8. SHRI LAGHADHIRSINH VERUBHA RANA, ASI, RAJKOT RURAL DIST., GUJARAT
9. SHRI MOHAN JHA, COMMISSIONER OF POLICE, RAJKOT CITY, GUJARAT
10. SHRI SHEEL MADHUR, DG POLICE REFORMS, GURGAON, HARYANA
11. SHRI PRASHANT KUMAR AGRAWAL, ADGP HEAD QUARTERS, PANCHKULA, HARYANA
12. SHRI S R OJHA, ADGP/AP&T, SHIMLA, HIMACHAL PRADESH
13. SHRI JAGJIT KUMAR, IGP, SRINAGAR, JAMMU AND KASHMIR
14. SHRI ALI MOHAMMAD BHAT, DIGP, CID, JAMMU, JAMMU AND KASHMIR
15. SHRI BIBHUTI BHUSHAN PRADHAN, ADG VIGILANCE CUM SECURITY, JHARKHAND URJA VIKAS LIMITED, RANCHI, JHARKHAND
16. SHRI BHASKAR RAO, ADGP, PCW BENGALURU, KARNATAKA
17. SHRI B N S REDDY, ADDL COMMISSIONER OF POLICE, BENGALURU CITY, KARNATAKA
18. SHRI K ESHWAR PRASAD, DCP VVIP SECURITY, BENGALURU CITY, KARNATAKA
19. SHRI M P DINESH, DISTRICT POLICE CHIEF, KOTTAYAM, KERALA
20. DR. RAJENDRA KUMAR MISHRA, ADGP, BHOPAL, MADHYA PRADESH
21. SHRI AJAY KUMAR SHARMA, ADDL. DIRECTOR GENERAL, SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT, BHOPAL, MADHYA PRADESH
22. SHRI YOGRAJ SINGH, SP, BHOPAL, MADHYA PRADESH
23. SHRI VIJAY KUMAR MISHRA, IO, SPECIAL BRANCH, PHQ, BHOPAL, MADHYA PRADESH
24. SHRI VIVEK VASANT PHANSALKAR, ADDITIONAL DGP, MUMBAI, MAHARASHTRA
25. SHRI ASHOK SHESHRAO JONDHALE, POLICE SUB INSPECTOR, BALAPUR POLICE STATION HINGOLI, MAHARASHTRA
26. SHRI SHERSHING THAPA, DY.COMDT, 2 BN MAP, LUANGMUAL LUNGLEI, MIZORAM,
27. SHRI MANOJ KUMAR CHHABRA, CHAIRMAN CUM MD OSPH AND WC, BHUBANESWAR, ODISHA

28. SHRI GAURAV YADAV, IGP, CHANDIGARH, PUNJAB
29. SHRI ISHWAR SINGH, IGP CUM DIRECTOR SNCB, LUDHIANA, PUNJAB
30. SHRI BHAGWAN LAL SONI, ADDL DGP CUM DIRECTOR, RAJASTHAN POLICE ACADEMY JAIPUR, RAJASTHAN
31. SHRI AMARESH PUJARI, INSPECTOR GENERAL OF POLICE, TAMIL NADU POLICE ACADEMY , CHENNAI, TAMIL NADU
32. SHRI C.SUDARSAN, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, VIGILANCE AND ANTI CORRUPTION HEADQUARTERS CHENNAI, TAMIL NADU
33. SHRI GOVIND SINGH, IGP PCS AND S, HYDERABAD, TELANGANA
34. SHRI YEDLA GANGADHAR, DIG , HYDERABAD, TELANGANA
35. SHRI BARUN BAIDYA, SUB GD, 05 BN TSR (IR-I), AMARPUR, TRIPURA
36. SHRI BISWAJIT MAHAPATRA, ADG, HUMAN RIGHTS, LUCKNOW, UTTAR PRADESH
37. DR. SANJAY MORESHWAR TARDE, ADG, CB, CID, LUCKNOW, UTTAR PRADESH
38. SHRI SERVAJEET SHAHI, DSP, MIRZAPUR, UTTAR PRADESH
39. SHRI RAJ NARAYAN, HEAD CONSTABLE, KANPUR DEHAT, UTTAR PRADESH
40. SHRI JAGDISH CHANDRA ARYA, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, POLICE HQRS, UTTARAKHAND.
41. SHRI RAJEEV KUMAR, ADG & IGP, CID, WEST BENGAL.
42. SHRI MD NURUL ANOWAR, ASTT COMMISSIONER OF POLICE, NORTH DIVISION KOLKATA, WEST BENGAL
43. SHRI K. MOHAMMED BASHEER, ACCOUNTANT, P HQ, PORTBLAIR, ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS
44. SHRI GYAN SINGH MEENA, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, CT, SILVASSA, DADRA AND NAGAR HAVELI
45. SHRI JAI BHAGWAN SANGWAN, DEPUTY INSPECTOR GENERAL, FTR HQ, TRIPURA, BORDER SECURITY FORCE
46. SHRI ASHWINI KUMAR SINGH, DEPUTY INSPECTOR GENERAL, AIR WING, NEW DELHI, BORDER SECURITY FORCE
47. SHRI SUSHIL KUMAR SINGH, DEPUTY INSPECTOR GENERAL, FTR HQ, MEGHALAYA, BORDER SECURITY FORCE
48. SHRI SUBRATA KUMAR BARUA, DEPUTY INSPECTOR GENERAL, HQ EASTERN COMMAND KOLKATA, BORDER SECURITY FORCE
49. SHRI CHERIYAN SABU, SUBEDAR MAJOR, KITTAMPALAYAM, BORDER SECURITY FORCE
50. SHRI M M OBEROI, DIRECTOR, CYBER CRIME DIRECTORATE, SINGAPORE, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
51. SHRI ASHOK BABU, SP, NEW DELHI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
52. SHRI DESH DEEPAK, SP, ACB JAMMU, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
53. SHRI SYED BAZLULLAH, ADDITIONALSP, ACB CHENNAI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
54. SHRI A. J. RAMALINGAM, DSP, ACB CHENNAI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
55. SHRI LAKSHMAN TRIPATHY, SI, ACB PORT BLAIR, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
56. SHRI GHANSHYAM RAI, ADDL. SUPDT. OF POLICE, EO-I, NEW DELHI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

57. SHRI VED PRAKASH, INSPECTOR GENERAL, HQRS NEW DELHI, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
58. SHRI VINOD KUMAR SHARMA, SENIOR COMMANDANT, RED FORT DELHI, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
59. SHRI NALIN PRABHAT, IG, KASHMIR, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
60. SHRI HARPREET SINGH SIDHU, IG, DELHI, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
61. SHRI SHAILENDRA KUMAR, IG, NEW DELHI, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
62. SHRI INDER SINGH, COMMANDANT, 55 BN, BAWANA, DELHI, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
63. SMT. KALPANA SAHA, SI, 213 BN, NAGPUR, MAHARASHTRA, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
64. SHRI RAVADA AZAD CHANDRA SEKHAR, JD, VIJAYAWADA, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
65. SHRI HARMEET SINGH, JD, SRINAGAR, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
66. SMT. SAPNA TEWARI, JD, BHUBANESWAR, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
67. SMT IDASHISHA NONGRANG, JD, IB HQRS, NEW DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
68. SHRI ANIL KUMAR NEGI, AD, SIB DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
69. SHRI ASHEESH SRIVASTAVA, ASSISTANT DIRECTOR, SIB RAIPUR, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
70. SHRI SANJAY SINGHAL, INSPECTOR GENERAL, EASTERN FRONTIER LUCKNOW, INDO TIBETAN BORDER POLICE
71. SHRI PREM SINGH, DIG, CHANDIGARH, INDO TIBETAN BORDER POLICE
72. SHRI ADITYA MISRA, INSPECTOR GENERAL, NEW DELHI, SASHAstra SEEMA BAL
73. SHRI NARENDER NATH DHAR DUBEY, SUPERINTENDENT OF POLICE, NEW DELHI, NATIONAL INVESTIGATION AGENCY
74. SHRI SANDEEP RAI RATHORE, IG, HQ DG, NDRF & CD, R.K. PURAM, NEW DELHI-66, NDRF
75. SHRI S. MURUGARAJ, INSPECTOR, SVP HYDERABAD, SVP HYDERABAD, NPA
76. SHRI SHAIK IMTIAZ AHMED, ASSISTANT COMMANDANT, 7th BN, RPSF, M/O RAILWAYS

2. These awards are made under rule 4(ii) of the rule governing the grant of Presidents Police Medal for Distinguished Service.

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 111-Pres/2015 - The President is pleased to award the Police Medal for Meritorious Service on the occasion of the Independence Day, 2015 to the under mentioned officers:-

1. SHRI P. VENKATRAMI REDDY, SUPERINTENDENT OF POLICE, ANANTAPURAMU, ANDHRA PRADESH
2. SHRI Y.V. SUBBA RAO, ADDITIONAL DIRECTOR POLICE COMMUNICATIONS, HYDERABAD, ANDHRA PRADESH
3. SHRI N. SREENIVASA RAO, SQUADRON COMMANDER, HYDERABAD, ANDHRA PRADESH
4. SHRI KARANAM MALYADRI, ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE, ANANTAPURAM, ANDHRA PRADESH

5. SHRI R. SRINIVAS, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, VISAKHAPATNAM, ANDHRA PRADESH
6. SHRI P. SATTI BABU, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, HYDERABAD, ANDHRA PRADESH
7. SHRI M. SRINIVASA RAO, SUB INSPECTOR, HYDERABAD, ANDHRA PRADESH
8. SMT. NATHA RAJA SULOCHANA, SUB INSPECTOR, PENAMALURU, ANDHRA PRADESH
9. SHRI BADAMPUDI PURNANANDA VENKATA VIJAYA KUMAR, ASSISTANT SUB INSPECTOR, PENUMANTRA, ANDHRA PRADESH
10. SHRI PULAKALA MADHAVA RAO, HEAD CONSTABLE, VISAKHAPATNAM, ANDHRA PRADESH
11. SHRI ABBAIAHGARI MURALI MOHAN, HEAD CONSTABLE, KUPPAM, ANDHRA PRADESH
12. SHRI BOTAMANCHI VENU GOPALA RAO, HEAD CONSTABLE, HYDERABAD, ANDHRA PRADESH
13. SHRI VETAGIRI GOPALAI AH, POLICE CONSTABLE, BALAJINAGAR, ANDHRA PRADESH
14. SHRI M. CHANDRA SEKHAR RAJU, POLICE CONSTABLE (CID), HYDERABAD, ANDHRA PRADESH
15. SHRI CHANDRA BHUSHAN RAI, SI, PS DEOMALI, ARUNACHAL PRADESH
16. SHRI TAPANG MELONG, ASI, 5TH IRBN, PASIGHAT, ARUNACHAL PRADESH
17. SMT. RATNA SINGHA, SP(EAST), KAHALIPARA, GUWAHATI, ASSAM
18. SHRI KIRON DIHINGIA, SUB-INSPECTOR OF POLICE(AB), 1 ASSAM POLICE BATTALION, LIGIRIPUKHURI, SIVASAGAR, ASSAM
19. SHRI BINOD KUMAR SINGH, ASSTT.SUB-INSPECTOR, KOKRAJHAR , ASSAM
20. SHRI KUNDAN SINGH BISHT , HAVILDAR, 1 ASSAM POLICE TASK FORCE BATTALION, KAKURVITA, GOALPARA , ASSAM
21. SHRI BHADRESWAR DUTTA, HAVILDAR/CLK, 1 ASSAM POLICE BATTALION HQRS, LIGIRIPUKHURI, SIVASAGAR, ASSAM
22. SHRI RAMANI KANTA BARMAN, CONSTABLE(UB), BASUGAON POLICE STATION, GOALPARA , ASSAM
23. SHRI ANIL KUMAR, SERGANT MAJOR, PATNA TRAFFICE POLICE, BIHAR
24. SHRI BINAY KRISHNA, INSPECTOR, EOU BIHAR PATNA, BIHAR
25. MRS. BHAVANA VARMA, INSPECTOR, CID BIHAR PATNA, BIHAR
26. SMT. SUDESH YADAV, INSPECTOR, VIGILENCE INVESTIGATION BUREAU PATNA, BIHAR
27. SHRI ANJANI KUMAR SRIVASTVA, STENO SI, VIGILENCE INVESTIGATION BUREAU PATNA, BIHAR
28. SHRI VIJAY KUMAR SINGH, ASI, CID PATNA, BIHAR
29. SHRI MADAN TIWARY, HAVALDAR, BMP PATNA, BIHAR
30. SHRI BARA BABU SINGH, HAVALDAR, SPECIAL BRANCH PATNA, BIHAR
31. SHRI NARENDRA KUMAR DUBEY, HAVALDAR, PATNA, BIHAR
32. SHRI RAMESH NATH CHOUDHRY, HAVALDAR (DRIVER) , CID PATNA, BIHAR
33. SHRI MADAN SINGH, CONSTABLE, DGP OFFICE PATNA, BIHAR
34. SHRI SURENDRA KUMAR MANDAL, CONSTABLE, DGP OFFICE PATNA, BIHAR
35. SHRI SANJAY KUMAR CHOUDHARY, CONSTABLE, HQRS, PATNA, BIHAR

36. SHRI SHAILENDRA KUMAR PANDEY, CONSTABLE, PATNA, BIHAR
37. SHRI MUKUL KUMAR, CONSTABLE (CID) PATNA, BIHAR
38. SHRI MD NASEEM, CONSTABLE (CID) PATNA, BIHAR
39. SHRI PRASANNA KUMAR BHATTACHARYA, CONSTABLE, CID PATNA, BIHAR
40. SHRI MANISH KUMAR SHARMA, SUPERINTENDENT OF POLICE, DHAMTARI, CHHATISGARH.
41. SHRI UDAYBHAN SINGH CHAUHAN, ADDL SUPERINTENDENT OF POLICE, BHILAI DISTT DURG, CHHATISGARH.
42. SHRI BAHADUR SINGH, COMPANY COMMANDER, 9 BN CAF DANTEWADA, CHHATISGARH.
43. SHRI DEODAT SINGH YADAV, PLATOON COMMANDER, 10 BN CAF SURAJPUR, CHHATISGARH.
44. SHRI SATISH KUMAR MASIH, ASI, SIB PHQ RAIPUR, CHHATTISGARH,
45. SHRI VIJAY KUMAR MISHRA, CONSTABLE, MAHASAMUND, CHHATISGARH.
46. SHRI SALIM MOHAMMED , CONSTABLE , DURG, CHHATISGARH.
47. SHRI RAJESH SONI, SUBEDAR (M) , PHQ RAIPUR CHHATISGARH.
48. SHRI KRISHANA KUMAR SONI, SI (M) , O/O SP RAIL RAIPUR, CHHATISGARH.
49. SHRI VIJAY KUMAR, ACP, R P BHAWAN, NCT OF DELHI
50. SMT. LAXMI BAI KANWAT, ACP, NANAKPURA, NCT OF DELHI
51. SHRI SAWTANTAR SINGH GILL, ACP, 1st BN/DAP, NCT OF DELHI
52. SHRI SURENDER KUMAR, INSPECTOR (MIN), OFFICE OF THE FA TO CP DELHI, NCT OF DELHI
53. SHRI DHARAM PAL, INSPECTOR (COMMUNICATION, NCT OF DELHI
54. SHRI NARESH CHOPRA, SUB-INSPECTOR, LAND & BUILDING. CELL (PHQ), NCT OF DELHI
55. SHRI BRAHM PAL, SI (EXE.), TRAFFIC, NCT OF DELHI
56. SHRI RAMESH CHANDER, ASI (DRIVER), NCT OF DELHI
57. SHRI HAZARA SINGH, ASI (DRIVER), NCT OF DELHI
58. SHRI JITENDER KUMAR, HEAD CONSTABLE (EXE.), CRIME BRANCH, NCT OF DELHI
59. SHRI VINAY KUMAR, HEAD CONSTABLE(EXE), SECURITY, NCT OF DELHI
60. SHRI B KUMAR DASS, CONSTABLE(EXE), FRRO, R K PURAM, NCT OF DELHI
61. SHRI KALYAN CHAND, HEAD CONSTABLE(EXE), 7TH BN DAP, NCT OF DELHI
62. SHRI KRISHANAN N, HEAD CONSTABLE, DCP OFFICE, SOUTH-EAST DISTT, SARITA VIHAR, NCT OF DELHI
63. SHRI BOSCO B. F. GEORGE, SUPERINTENDENT OF POLICE , ANTI CORRUPTION BRANCH VIGILANCE DEPARTMENT , GOA
64. SHRI H R KADIWALA, DY. SUPERINTENDENT OF POLICE, WESTERN RAILWAY, VADODARA, GUJARAT
65. SHRI PRAVINSINH TAPUBHA VAGHELA, UNARM POLICE INSPECTOR, CID CRIME GANDHINAGAR, GUJARAT
66. SHRI U. C. MARKANDE, PSI, SURAT LCB WESTERN RAILWAY, GUJARAT
67. SHRI POLUBHA GOLUBHA GOHIL, UNARMED POLICE SUB. INSPECTOR, CHOTILA POLICE STATION, GUJARAT
68. SHRI ASHOKKUMAR KESHAVLAL PARMAR, UNARMED ASSISTANT SUB INSPECTOR, CID CRIME AND RAILWAY, GANDHINAGAR, GUJARAT

69. SHRI RAVAL HARSHADKUMAR CHANDULAL, ASISTANT SUB INSPECTOR, CPI WESTERN RAILWAY, VALSAD, GUJARAT
70. SHRI MANUBHAI., UNARMED ASSISTANT SUB INSPECTOR, DETECTION CRIME BRANCH, SURAT CITY, GUJARAT
71. SHRI MANUBA RAMSING PARMAR, ASI, SURENDRANAGAR, GUJARAT
72. SHRI PRAVINBHAI PARMAR, ASI, SRP GR-VI, MUDETI, GUJARAT
73. SHRI P. N. SOLANKI , UN HEAD CONSTABLE, IGP RAILWAY GS GANDHINAGAR, GUJARAT
74. SHRI PRAVINCHANDRA VITHALBHAI VAGHELA, ARMED POLICE CONSTABLE, SRPF GR XIII GHANTESHWAR RAJKOT, GUJARAT
75. SHRI PARMAR BABUBHAI, IO, GANDHINAGAR, GUJARAT
76. SHRI SURESHKUMAR VALA, INTELLIGENCE OFFICER, O/O ADGP INTELLIGENCE GANDHINAGAR, GUJARAT
77. SHRI JAGDISHBHAI T. KASUNDRA, ASST. INTELLIGENCE OFFICER, O/O ADGP INTELLIGENCE GANDHINAGAR, GUJARAT
78. SHRI AMIT KUMAR VISHWAKARMA, DIG OF POLICE, STATE CRIME RECORDS BUREAU, GANDHINAGAR, GUJARAT
79. SHRI BRAJESH KUMAR JHA, DIG OF POLICE, JUNAGADH, GUJARAT
80. SHRI BHATT DIPAK, DIG OF POLICE, GANDHINAGAR , GUJARAT
81. DR. BINAY KUMAR SINHA, ADGP , GURGAON, HARYANA
82. SHRI SURINDER PAL SINGH, DCP, AMBALA, HARYANA
83. SMT. SURINDER MOHINI, DSP, FIRST BN HAP AMBALA CITY, HARYANA
84. SHRI DALIP KUMAR, DSP, PANCHKULA, HARYANA
85. SHRI AJAY KUMAR, INSPECTOR CID, SIRSA, HARYANA
86. SHRI JYOTI SHEEL, INSPECTOR CID, ROHTAK, HARYANA
87. SHRI RAJIV MOHAN, SUB INSPECTOR, SCRB, (H), MADHUBAN, HARYANA
88. SHRI SULTAN SINGH, SUB INSPECTOR, MADHUBAN, HARYANA
89. SHRI HARBILAS SINGH, SUB INSPECTOR, PANCHKULA, HARYANA
90. SHRI SIKANDAR LAL, SUB INSPECTOR (CID), AMBALA, HARYANA
91. SHRI JITENDER SINGH, SUB INSPECTOR, HPA, MADHUBAN, HARYANA
92. SHRI DEVI LAL, ASSISTANT SUB INSPECTOR, O/O ADGP/L&O, HARYANA
93. SMT. SEEMA GUPTA, ASSISTANT SUB INSPECTOR, HARYANA, HARYANA
94. SHRI SURESH CHAND, ASSISTANT SUB INSPECTOR, PANCHKULA HARYANA
95. SHRI NIHAL CHAND, ADDL. SUPERINTENDENT OF POLICE, KULLU, HIMACHAL PRADESH
96. DR RAVINDER KUMAR, INSPECTOR, SOLAN, HIMACHAL PRADESH
97. SHRI PRAKASH CHAND, HEAD CONSTABLE, SHIMLA, HIMACHAL PRADESH
98. SHRI RAKESH KUMAR, HEAD CONSTABLE, SHIMLA, HIMACHAL PRADESH
99. SHRI MOHAMMAD YAQOOB BHAT, ASSISTANT SUB INSPECTOR, DISTT. SRINAGAR, JAMMU AND KASHMIR
100. SHRI JAVED IQBAL, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, PTWS JAMMU, JAMMU AND KASHMIR
101. SHRI SYED SAJAD HUSSAIN, INSPECTOR(S), PHQ, JAMMU AND KASHMIR

102. SHRI VEER JI PANDITA, HEAD CONSTABLE CID, TECHNICAL CELL, JAMMU, JAMMU AND KASHMIR
103. SHRI MOHMAD RAFI PARRAY, INSPECTOR, VIGILANCE, JAMMU AND KASHMIR
104. SHRI FAROOQ AHMAD MAGRAY, HEAD CONSTABLE, IRP 18TH SHOPIAN , JAMMU AND KASHMIR
105. SHRI RASHID KHAN, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, SSG, JAMMU AND KASHMIR
106. SHRI VIRENDER SHARMA, SSP, CID, JAMMU, JAMMU AND KASHMIR
107. SHRI BASHIR AHMAD MAGRAY, SUB-INSPECTOR, JAMMU AND KASHMIR
108. SHRI AIJAZ AHMED BHAT, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, CID CELL NEW DELHI, JAMMU AND KASHMIR
109. SHRI GHULAM MOHI-UD-DIN WANI, HEAD CONSTABLE (SOG), SRINAGAR, JAMMU AND KASHMIR
110. SHRI RASHPAL SINGH, HEAD CONSTABLE, JAMMU AND KASHMIR
111. SHRI ABDUL AZIZ QADRI, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE , SRINAGAR, JAMMU AND KASHMIR
112. SHRI ZAHID AHMAD LONE, DY SP, SRINAGAR, JAMMU AND KASHMIR
113. SHRI GH. MOHI-UD-DIN TANTRAY, HEAD CONSTABLE, BUDGAM, JAMMU AND KASHMIR
114. SHRI RAVINDER PAL SINGH, DY SP, JAMMU AND KASHMIR
115. MRS. MADHU BANDRAL, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, JAMMU AND KASHMIR
116. SHRI PRABHAT KUMAR SINGH, INSPECTOR OF POLICE, HAZARIBAGH, JHARKHAND
117. SHRI BANKATESH KUMAR, INSPECTOR OF POLICE SPECIAL BRANCH RANCHI, JHARKHAND
118. SHRI BALDAU CHAUBEY, ASI , IRB-5, GUMLA , JHARKHAND
119. SHRI SURAJ KUMAR THAPA, SEPOY, JAP-1, RANCHI, JHARKHAND
120. SHRI RAMESH GURUNG, SEPOY , JAP-1, RANCHI, JHARKHAND
121. SHRI DILIP KUMAR TIWARY, HAVILDAR, POLICE LINE HZB, JHARKHAND
122. SHRI DARA SINGH, CONSTABLE, CHOUPARAN PS, JHARKHAND.
123. SHRI MANOJ KUMAR SINGH, CONSTABLE, POLICE OFFICE, HZB, JHARKHAND
124. SHRI NIMBALKAR HEMANT M, DIGP, CID BENGALURU, KARNATAKA
125. SHRI M S INDUSHEKAR, SUPERINTENDENT OF POLICE, KSPTS, CHANNAPATNA, KARNATAKA
126. SHRI UMESHA S K, ACP, VIJAYANAGAR, BENGALURU CITY, KARNATAKA
127. SHRI SHIVAKUMARAI AH , ACP, MYSORE CITY, KARNATAKA
128. SHRI C W POOVAIAH, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, LOKAYUKTA, BENGALURU CITY, KARNATAKA
129. SHRI BALEGOWDA, PI, KAMAKSHIPALYA PS BENGALURU CITY, KARNATAKA
130. SHRI K AJAYKUMAR, PI (WIRELESS), POLICE WIRELESS TRAINING SCHOOL BENGALURU, KARNATAKA
131. SHRI S V CHIKKARAMASWAMY, PSI (WIRELESS), CTS, BENGALURU, KARNATAKA
132. SHRI M L GOPALAKRISHNA, PSI (WIRELESS), CENTRAL WORKSHOP, BENGALURU, KARNATAKA
133. SHRI R VENKATESHA MURTHY, ASI CID, BENGALURU, KARNATAKA

134. SHRI VIRUPAKSHA N, ASI, CHIKKAMAGALURU DIST, KARNATAKA
135. SHRI H R VISHWANATH, ASI, KADUR PS CHIKKAMAGALURU DIST, KARNATAKA
136. SHRI PACHAPUR D M, ARSI, IRB MUNIRABAD, KARNATAKA
137. SHRI H V VASUDEVA RAO, HC , STATE INTELLIGENCE, BENGALURU, KARNATAKA
138. SHRI AZAM , HC, KARNATAKA LOKAYUKTA, RAICHUR, KARNATAKA
139. SHRI P A PALANGAPPA, HC, 5TH BN, KSRP, MYSURU, KARNATAKA
140. SHRI K R PURUSHOTHAMA, HC, 7TH BN, KSRP, MANGALURU, KARNATAKA
141. SHRI P VIJAYAN, DIG, SBCID HQ RS, PATTOM, TRIVANDRUM, KER ALA
142. SHRI A V GEORGE, COMMANDANT, PANDIKKAD, KERALA
143. SHRI S. SASIDHARAN, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, DISTRICT CRIME RECORDS BUREAU PALAKKAD, KERALA
144. SHRI REJI JACOB, ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE , DISTRICT SPECIAL BRANCH THIRUVANANTHAPURAM, KERALA
145. SHRI RAKESH GUPTA, DIG ,INDORE, MADHYA PRADESH
146. SHRI MAHENDRA SINGH SIKARWAR, SUPDT. OF POLICE, DISTT KHANDAWA, MADHYA PRADESH
147. SHRI PREM BABU SHARMA, SUPERINTENDENT OF POLICE, DISTT HARDA, MADHYA PRADESH
148. SHRI NET RAM GOHIYA, ASSISTANT COMMANDANT, 29TH BN, DATIA, MADHYA PRADESH
149. SHRI JAYRAJ SINGH SAJVAN, COMPANY COMMANDER, 8TH BN SAF, CHHINDWARA, MADHYA PRADESH
150. SHRI BHUWANESHWAR PANT, SUB INSPECTOR (MT), JNPA, SAGAR, MADHYA PRADESH
151. SHRI VIJAY SHANKAR DWIVEDI, SUB INSPECTOR, P.S. ITARSI, HOSHANGABAD, MADHYA PRADESH
152. SHRI UMANATH DUBEY, HEAD CONSTABLE, 25TH BN SAF, BHOPAL, MADHYA PRADESH
153. SHRI BRIJPATI YADAV, HEAD CONSTABLE, PS LAVKUSH NAGAR, CHHATARPUR, MADHYA PRADESH
154. SHRI RAM NARESH KHATIK, HEAD CONSTABLE, LOKAYUKTA, BHOPAL, MADHYA PRADESH
155. SHRI MANOHAR LAL BADELE, CONSTABLE (BAND), RAPTC, INDORE, MADHYA PRADESH
156. SHRI SURESH PANT, CONSTABLE(MT), 10TH BN, SAF, SAGAR, MADHYA PRADESH
157. SHRI SHEKHAR VASANTRAO DIXIT, INSPECTOR (M)/PS, O/o ADG NARCOTICS, INDORE, MADHYA PRADESH
158. SMT. MADHOTRI KHUBANI, INSPECTOR (M)/STENO, SAF, PHQ, BHOPAL, MADHYA PRADESH
159. SHRI NIRANJAN KUMAR SHRIVASTAVA, INSPECTOR (M), PHQ, BHOPAL, MADHYA PRADESH
160. SHRI RAKESH KUMAR SHRIVASTAVA, INSPECTOR (M), PHQ, BHOPAL, MADHYA PRADESH
161. DR. JAY VASANTRAO JADHAV, SUPERINTENDENT OF POLICE, PUNE RURAL, MAHARASHTRA
162. SHRI CHANDRAKANT RAMBHAU GUNDGE, POLICE INSPECTOR, TRAFFIC BRANCH THANE RURAL, MAHARASHTRA
163. SHRI MANOHAR DAGADU DHANAWADE , POLICE INSPECTOR, DETECTION CRIME BRANCH, MUMBAI, MAHARASHTRA
164. SHRI VASANT YASHWANT GAVALI, PSI, DAUND, MAHARASHTRA
165. SHRI SHIVAJI KISAN GHUGE, PSI, MANTRALAYA SECURITY MUMBAI, MAHARASHTRA



166. SHRI VISHNU PANDURANG MALGAONKAR, SR INTELLIGENCE OFFICER, STATE INTELLIGENCE DEPT MUMBAI, MAHARASHTRA
167. SHRI RAMCHANDRA BAPU SAWANT, PSI, TRAFFIC DIVISION MUMBAI, MAHARASHTRA
168. SHRI DEEPAK PARSHURAM SAWANT, PSI, STATE INTELLIGENCE DEPARTMENT , MAHARASHTRA
169. SHRI ANWARBEG EBRAHIMBEG MIRZA, PSI, NANDED, MAHARASHTRA
170. SHRI POPAT BAJIRAO KAD, ASI, PUNE, MAHARASHTRA
171. SHRI GYANOBA TEJRAO HAKKE, ARMED ASI, JALNA, MAHARASHTRA
172. SHRI BABASAHEB ISHWAR GAWALI, ASSISTANT SUB INSPECTOR, ANDHERI POLICE STATION, MUMBAI CITY, MAHARASHTRA
173. SHRI VISHWAS DHANRAJ SONAWANE, ASSISTANT SUB INSPECTOR, DHULE, MAHARASHTRA
174. SHRI RAMASARE RAMKRIPAL MISHRA, ASSISTANT SUB INSPECTOR, PS KHAPARKHEDA NAGPUR RURAL, MAHARASHTRA
175. SHRI TANAJI MARUTI LAVAND, ASSISTANT SUB INSPECTOR, NIAGAON MUMBAI, MAHARASHTRA
176. SHRI ISHWAR DEORAOJI KINKAR, ASSISTANT SUB INSPECTOR, SPICAL BRANCH NAGPUR CITY, MAHARASHTRA
177. SHRI BALASAHEB SHANKARRAO TOKE, ASSISTANT SUB INSPECTOR, DIGHI POLICE STATION PUNE CITY, MAHARASHTRA
178. SHRI MADHAV RAMJI GAIKWAD, ASSISTANT SUB INSPECTOR, AURANGABAD CITY, MAHARASHTRA
179. SHRI SAYYED REHMAN CHANDPASHA, ASSISTANT SUB INSPECTOR, POLICE TRAINING CENTER LATUR, MAHARASHTRA
180. SHRI VINOD LALTAPRASAD TIWARI, ASSISTANT SUB INSPECTOR, NAXAL CELL CHANDRAPUR, MAHARASHTRA
181. SHRI RAVINDRA BALKRISHNA DALVI, HEAD CONSTABLE , MT SECTION, MUMBAI , MAHARASHTRA
182. SHRI ASHOK MALHARRAO ZOAL, HEAD CONSTABLE, CONTROL ROOM, PUNE CITY, MAHARASHTRA
183. SHRI ANIL NATTHU SALIAN, HEAD CONSTABLE, SPECIAL BRANCH, CID, MUMBAI, MAHARASHTRA
184. SHRI HANMANT BAPURAO AWALE, HEAD CONSTABLE, ANTI CORRUPTION BUREAU PUNE, MAHARASHTRA
185. SHRI ARJUN DADA WAKSE, HEAD CONSTABLE, ANDHERI POLICE STATION MUMBAI, MAHARASHTRA
186. SHRI SAMPAT MAHADEO JADHAV, HEAD CONSTABLE, VIMANTAL POLICE STATION PUNE CITY, MAHARASHTRA
187. SHRI SADASHIV GANGADHAR NATHE, HEAD CONSTABLE, SPECIAL BRANCH THANE CITY, MAHARASHTRA
188. SHRI PIRAJI BABU MOHITE, HEAD CONSTABLE, PUNE, MAHARASHTRA
189. SHRI VIKAS MADHAV YAWALKAR, HEAD CONSTABLE, JALGOAN, MAHARASHTRA
190. SHRI SHANTARAM GENBHAU DUMBRE, HEAD CONSTABLE, ARMED POLICE NAIGOAN MUMBAI, MAHARASHTRA
191. SHRI ASHOK TUKARAM PATIL, HEAD CONSTABLE, LONIKAND POLICE STATION PUNE RURAL, MAHARASHTRA

192. SHRI TANAJI BABASAHEB JADHAV, HEAD CONSTABLE, TRAFFIC BRANCH MUMBAI CITY, MAHARASHTRA
193. SHRI APPASAHEB SATGONDA PATIL, HEAD CONSTABLE, PCR SANGALI, MAHARASHTRA
194. SHRI MADHUKAR NIVRUTTI RANPISE, HEAD CONSTABLE, CID, PUNE, MAHARASHTRA
195. SHRI VIJAY RAJARAM MAHADIK, HEAD CONSTABLE, CID, MUMBAI, MAHARASHTRA
196. SHRI RAJENDRA BAPURAO JAGTAP, HEAD CONSTABLE, MUNDHWA POLICE STATION, PUNE CITY, MAHARASHTRA
197. SHRI NOVELSON LYNGDOH, HAVILDAR, 1 MLP BATTALION, MEGHALAYA
198. SHRI R VANLALDUATA, INSPECTOR OF POLICE, LAW & ORDER CELL, AIZAWL, MIZORAM
199. SHRI H C SANGZUALA, INSPECTOR, 1 BN MAP, MIZORAM
200. SHRI IMTIAKUM PONGEN, ASSISTANT PRINCIPAL, PTS NAGALAND.
201. SHRI CHOTSASE SANGTAM, ASSISTANT COMMANDANT, 10 NAP BN (IR) ZHADIMA NAGALAND.
202. SHRI KANHU RANJAN PATTANAYAK, DEPUTY COMMANDANT, DEOGARH, ODISHA
203. SHRI KRUSHNA KUMAR DAS, DY SUPERINTENDENT OF POLICE (SYSTEM ANALYST), CUTTACK, ODISHA
204. SHRI PRASANTA KUMAR MALLA, INSPECTOR OF POLICE, BALUGAON PS KHORDHA, ODISHA
205. SHRI MANOJ KUMAR NAIK, SI OF POLICE SPECIAL INTELLIGENCE WING, BHUBANESWAR, ODISHA
206. SHRI JANMEJAY MALLICK, SUB INSPECTOR (FITTER) PMT, CUTTACK, ODISHA
207. SHRI BILASH CHANDRA MOHANTY, ASI OF POLICE, CID, CUTTACK, ODISHA
208. SHRI KISHORE CHANDRA MAJHI, HAVILDAR SECURITY WING, BHUBANESWAR, ODISHA
209. SHRI PADMA LOCHAN SAHOO, HAVILDAR, OSAP, SEVENTH BATTALION, BHUBANESWAR, ODISHA
210. SHRI PITABAS BEHERA, HAVILDAR (DRIVER), VIGILANCE DIRECTORATE, CUTTACK, ODISHA
211. SHRI BIPIN BIHARI ROUT, CONSTABLE VIGILANCE DIRECTORATE, CUTTACK, ODISHA
212. SHRI PRADEEP KUMAR MOHANTY, CONSTABLE, CUTTACK, ODISHA
213. SHRI CHARANJIT SINGH, SENIOR SUPERINTENDENT OF POLICE, FARIDKOT, PUNJAB
214. SHRI JASDEEP SINGH, SENIOR SUPERINTENDENT OF POLICE, AMRITSAR RURAL, PUNJAB
215. SHRI JASWINDER SINGH, INSPECTOR, BALONGI, PUNJAB
216. SHRI RAJIV KUMAR, SI, SOHANA, PUNJAB
217. SHRI BALJIT SINGH, SI, INCHARGE CIA STAFF, BARNALA, PUNJAB
218. SHRI PRAN NATH, SI, CID HEADQUARTERS, CHANDIGARH, PUNJAB
219. SHRI BACHITTAR SINGH, ASI, COMMANDO TRAINING CENTRE FORT, BHADURGARH PATIALA, PUNJAB
220. SHRI PAWAN KUMAR, ASI, INCHARGE SPECIAL GUARD, JALANDHAR, PUNJAB
221. SHRI HANS RAJ, ASI, CID UNIT, CHANDIGARH, PUNJAB
222. SHRI SURJIT SINGH, ASI, SAS NAGAR, PUNJAB
223. SHRI RAMANDEEP SINGH, ASI, CID UNIT, AMRITSAR, PUNJAB
224. SHRI SUKHWINDER SINGH, ASI, PPA, PHILLAUR, PUNJAB

225. SHRI KARAMJIT SINGH, ASI, PS SADAR, SANGRUR, PUNJAB
226. SHRI ALOK KUMAR VASHISHTHA, DIGP, ACB JAIPUR, RAJASTHAN
227. SHRI RAVI DUTT GAUR, DCP, SOUTH COMMISSIONERATE JAIPUR, RAJASTHAN
228. DR RAMDEV SINGH, COMMANDANT, 10TH BN RAC (IR) BIKANER, RAJASTHAN
229. SHRI SATYENDRA SINGH, SP, DISTT. BARAN, RAJASTHAN
230. SHRI ASHOK KUMAR GUPTA, OSD (HOME MINISTER), RAJASTHAN
231. SHRI AMAR RAJ, INSPECTOR, PHQ, JAIPURRAJASTHAN
232. SHRI PUSHPENDRA SINGH RATHORE, INSPECTOR, ATS JAIPUR, RAJASTHAN
233. SHRI IQBAL SINGH SIKH, SI, POLICE STATION SADAR BIKANER, RAJASTHAN
234. SHRI MAHAVEER SINGH, PC, 8TH BN, RAC, RAJASTHAN
235. SHRI PURAN MAL SHARMA, ASI, ADDL SUPERINTENDENT OF POLICE OFFICE, CHURU, RAJASTHAN
236. SHRI RAIS KHAN, ASI, CRIME BRANCH JODHPUR, RAJASTHAN
237. SHRI BHANWAR SINGH, HC, CID CB JAIPUR, RAJASTHAN
238. SHRI ANNU KHAN BHAND, HC, FIRST BN RAC JODHPUR, RAJASTHAN
239. SHRI BHAGWAN SINGH, HC, POLICE LINE, JODHPUR, RAJASTHAN
240. SHRI AMRIT LAL PATEL, CONSTABLE, CHITTORGARH, RAJASTHAN
241. SHRI RAJENDRA SINGH SHEKHAWAT, CONSTABLE, FOURTH BN RAC JAIPUR, RAJASTHAN
242. SHRI RAM NATH MEENA, CONSTABLE, ACB, JAIPUR, RAJASTHAN
243. SHRI TSHERING BHUTIA, ASST. SUB-INSPECTOR, NAMCHI, PS SOUTH SIKKIM, SIKKIM
244. SHRI ANAND KUMAR SOMANI, DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE, MADURAI RANGE, TAMIL NADU
245. SHRI N.T. RAMESH, SUPERINTENDENT OF POLICE, TAMIL NADU COMMANDO SCHOOL CHENNAI, TAMIL NADU
246. SHRI D. JAYAVEL, COMMANDANT, TAMILNADU SPECIAL POLICE IX BATTALION MANIMUTHAR, TAMIL NADU
247. SHRI T. MARIAPPAN, ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE, MADURAI, TAMIL NADU
248. SHRI V.R. GHAJANDRAKUMMAR, ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE, POLICE TRAINING COLLEGE, CHENNAI, TAMIL NADU
249. SHRI K. SRIDHAR BABU, ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE, SIU SPECIAL DIVISION HEADQUARTERS, CHENNAI, TAMIL NADU
250. SHRI T.K. NATARAJAN, ADDL SUPERINTENDENT OF POLICE, TRICHY, TAMIL NADU
251. SHRI M. SURULIRAJA, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, KANGAYAM SUB DIVISION, TIRUPPUR DISTRICT, TAMIL NADU
252. SHRI K. MANOHARAN, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, NAMAKKAL SUB DIVISION, TAMIL NADU
253. SHRI JESU JEYAPPAUL, ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE, CCB MADURAI CITY, TAMIL NADU
254. SHRI S. GNANASEKARAN, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, VIGILANCE AND ANTI CORRUPTION KRISHNAGIRI, TAMIL NADU
255. SHRI K. ANGUCHAMY, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, VIGILANCE AND ANTI CORRUPTION, CHENNAI, TAMIL NADU

256. SHRI A. ULAGANATHAN, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, VIGILANCE AND ANTI CORRUPTION TRICHY, TAMIL NADU
257. SHRI M. TAMILSELVAN, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, THANJAVUR , TAMIL NADU
258. SHRI G. ARUCHAMY, ASSISTANT COMMANDANT, TAMIL NADU SPECIAL POLICE, VII BATTALION, POCHAMPALLI, TAMIL NADU
259. SHRI T. RANGASAMY, INSPECTOR OF POLICE, SID CRIME BRANCH, CID, EGMORE CHENNAI, TAMIL NADU
260. SHRI C. SIVANARUL, INSPECTOR OF POLICE, SPECIAL BRANCH CID THANJAVUR DISTRICT, TAMIL NADU
261. SHRI A. SEKAR, INSPECTOR OF POLICE, VIGILANCE AND ANTI CORRUPTION, CHENNAI, TAMIL NADU
262. SHRI S. NATARAJAN, INSPECTOR OF POLICE (TECH), SPECIAL BRANCH, CID, CHENNAI, TAMIL NADU
263. SHRI B. SANKAR LAL, INSPECTOR OF POLICE, CORECELL CID CHENNAI, TAMIL NADU
264. SHRI P. APPAN, SUB INSPECTOR OF POLICE, THUDIYALUR PS COIMBATORE DISTRICT , TAMIL NADU
265. SHRI G. EZHILRAJ, SPECIAL SUB INSPECTOR OF POLICE, SIC VIGILANCE AND ANTI CORRUPTION, CHENNAI, TAMIL NADU
266. SHRI K. R. NAGARAJU, ADDL DCP, HYDERABAD, TELANGANA
267. SHRI A. K. MISHRA, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, OCTOPUS, HYDERABAD, TELANGANA
268. SHRI R. VENKATAIAH, ASSUALT COMMANDER GREYHOUNDS, HYDERABAD, TELANGANA
269. SHRI B JANARDHAN, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE3, WARANGAL, TELANGANA
270. SHRI PALLAKURI NARAYANA, ACP, CYBERABAD, RANGA REDDY DISTRICT, TELANGANA
271. SHRI DABBIKAR RAM GOPAL, INSPECTOR (COMMUNICATIONS), HYDERABAD, TELANGANA
272. SHRI MD. GHOUSE, RSI, PTC, HYDERABAD, TELANGANA
273. SHRI G THIRUPATI REDDY, ASI (SECURITY WING), KHAIRTABAD, HYDERABAD, TELANGANA
274. SHRI DANDIYALA LAXMA REDDY, HEAD CONSTABLE INTELLIGENCE DEPARTMENT, HYDERABAD, TELANGANA
275. SHRI NALISSETTY VENKATESHWARA RAO, HEAD CONSTABLE, HYDERABAD, TELANGANA
276. SHRI LUNAVATH GOPI, POLICE CONSTABLE , MOTHEY PS, NALGONDA DISTRICT, TELANGANA
277. SHRI TARUN CHANDRA DEY, DY SUPERINTENDENT OF POLICE , SOUTH GOMATI, TRIPURA
278. SHRI KESHABLAL CHAKRABORTY, SI, NARSINGARH, TRIPURA
279. SHRI BIDHAN CHANDRA SARKAR, SI, AGARTALA , TRIPURA
280. SHRI SURJYA KISHORE JAMATIA, NAIB SUBEDARR (GD), SEPAHIJALA, TRIPURA
281. SHRI SAHJAHAN MIAH, HAVILDAR GD, KHOWAI, TRIPURA
282. SHRI HARISADHAN TRIPURA, HAVILDAR, KANCHANPUR, TRIPURA
283. SHRI RAMIT SHARMA, DIG, MEERUT RANGE, UTTAR PRADESH
284. SHRI KUSHAR , ADDL SP, CHANDAULI, UTTAR PRADESH
285. SHRI AWADHESH KUMAR PANDEY, ADDL SUPERINTENDENT OF POLICE, PAC MIRZAPUR, UTTAR PRADESH

286. SHRI DADAN PAL, ADDL SUPERINTENDENT OF POLICE, REVENUE AND SPL INT LUCKNOW, UTTAR PRADESH
287. DR. ARVIND BHUSAN PANDEY, ADDL SUPERINTENDENT OF POLICE, PHQ ALLAHABAD, UTTAR PRADESH
288. SHRI MANOJ KUMAR JHA, ADDL SUPERINTENDENT OF POLICE, DGP HQRS LUCKNOW, UTTAR PRADESH
289. DR. AKHILESH KUMAR NIGAM, ADDL SUPERINTENDENT OF POLICE , VIG ESTT LUCKNOW, UTTAR PRADESH
290. SHRI RISHI PAL SINGH, ADDL SUPERINTENDENT OF POLICE, KANPUR DEHAT, UTTAR PRADESH
291. SHRI LALLAN RAI, ADDL SUPERINTENDENT OF POLICE, PHQ ALLAHABAD, UTTAR PRADESH
292. SHRI AJAI SHANKAR RAI, ADDL SUPERINTENDENT OF POLICE, HATHRAS, UTTAR PRADESH
293. SMT. KAMLESHWARI CHANDRA, ADDL SUPERINTENDENT OF POLICE, CBCID KANPUR NAGAR, UTTAR PRADESH
294. SHRI SHESH NATH SINGH YADAV, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE , GRP VARANASI, UTTAR PRADESH
295. SHRI RAM NARAYAN, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, CM SECURITY LUCKNOW, UTTAR PRADESH
296. SHRI ARVIND SHARMA, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, INT ALIGARH, UTTAR PRADESH
297. SHRI VINOD KUMAR TYAGI, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE , SAHARANPUR, UTTAR PRADESH
298. SHRI CHARAN SINGH YADAV, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE , BIJNOR, UTTAR PRADESH
299. SHRI AJAY KUMAR SINGH, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, INT LUCKNOW, UTTAR PRADESH
300. SHRI AJAY KUMAR, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, GAUTAM BUDDHA NAGAR, UTTAR PRADESH
301. SHRI GYAN SINGH, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, ALIGARH, UTTAR PRADESH
302. SHRI SUBEG SINGH SIDDHU, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE , PILIBHIT, UTTAR PRADESH
303. SHRI BRIJVEER SINGH, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, PILIBHIT, UTTAR PRADESH
304. SHRI RAJENDRA SINGH DHAMA, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, BADAUN, UTTAR PRADESH
305. SHRI SHAURAJ SINGH, INSPECTOR, LUCKNOW, UTTAR PRADESH
306. SHRI DEEWAN SINGH, INSPECTOR, ALLAHABAD, UTTAR PRADESH
307. SHRI RANAMAHENDRA PRATAP SINGH, RI, CHANDAULI, UTTAR PRADESH
308. SHRI JAGMOHAN SINGH, SI (MT), MORADABAD, UTTAR PRADESH
309. SHRI HANUMAN PRASAD SHUKLA, SI (RADIO), RADIO HQ LUCKNOW, UTTAR PRADESH
310. SHRI SHAHID ALI, SI (RADIO), RADIO HQ LUCKNOW, UTTAR PRADESH
311. SHRI MADHAV PRASAD DIWEDI, SI , DEORIA, UTTAR PRADESH
312. SHRI SHIV SAGAR PANDEY, SUB INSPECTOR, BANDA, UTTAR PRADESH
313. SHRI AGRESH DUBEY, PLATOON COMMANDER, PAC, AZAMGARH, UTTAR PRADESH
314. SHRI DHARAM PAL SINGH, SUB INSPECTOR, GONDA, UTTAR PRADESH

315. SHRI MUHAMMAD HAKIM BAKSHI, HEAD CONSTABLE, KANPUR, UTTAR PRADESH
316. SHRI PUSHPAK CHANDRA TRIPATHI, HEAD CONSTABLE, INT HQ LUCKNOW, UTTAR PRADESH
317. SHRI KRISHNA KUMAR, HEAD CONSTABLE, CBCID LUCKNOW, UTTAR PRADESH
318. SHRI PRADEEP KUMAR, HEAD CONSTABLE, 37 BN, PAC KANPUR NAGAR, UTTAR PRADESH
319. SHRI CHANDRA PAL SINGH, HEAD CONSTABLE, GAUTAMBUDH NAGAR, UTTAR PRADESH
320. SHRI ABHILAKH SINGH KUSHWAHA, HEAD CONSTABLE, MAHOBA, UTTAR PRADESH
321. SHRI DAYA SHANKAR, HEAD OPERATOR, RADIO HQ LUCKNOW, UTTAR PRADESH
322. SHRI DEV RAJ SINGH, HEAD CONSTABLE, MORADABAD, UTTAR PRADESH
323. SHRI SABIR ALI, HEAD CONSTABLE (MT), SHRAVASTI, UTTAR PRADESH
324. SHRI SHIV NARAYAN SINGH, HEAD CONSTABLE ITI, 38 BN, PAC LUCKNOW, UTTAR PRADESH
325. SHRI BALAK RAM PAL, CONSTABLE, BAREILLY, UTTAR PRADESH
326. SHRI SUKH DEV YADAV, HEAD CONSTABLE, ALLAHABAD, UTTAR PRADESH
327. SHRI KAMLESH BABU, HEAD CONSTABLE, ALIGARH, UTTAR PRADESH
328. SHRI HAWALDAR YADAV, HEAD CONSTABLE, JAUNPUR, UTTAR PRADESH
329. SHRI YANGPAL SINGH, HEAD CONSTABLE, BULANDSHAHAR, UTTAR PRADESH
330. SHRI HARDWARI LAL, HEAD CONSTABLE, PAC LUCKNOW, UTTAR PRADESH
331. SHRI KRISHNA DHAR MISHRA, HEAD OPERATOR, RADIO HQ LUCKNOW, UTTAR PRADESH
332. SHRI JAGNARAYAN SINGH, HEAD CONSTABLE, PAC, UTTAR PRADESH
333. SHRI RAM SHANKAR, HEAD CONSTABLE, PAC KANPUR, UTTAR PRADESH
334. SHRI BALWAN SINGH, HEAD CONSTABLE, LUCKNOW, UTTAR PRADESH
335. SHRI RAKESH KUMAR SHARMA, HEAD CONSTABLE, MEERUT, UTTAR PRADESH
336. SHRI SURESH CHANDRA VERMA, HEAD CONSTABLE, KANNAUJ, UTTAR PRADESH
337. SHRI RAVINDRA SINGH, HEAD CONSTABLE, BADAUN, UTTAR PRADESH
338. SHRI KAMLA KANT MISHRA, HEAD CONSTABLE, BHADOI, UTTAR PRADESH
339. SHRI ANAND SWAROOP SHARMA, HEAD CONSTABLE, MEERUT, UTTAR PRADESH
340. SHRI MUKESH PAL SINGH, HEAD CONSTABLE, BAGPAT, UTTAR PRADESH
341. SHRI SHYAM NARAYAN MISHRA, HEAD CONSTABLE, BHADOI, UTTAR PRADESH
342. SHRI YAMUNA PRASAD PANDEY, HEAD CONSTABLE, SHAHJAHANPUR, UTTAR PRADESH
343. SHRI BRAJPAL SINGH, CONSTABLE (DRIVER), GRP, MORADABAD, UTTAR PRADESH
344. SHRI DEVTADEEN, CONSTABLE DRIVER, HAMIRPUR, UTTAR PRADESH
345. SHRI JEET BAHDUR SINGH, CONSTABLE, AMETHI, UTTAR PRADESH
346. SHRI RAM KARAN AWASTHI, CONSTABLE, GRP, JHANSI, UTTAR PRADESH
347. SHRI SHIVA RAM, CONSTABLE DRIVER, PAC GKR, UTTAR PRADESH
348. SHRI VINAY KUMAR, CONSTABLE, VARANASI, UTTAR PRADESH
349. SHRI UMA SHANKAR VAISHYA, SI (M), EOW LUCKNOW, UTTAR PRADESH
350. SMT. USHA RANI SINGH, SI (M), HQ ALLAHABAD, UTTAR PRADESH
351. SHRI SATISH CHANDRA GUPTA, SI (M), HQ ALLAHABAD, UTTAR PRADESH
352. SHRI UMA SHANKAR MISHRA, SI (M), INT HQ LUCKNOW, UTTAR PRADESH

353. SHRI BACHAN SINGH RANA, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, DISTRICT NAINITAL, UTTARAKHAND
354. SHRI GANESH PRASAD BAUNTHIYAL, INSPECTOR CIVIL POLICE, POLICE HQRS UTTARAKHAND.
355. SHRI KESHI PRASAD, PLATOON COMMANDER, 31 BN PAC RUDRAPUR UTTARAKHAND.
356. SHRI SUPRATIM SARKAR, SPECIAL ADDL COMMISSIONER OF POLICE AND JOINT COMMISSIONER OF POLICE, TRAFFIC, KOLKATA, WEST BENGAL
357. SHRI LAXMI NARAYAN MEENA, JOINT COMMISSIONER OF POLICE ESTABLISHMENT, KOLKATA, WEST BENGAL
358. SHRI VISHAL GARG, DIG, MIDNAPORE RANGE, KHARAGPUR. WEST BENGAL
359. SHRI SANKAR PRASAD BHATTACHARJEE, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, CID, ALIPORE, KOLKATA, WEST BENGAL
360. SHRI SUBRATA CHATTERJEE, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE ( AP), 24 PGS, KOLKATA, WEST BENGAL
361. SHRI ASOK KUMAR GHOSH, ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE SPECIALIZED FORCE, FIRST BN KOLKATA POLICE, WEST BENGAL
362. SHRI SAMAR BOSE, ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE, RESERVE FORCE, KOLKATA, WEST BENGAL
363. SHRI TAPAN CHAKRABORTY, ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE,SPECIAL BRANCH, KOLKATA, WEST BENGAL
364. SHRI BIDIT KUMAR MONDAL, INSPECTOR, BIDHANNAGAR , WEST BENGAL
365. SHRI MAHADEB CHAKRABORTY, INSPECTOR, SOUTH DIVISION KOLKATA, WEST BENGAL
366. SHRI PRASENJIT SHOME, INSPECTOR, TRAFFIC DEPARTMENT, KOLKATA, WEST BENGAL
367. SHRI SAMIR KUMAR PANJA, INSPECTOR, TRAFFIC DEPARTMENT, KOLKATA, WEST BENGAL
368. SHRI RAVI PATIL, SUB INSPECTOR, IB, KOLKATA, WEST BENGAL
369. SHRI ARUNJIT GHOSH, SUB INSPECTOR, CID, ALIPORE, KOLKATA, WEST BENGAL
370. SHRI JEET BAHADUR SUBBA, SUB INSPECTOR(AB), BARRACKPORE, WEST BENGAL
371. SHRI SUJIT CHAKRABORTY, SUB INSPECTOR, SPECIAL TASK FORCE KOLKATA, WEST BENGAL
372. SHRI SYED SAHADAT HOSSAIN, ASSISTANT SUB INSPECTOR, HOWRAH, WEST BENGAL
373. SHRI BIR BAHADUR THAPA, ASSISTANT SUB INSPECTOR(AR), POLICE HQRS, DARJEELING, WEST BENGAL
374. SHRI SUSHEN KUMAR SARKAR, ASSISTANT SUB INSPECTOR, STF, KOLKATA, WEST BENGAL
375. SHRI DEBASIS HALDER, CONSTABLE, KOLKATA, WEST BENGAL
376. SHRI JOYDEB SAHA, CONSTABLE, IB, KOLKATA, WEST BENGAL
377. SHRI SAJID ALI, CONSTABLE, HOWRAH, WEST BENGAL
378. SHRI ARJUN PARAL, CONSTABLE, SOUTH CHABBIS PARGANAS, WEST BENGAL
379. SHRI FABIAN WILLIAM, INSPECTOR (OPERATIONAL), POLICE RADIO, PORT BLAIR, ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS
380. SHRI KRIPA NARAYAN MISHRA, SI, TRAFFIC BRANCH, ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS
381. MS. JASWINDER KAUR, INSPECTOR, RECRUIT TRAINING CENTRE, SECTOR-26, CHANDIGARH.
382. SHRI MANOJ SURESHCHANDRA PATEL, POLICE INSPECTOR, PHQ SILVASSA, DADRA AND NAGAR HAVELI

383. SHRI INTY RAMACHANDRA MOHAN, SUPERINTENDENT OF POLICE, PUDUCHERRY
384. SHRI MOHAN LAL DOGRA, SUBEDAR MAJOR, SHILLONG, MEGHALAYA, ASSAM RIFLES
385. SHRI SUDHAKARAN A, NAIB SUBEDAR, SHILLONG MEGHALAYA, ASSAM RIFLES
386. SHRI W SHYAM KISHORE SINGH, SUBEDAR MAJOR, MANTRIPUKHRI MANIPUR, ASSAM RIFLES
387. SHRI KARTIK UPADHYAYA, SUBEDAR, MANTRIPUKHRI, MANIPUR, ASSAM RIFLES
388. SHRI CHANDRA BAHADUR GURUNG, SUBEDAR, KOHIMA, ASSAM RIFLES
389. SHRI MOZIBUR RAHMAN, SUBEDAR, DIMAPUR NAGALAND, ASSAM RIFLES
390. SHRI SHER RAM, SUBEDAR, CHIESWEMA NAGALAND, ASSAM RIFLES
391. SHRI SUK BAHADUR GURUNG, SUBEDAR, NAGALAND, ASSAM RIFLES
392. SHRI GARU RAM, SUBEDAR, MOKOKCHUNG, NAGALAND, ASSAM RIFLES
393. SHRI MAHABAL PRASAD BHARATI, SUBEDAR MAJOR, GHASPANI, NAGALAND, ASSAM RIFLES
394. SHRI SHANKAR DUTT, SUBEDAR MAJOR, JAIRAMPUR, ASSAM RIFLES
395. SHRI MUKESH TYAGI, COMMANDANT, CSMT , TEKANPUR, BORDER SECURITY FORCE
396. SHRI VIJAY KUMAR THAPLIYAL, COMMANDANT, 76 BN, BORDER SECURITY FORCE
397. SHRI RAJEEV KUMAR, COMMANDANT, NEW DELHI, BORDER SECURITY FORCE
398. SHRI RAKESH RANJAN LAL, COMMANDANT, 23 BN, TURA, BORDER SECURITY FORCE
399. SHRI LALIT KUMAR EKKA, COMMANDANT, CHHATISGARH, BORDER SECURITY FORCE
400. SHRI RAM SALAT RAM, COMMANDANT, 79 BN BORDER SECURITY FORCE
401. DR. BIRAM SINGH, CHIEF MEDICAL OFFICER (SG), 25 BN, CHHAWLA, NEW DELHI, BORDER SECURITY FORCE
402. DR. AMIYARANJAN SARKAR, CHIEF MEDICAL OFFICER( SG), FTR HQ NORTH BENGAL, BORDER SECURITY FORCE
403. DR. INDER SINGH, SECOND IN COMMAND , TEKANPUR MADHYA PRADESH, BORDER SECURITY FORCE
404. SHRI RAJINDER SINGH, DEPUTY COMMANDANT, 200 BN , JAMMU, BORDER SECURITY FORCE
405. SHRI DINESH KUMAR DOVAL, DEPUTY COMMANDANT, 87 BN, AMARKOT, PUNJAB, BORDER SECURITY FORCE
406. SHRI DWARIKA SINGH TOMAR, DEPUTY COMMANDANT, POKRAN, 06-BN , BORDER SECURITY FORCE
407. SHRI ASHIM BISWAS, DEPUTY COMMANDANT, 93 BN, BAIKUNTHPUR, BORDER SECURITY FORCE
408. SHRI CHANDER BHAN DAHIYA, DEPUTY COMMANDANT, 32 BATTALION, HISAR (HARYANA), BORDER SECURITY FORCE
409. SHRI ASHOK KUMAR, DEPUTY COMMANDANT, 60 BN, TRIPURA, BORDER SECURITY FORCE
410. SHRI MOHINDER SINGH KHAIR, DEPUTY COMMANDANT, PALOURA, 127-BN, BORDER SECURITY FORCE
411. SHRI PIJUSH MUKHERJEE, DEPUTY COMMANDANT RAJARHAT, BORDER SECURITY FORCE
412. SHRI OM RAJ, ASSISTANT COMMANDANT, 4 BN BSF, BAISHNAB NAGAR, WEST BENGAL, BORDER SECURITY FORCE



413. SHRI SHYAM SINGH RATHORE, ASSISTANT COMMANDANT, 183 BN, DHANAKGIRI, TURA (MEGHALAYA), BORDER SECURITY FORCE
414. SHRI RAMVIR SINGH, ASSISTANT COMMANDANT, BHUJ, 46-BN BORDER SECURITY FORCE
415. SHRI HARSH SINGH RAWAT, ASSISTANT COMMANDANT INDORE, BORDER SECURITY FORCE
416. SHRI BAVINDER SINGH RANA, ASSISTANT COMMANDANT NEW DELHI, BORDER SECURITY FORCE
417. SMT. SUMAN DATTA, SECTION OFFICER, NEW DELHI, BORDER SECURITY FORCE
418. SHRI SHIV BILASH, INSPECTOR (GD), 29 BN SALBAGAN, BORDER SECURITY FORCE
419. SHRI RAGHUBIR SINGH, INSPECTOR(GD), 61 BN, RANINAGAR, BORDER SECURITY FORCE
420. SHRI DHARMBIR SINGH, INSPECTOR (GD), NEW DELHI, BORDER SECURITY FORCE
421. SHRI VIRENDER SINGH, INSPECTOR (GD), 94 BN ,INDRESHWAR NAGAR, BORDER SECURITY FORCE
422. SHRI GANGA PRASAD TIWARI, INSPECTOR (GD), 55 BN, AMBASSA (TRIPURA), BORDER SECURITY FORCE
423. SHRI DIWAN CHAND KARLOOPIA, INSPECTOR (GD), NEW DELHI, BORDER SECURITY FORCE
424. SHRI RAJBIR SINGH YADAV, INSPECTOR (MINISTERIAL), SHQ BSF BANDIPUR, (J&K), BORDER SECURITY FORCE
425. SHRI VIJAY SINGH NEGI, INSPECTOR, NEW DELHI, BORDER SECURITY FORCE
426. SHRI VIRENDRA , INSPECTOR, NEW DELHI, BORDER SECURITY FORCE
427. SHRI SUMAN KUMAR SHARMA, INSPECTOR (COMMUNICATION), PUNJAB, BORDER SECURITY FORCE
428. SHRI HARI SINGH, SUB INSPECTOR (GD), 90 BN, ABOHAR (PUNJAB), BORDER SECURITY FORCE
429. SHRI GULAM AHMED, SUB INSPECTOR (GD), 138 BN C/O 56 APO, BORDER SECURITY FORCE
430. SHRI BHARAT SINGH, SUB INSPECTOR (GD), 145 BN , C/O 56 APO, BORDER SECURITY FORCE
431. SHRI BABAN THAKUR, SUB INSPECTOR, 100 BN C/O 56 APO, BORDER SECURITY FORCE
432. SHRI SHRI BHAGWAN, SUB INSPECTOR (GD), 55 BN, AMBASSA, BORDER SECURITY FORCE
433. SHRI RANBIR SINGH, SUB INSPECTOR (GD), 04 BN BAISHNABBAGAR, BORDER SECURITY FORCE
434. SHRI RAMESHWAR PANDEY, ASI 48 BN, MAHARANICHERA, BORDER SECURITY FORCE
435. SHRI PRATAP SINGH NEGI, CONSTABLE(COOK), 51 BN BAGAFA, BORDER SECURITY FORCE
436. SHRI RAMESHWAR THAKUR, CONSTABLE (BARBER), 149 BN, KITTAMPALAYAM (TAMIL NADU), BORDER SECURITY FORCE
437. SHRI U. K. GOSWAMI, SUPERINTENDENT OF POLICE BS&FC NEW DELHI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
438. SHRI ANIL SINGH, ADDL SUPERINTENDENT OF POLICE, ACB PORT BLAIR, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
439. SHRI BISWAJIT DAS, ADDL SUPERINTENDENT OF POLICE, BS&FC BANGALORE, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
440. SHRI SHRI KRISHAN, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, IPCC NEW DELHI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

441. SHRI SHAM DUTT, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, EOW MUMBAI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
442. SHRI SATYA NARAYAN JAT, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, SU, NEW DELHI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
443. SHRI RAJESH KUMAR SINHA, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, ACB DHANBAD, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
444. SHRI THIYAGARAJAN SRIDHARAN, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, ACB NAGPUR, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
445. SHRI R. P. SHARMA, INSPECTOR OF POLICE, ACB DEHRADUN, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
446. SHRI PRAKASH SHIVRAM SURVE, INSPECTOR, , ACB MUMBAI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
447. SHRI DEWINDER SINGH, INSPECTOR OF POLICE, SCB CHANDIGARH, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
448. SHRI SWAPAN KUMAR MURMU, INSPECTOR OF POLICE, ACB KOLKATA, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
449. SHRI SURESH CHAND, SUB INSPECTOR OF POLICE, ACU VI , NEW DELHI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
450. SHRI RAJENDRA GANPAT CHAVAN, SUB INSPECTOR OF POLICE, BSFC MUMBAI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
451. SHRI DINESH CHANDER NEGI, HEAD CONSTABLE, ACB DELHI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
452. SHRI TADIPARTHY SUBBAREDDY, HEAD CONSTABE, ACB HYDERABAD, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
453. SHRI RAVI LAL, CONSTABLE, NEW DELHI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
454. SHRI UTTAM KUMAR SARKAR, DEPUTY INSPECTOR GENERAL, BCCL DHANBAD, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
455. SHRI SHIV KUMAR, SENIOR COMMANDANT, BHEL HARIDWAR, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
456. SHRI RAJ KUMAR SINGH, ASSISTANT COMMANDANT, ONGC MUMBAI, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
457. SHRI SUSHIL KUMAR, ASSISTANT COMMANDANT, AMRITSAR AIRPORT, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
458. SHRI PRASANTA KUMAR SETHY, ASSISTANT COMMANDANT, NALCO ANGUL, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
459. SHRI YAD RAM YADAV, ASSISTANT COMMANDANT, MUMBAI, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
460. SHRI ANIL MALGHADE, ASSISTANT COMMANDANT, NAGPUR AIRPORT, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
461. SHRI SANGRAM KESHARI BHANJA, ASST COMMANDANT, NEW DELHI, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
462. SHRI BHAG SINGH, ASSISTANT COMMANDANT, NFL NANGAL, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
463. SHRI BHUPINDER SINGH, ASSISTANT COMMANDANT ONGC NAZIRA, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

464. SHRI SATISH CHANDRA SHARMA, INSPECTOR, NEW DELHI, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
465. SHRI A VALLAIYAN, SUB INSPECTOR, CHENNAI AIRPORT, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
466. SHRI RAJENDRA PRASAD SINGH, ASST SUB INSPECTOR, BSL BOKARO, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
467. SHRI N BALAGANESHAN ., ASST SUB INSPECTOR, RTC ARAKKONAM, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
468. SHRI VANIPENTA VENKATA KRISHNAIAH, ASST SUB INSPECTOR, BHEL HYDERABAD, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
469. SHRI S GOPA KUMAR, ASST SUB INSPECTOR, VPT VIZAG, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
470. SHRI CHANDRAKANT KAMBLE, ASSISTANT SUB INSPECTOR, ISAC BANGALORE, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
471. SHRI RAJVIR SINGH, HEAD CONSTABLE, JAIPUR, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
472. SHRI DATA RAM, CONSTABLE, IGI AIRPORT DELHI, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
473. SHRI SANDEEP GOKEL, DIG, BANTLAB, JAMMU, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
474. SHRI KEWAL SINGH, DIG, GUWAHATI, ASSAM, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
475. SHRI AJAY KUMAR VASHIST, DIG, JORHAT, ASSAM, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
476. SHRI M.J. VIJAY, DIG, COBRA SECTOR, DELHI, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
477. SHRI SANJAY A LATHKAR, DIG, NAGPUR, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
478. DR. ASHOK KUMAR SUKUMARAN, CMO( SG), 81 BN, JASHPUR CHHATISGARH, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
479. SHRI PUKHRAJ JAIPAL, COMMANDANT, 49 BN, SRINAGAR, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
480. SHRI RAMYOPHANG DUIDANG, COMMANDANT, 143 BN, IMPHAL, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
481. SHRI SANAND KAMAL, COMMANDANT, 179 BN, BARAMULLA, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
482. SHRI M. DHINAKARAN, COMMANDANT, GROUP CENTRE, CHENNAI, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
483. SHRI SURESH KUMAR YADAV, SECOND IN COMMAND, AWANTIPORA, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
484. SHRI SAMARENDRA NATH MONDAL, SECOND IN COMMAND, 167 BN, KOLKATA, WEST BENGAL, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
485. SHRI BHARAT KUMAR VAISHNAV, SECOND IN COMMAND, 162 BN, KUPWARA, JAMMU & KASHMIR, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
486. SHRI RAM NIWAS SEKHU, SECOND IN COMMAND, 70 BN, BAWANA DELHI, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
487. SHRI DINESH, SECOND IN COMMAND, 166 BN, JAMMU, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
488. SHRI HEMANT KUMAR SAHU, SECOND IN COMMAND, 147 BN, SILCHAR ASSAM, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
489. SHRI KALYAN SINGHA, SECOND IN COMMAND, DARJEELING WEST BENGAL, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

490. SHRI P C CHAUHAN, SECOND IN COMMAND, 27 BN, BAWANA DELHI, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
491. SMT. N. KUNJARANI DEVI, SECOND IN COMMAND, 186 BN, ARUNACHAL PRADESH, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
492. SHRI SHAKTI SINGH, DEPUTY COMMANDANT, 164 BN, SRINAGAR, J&K, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
493. SHRI PRASHANT KUMAR MISHRA, DEPUTY COMMANDANT, 189 BN, MAYURBHANJ ODISHA, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
494. SHRI TORAN SINGH, INSPECTOR, GROUP CENTRE, RAIPUR, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
495. SHRI NETRAPAL SINGH, INSPECTOR, CENTRAL TRG COLLEGE, COIMBATORE, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
496. SHRI CHANDRA KANT BABU SAWANT, INSPECTOR, 191 BN, GADCHIROLI, MAHARASHTRA, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
497. SHRI UPENDRA KUMAR MODI, INSPECTOR, 4 BN, RAYAGADA ODISHA, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
498. SHRI HARISH RAM, INSPECTOR, 21 BN, R K PURAM, NEW DELHI, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
499. SHRI ROHTAS SINGH, INSPECTOR, 25 BN, SRINAGAR JK, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
500. SHRI SUBHASH CHAND, INSPECTOR, 218 BN, GUMLA JHARKHAND, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
501. SHRI BADRUL HASAN KHAN, INSPECTOR, GROUP CENTRE, GANDHI NAGAR GUJARAT, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
502. SHRI MADAN SINGH, INSPECTOR, 11 BN, LATEHAR JHARKHAND, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
503. SHRI UDAI SINGH, INSPECTOR, SURATGARH RAJASTHAN, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
504. SHRI RAM KUNWAR, SI, 68 BN, IMPHAL, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
505. SHRI RAMESH RAM, SI, 40 BN, ANANTNAG, J&K, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
506. SHRI RAJENDRA SINGH, SI, RANCHI, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
507. SHRI UTPAL MANDAL, SI, 184 BN, MEDINIPUR, WEST BENGAL, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
508. SHRI DESHVIR SINGH, SI, RAIPUR, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
509. SHRI PREM SINGH RAJPUROHIT, SI, 104 BN, ALIGARH, UTTAR PRADESH, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
510. SHRI OM PRAKASH NAUTIYAL, ASI, 54 BN, J&K, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
511. SHRI MOHD AYOUB, HC, 163 BN, ANANTNAG JK, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
512. SMT. GEETA DEVI, SI GD MAHILA, CENTRAL TRG CENTRE, NEEMUCH MP, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
513. SMT. SARALA SARANIA, CT (GD) MAHILA, 232 BN, AJMER, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
514. SHRI GAJENDRA SINGH, INSP TECH, 5 SIG. BN, CHANDIGARH, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
515. SHRI MUNESH KUMAR, INSPECTOR, CENTRAL WEEPON STORE, DARJEELING, WEST BENGAL, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

516. SHRI MAHADEV MANG, SI , GROUP CENTRE, BANGALORE, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
517. SHRI SATBIR SINGH, HC (CARPENTER), 89 BN, BAWANA DELHI, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
518. SHRI GOPI CHAND, HC (DRIVER), O/O IG, RAIPUR , CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
519. SHRI HARISH CHANDRA MISHRA, NAGAON ASSAM, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
520. SHRI TEAGRAM SIKAMINI, CT, 30 BN, SONITPUR, ASSAM, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
521. SHRI DINESH JOSHI, CT, SURATGARH RAJASTHAN, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
522. SHRI M RAMDOSS, ASSTT COMMANDANT, 105 BN, RAF, COIMBATORE, TAMIL NADU, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
523. SHRI SIROSH KUMAR A R, ASSISTANT COMMANDANT (MIN), GROUP CENTRE, BANGALORE, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
524. SHRI VENKATA SUBRAHMANYAM MEDICHERLA, ASSISTANT COMMANDANT (MIN), GROUP CENTRE, RANGAREDDY TELANGANA, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
525. SHRI JANARDAN SINGH, DEPUTY DIRECTOR, IB HQRS., NEW DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
526. DR MANDEEP SINGH TULI, DEPUTY DIRECTOR, IB HQRS., NEW DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
527. SHRI CHUKHU APA, ADD, IB, AIZAWAL, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
528. SHRI SANJAY KUMAR TRIVEDI, ADD, IB HQRS., NEW DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
529. SHRI MANISH PRIYADARSHI, JDD, PATNA, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
530. SHRI SURENDRA SINGH RAWAT, JDD, IB HQRS., NEW DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
531. SHRI CHANDRA SEN SINGH, ASSISTANT DIRECTOR, IB, NEW DELHI , MINISTRY OF HOME AFFAIRS
532. SHRI ATTAVAR GOPALA KRISHNA SHARAN KUMAR, ASSISTANT DIRECTOR, HYDERABAD, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
533. SHRI SUDIPTA DAS, DCIO, KOLKATA, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
534. SHRI SIDDHARTH DAM, DCIO, IB HQRS., NEW DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
535. SHRI SANDEEP MAMGAIN, DCIO, IB HQRS., NEW DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
536. SHRI JYOTI RANJAN SINHA, ASSTT. DIRECTOR, KOLKATA, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
537. SHRI MANISH KUMAR DAS, DCIO, BHOPAL, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
538. SHRI B. D. CHARAN, DCIO, JAIPUR, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
539. SHRI RAVINDER SINGH, DCIO, PATHANKOT (AMRITSAR), MINISTRY OF HOME AFFAIRS
540. SHRI RAJESH ANIL KUMAR MESHAM, ASSTT. DIRECTOR, NAGPUR, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
541. SHRI ARUN KUMAR, ASSTT. DIRECTOR, BANGALORE, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
542. SHRI RAJIV KUMAR THAPLIYAL, ASSISTANT DIRECTOR, LUCKNOW, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
543. MRS. MONIKA A BHOSALE, DCIO, GUWAHATI , MINISTRY OF HOME AFFAIRS
544. SHRI SANJAY KUMAR PANDITA , DCIO/TECH, JAMMU, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
545. SHRI PRADEEP KANDARI, SECTION OFFICER, IB HQRS, NEW DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS

546. SHRI BAGGAM NAGESWARA RAO, ACIO-G/I, VIJAYAWADA, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
547. SHRI ALTAF HUSSAIN MASOODI , ACIO-II/G, SRINAGAR, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
548. SHRI JOHNSON MATHEW , UDC, MUMBAI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
549. SHRI ASHOK KUMAR CHHARI, DIG, PATNA, INDO TIBETAN BORDER POLICE
550. SHRI KAPIL DEV DWIVEDI, DIG, NEW DELHI, INDO TIBETAN BORDER POLICE
551. SHRI THAKUR DASS DEASHTA, DEPUTY COMMANDAN (OFFICE), CENTRAL FRONTIER, BHOPAL, INDO TIBETAN BORDER POLICE
552. SMT. SHASHI KAROLIA, SECTION OFFICER, ITBP, NEW DELHI, INDO TIBETAN BORDER POLICE
553. SHRI NARENDAR SINGH, INSPECTOR (GD), SHQ DEHRADUN, UTTARAKHAND, INDO TIBETAN BORDER POLICE
554. SHRI GHANSHYAM PRASAD SHUKLA, INSPECTOR (GD), ALLAHABAD, INDO TIBETAN BORDER POLICE
555. SHRI GOVIND BALLABH JOSHI, INSPECTOR (TELE), SHQ, SRINAGAR, INDO TIBETAN BORDER POLICE
556. SHRI MAHENDER PAL, SUB INSPECTOR (GD), ITANAGAR, INDO TIBETAN BORDER POLICE
557. SHRI RAM DHARI, CONSTABLE (WM), SHQ, LUCKNOW, INDO TIBETAN BORDER POLICE
558. SHRI PRABHAKAR JOSHI, GROUP COMDR, TRAINING CENTRE, MANESAR, NATIONAL SECURITY GUARD
559. SHRI DEEPAK TUSHAR BANERJEE, GROUP COMMANDER, 12 SRG MANESAR, HARYANA, NATIONAL SECURITY GUARD
560. SHRI PUTHEMPURAKAL K. SATHYAJIT, AC-I, HQ NSG PALAM DELHI, NATIONAL SECURITY GUARD
561. SHRI SHER SINGH THAKUR, DIG, SSB SHQ PURNEA, SASHAstra SEEMA BAL
562. SHRI BHUPAL SINGH RAWAT, AREA ORGANISER, CTC SALONIBARI, SASHAstra SEEMA BAL
563. SHRI ATTAR SINGH PANWAR, AREA ORGANISER, AO PITHORAGARH, SASHAstra SEEMA BAL
564. SHRI PITAMBAR SINGH DANGWAL, EXECUTIVE ENGINEER, FTR HQR RANIKHET, SASHAstra SEEMA BAL
565. SHRI BINOY KRISHNA SARKAR, ASSISTANT COMMANDANT, RANIDANGA, SASHAstra SEEMA BAL
566. SMT. USHA SAJWAN, SAO, NEW DELHI, SASHAstra SEEMA BAL
567. SHRI HARISH CHANDRA SINGH BRIJWAL, FO (TELE), FTR HQR RANIKHET, SASHAstra SEEMA BAL
568. SMT. KALYANI BRAHMA, DFO(WI), SSB SHQ KOKRAJHAR, SASHAstra SEEMA BAL
569. SHRI LHARI DORJEE LHATOO, DIG, HQR NEW DELHI, SPECIAL PROTECTION GROUP
570. SHRI AJAY MISHRA, AIG, SPG HQR, NEW DELHI, SPECIAL PROTECTION GROUP
571. SHRI SURENDRA SINGH, SSA, HQR, NEW DELHI, SPECIAL PROTECTION GROUP
572. SHRI JULY SYRNAH, HEAD CONSTABLE(GD), MEGHALAYA, NORTH EASTERN POLICE ACADEMY
573. SHRI LAWRENCE G MOMIN, HEAD CONSTABLE(GD), MEGHALAYA, NORTH EASTERN POLICE ACADEMY

574. SHRI GURCHARAN SINGH, PA, CHANDIGARH, BUREAU OF POLICE RESEARCH AND DEVELOPMENT
  575. SHRI SUHAS WARKE, DIG, MUMBAI, NATIONAL INVESTIGATION AGENCY
  576. SHRI GOPALAN RAMAN KOTHANDA, INSPECTOR, HYDERABAD, NATIONAL INVESTIGATION AGENCY
  577. SHRI KANU MALI, SI(GD), GUWAHATI, ASSAM, NDRF
  578. SHRI RAKESH SINGH JOON, COMMANDANT, GANDHINAGAR (GUJARAT), NDRF
  579. SHRI O.V.K. SASTRY, ASSISTANT COMMANDANT, HYDERABAD, SVP NPA
  580. SHRI PAWAN SINGH RAWAT, HEAD CONSTABLE, HYDERABAD, SVP NPA
  581. SHRI AMARENDRA SINGH, UNDER SECRETARY, NEW DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
  582. DR ATUL VERMA, DIRECTOR(ENFORCEMENT), FORWARD MARKETS COMMISSION, MUMBAI, MINISTRY OF FINANCE
  583. SHRI VARGHEESE V.K., INSPECTOR, PMA, NEW DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
  584. SHRI ANIL KUMAR NAIR, ASC, MUMBAI, M/O RAILWAYS
  585. SHRI S. SIVASANKARAN, ASC, CHENNAI, M/O RAILWAYS
  586. SHRI P. C. SINHA, DIG, MUMBAI, M/O RAILWAYS
  587. SHRI TARIQUE AHMAD, DIG, KOLKATA, M/O RAILWAYS
  588. MS. AROMA SINGH THAKUR, DIG, SOUTHERN RAILWAY, CHENNAI, M/O RAILWAYS
  589. SHRI K. CHANDRASEKHARA REDDY, SUB INSPECTOR, TUNI, M/O RAILWAYS
  590. SHRI NAREN SAIKIA, HEAD CONSTABLE, LUMDING, M/O RAILWAYS
  591. SHRI R.K. SARAVANAN., ASI, TRICHI, M/O RAILWAYS
  592. SHRI ANIL RAI, INSPECTOR, KOLKATA, M/O RAILWAYS
  593. SHRI ASHOK KUMAR MISHRA, ASI, JABALPUR, M/O RAILWAYS
  594. SHRI N. RAVI KUMAR, INSPECTOR, MAULA ALI, M/O RAILWAYS
  595. SHRI VINAY MAHARAJ, INSPECTOR, BUXAR, M/O RAILWAYS
2. These awards are made under rule 4(ii) of the rule governing the grant of Police Medal for Meritorious Service.

SURESH YADAV  
OSD to the President

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS  
(DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS)

New Delhi, the 27th November 2015

RESOLUTION

Subject : Constitution of Executive Council of Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (RGNIYD), Sriperumbudur, Tamil Nadu-regarding

No. 15-18/2013-RGNIYD—The undersigned is directed to state that this Ministry's Resolution of even number dated 16<sup>th</sup> November, 2015 is treated as withdrawn and cancelled. Further with reference to this Ministry's Resolution of even number dated 4<sup>th</sup> March, 2014 and subsequent Resolution of even number dated 12<sup>th</sup> May, 2014, the approval of the Competent Authority is conveyed to nominate the name of Ms. Monalisa Baruah Mehta as Member of Executive Council, RGNIYD with effect from 09.11.2015 vice Ms. Mary Com, Member Executive Council, RGNIYD mentioned at S.No. 9 of the composition in the category of one eminent sports personality as per the provisions of Rule 12(1) (g) of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development Act, 2012.

2. Approval of the Competent Authority is also conveyed to delete the word “Ex-officio” mentioned in column 3 at Sl. No. 6, 7, 8 & 10 of the composition of Executive Council (EC) as notified in this Ministry’s Resolution of even number dated 4<sup>th</sup> March, 2014.

3. Further, the Competent Authority has approved the appointment of Shri Rajeev Gupta, Secretary, Department of Youth Affairs as Chairperson of Executive Council of RGNIYD as conveyed vide this Ministry’s O.M. No. 15-24/2015-RGNIYD dated 5<sup>th</sup> August, 2015 consequent upon the resignation of Shri Deep Joshi from the post of Chairperson, Executive Council, RGNIYD. The post of Vice-Chairperson, Executive Council, RGNIYD is also vacant consequent upon the resignation of Shri C. R. Kesavan vide his letter dated 14<sup>th</sup> October, 2014.

#### ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India and communicated to all concerned.

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations.

DEBANJANA RAY  
Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में  
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2015  
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.  
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

[www.dop.nic.in](http://www.dop.nic.in)